

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 12—सितम्बर 18, 2015 (भाद्रपद 21, 1937)  
No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 12—SEPTEMBER 18, 2015 (BHADRA 21, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the  
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 2015

सेना शाखा

सं. 215, दिनांक 24 अगस्त 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले0 कर्नल

| पर्सनल संख्या | नाम                     | आर्म/सर्विसिज | ले0 कर्नल दिनांक से |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|
| आई सी 55810   | जंग बहादुर सिंह         | ए एस सी       | 27 अक्टूबर 2014     |
| आई सी 55930   | रविंदर सिंह राणा        | ए एस सी       | 27 अक्टूबर 2014     |
| आई सी 56167   | नितिन चौपडा             | आर्टी         | 27 अक्टूबर 2014     |
| आई सी 56259   | जितेन्द्र त्यागी डी रॉव | इंफैंट्री     | 27 अक्टूबर 2014     |
| आई सी 56307   | रणदीप सिंह              | इंफैंट्री     | 27 अक्टूबर 2014     |
| आई सी 56406   | जैवियर डी सूजा          | आर्टी         | 27 अक्टूबर 2014     |

|             |                       |               |                 |
|-------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| आई सी 56407 | प्रवीण सिंह बिष्ट     | इंजीनियर्स    | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 56439 | पुनीत शर्मा           | ए सी          | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 56564 | हिमांशु बोरगांवकर     | इंजीनियर्स    | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 57235 | प्रेमजीत              | इंजीनियर्स    | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 58287 | समबीत शतादल पत्ताजोशी | आर्टी         | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 58576 | पतनायकुनी नागराज      | ए ई सी        | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 59148 | सुरेश कुमार सिंह      | आर्टी         | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 59332 | अजय बालाकृष्णन        | इंफैंट्री     | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 59500 | अजय तोमर              | इंफैंट्री     | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 59839 | विनीत मदान            | सिगनल्स       | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 59854 | राजेश्वर सिंह कुशवाह  | आर्टी         | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 59964 | मुनीश मुप्ता          | इंजीनियर्स    | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 59967 | ए वेनु गोपाल रेड्डी   | ई एम ई        | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 59984 | दीपक श्रीवास्तवा      | इंफैंट्री     | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 59990 | परीक्षित              | ए सी          | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 60303 | राहुल शुक्ला          | ई एम ई        | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 60331 | के एम संतोष           | ई एम ई        | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 60332 | विनोद सिंह            | इंफैंट्री     | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 60437 | विकास भोमिया          | इंजीनियर्स    | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 60464 | सचिन कुमार            | ई एम ई        | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 60476 | सुनील कुमार सिंह      | इंट           | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 60483 | आशीष चौहान            | ई एम ई        | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 60548 | पवाहजीत सिंह भुल्लड   | ए सी          | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 60591 | नरेश कुमार            | आर्टी         | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 60673 | कुलदीप शैलवाल         | सिगनल्स       | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 60695 | अभय डोगरा             | इंजीनियर्स    | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 60723 | राजेश कुमार सिन्हा    | ए ओ सी        | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 60743 | शशी कांत शर्मा        | आर्टी         | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 60824 | टी एस लोकेश           | इंफैंट्री     | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 60880 | दीपक एम आर            | ई एम ई        | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 61026 | मनीश मालविया          | ए ए डी        | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 61032 | दीपतांश मोहन          | आर्टी         | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 61080 | बिक्रम जीत सिंह बदवार | ए ओ सी        | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 61092 | राहुल सिंह            | इंफैंट्री     | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 61118 | मोहम्मद इरफान नईम     | इंजीनियर्स    | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 61129 | अभिषेक शर्मा          | ई एम ई        | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 61135 | रमनजीत सिंह चाथा      | ए ए डी        | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 61137 | अजय सिंह              | मैक इंफैंट्री | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 61151 | अरिंदम घोष            | इंफैंट्री     | 27 अक्तूबर 2014 |

|             |                            |            |                 |
|-------------|----------------------------|------------|-----------------|
| आई सी 61310 | मिस्सल यशवंत श्यामराव      | ई एम ई     | 27 अक्टूबर 2014 |
| आई सी 61320 | नीतिन                      | सिगनल्स    | 27 अक्टूबर 2014 |
| आई सी 61396 | विनोद कुमार                | इंफैंट्री  | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61526 | अनुराग बक्शी               | ए सी       | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61590 | अमित शुक्ला                | इंफैंट्री  | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61614 | अभिषेक ठाकुर               | इंफैंट्री  | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61630 | अतुल शर्मा                 | इंफैंट्री  | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61633 | मयंक रस्तोगी               | इंजीनियर्स | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61643 | रवि कुमार                  | ए एस सी    | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61657 | पदम गौरु नायडु             | ई एम ई     | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61665 | भुपेन्द्र रावत             | ए ए डी     | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61680 | एम सेल्वा कुमार            | इंफैंट्री  | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61684 | प्रमोद सिंह                | इंफैंट्री  | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61697 | शुभांत कुमार महापात्रा     | इंफैंट्री  | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61709 | अभय सिंह राठौड             | ए सी       | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61711 | विराज गुरुंग               | आर्टी      | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61723 | योगेश झा                   | ए एस सी    | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61724 | शैलेन्द्र सिंह             | आर्टी      | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61737 | अंकुश पठानिया              | इंफैंट्री  | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61748 | धर्मेन्द्र सिंह            | ए ए डी     | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61764 | टी नित्यानंद करुनया मुर्ति | ई एम ई     | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61766 | सरवन कुमार                 | इंफैंट्री  | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61781 | विवेक पाल सिंह             | आर्टी      | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61804 | पीयूष यादव                 | इंट        | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61820 | विवेक कांडवाल              | ई एम ई     | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61840 | राजेश चौधरी                | इंफैंट्री  | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61853 | हर्षवर्धन पांडे            | ए सी       | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61874 | प्रसुन पल्ला               | ए ए डी     | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61879 | संदीप बाना                 | इंट        | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61887 | मनीश कुमार सिंह            | आर्टी      | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61907 | कपिल शर्मा                 | ए एस सी    | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61912 | एस आनंद सिंह               | इंफैंट्री  | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61917 | प्रकाश चंद सिर्शवाल        | इंफैंट्री  | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61918 | तरुण सिंह                  | इंफैंट्री  | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61930 | महिंदर धरानी               | इंट        | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61941 | अतुल श्रीवास्तवा           | इंफैंट्री  | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61944 | ब्रिजेश शर्मा              | इंफैंट्री  | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61947 | जितेन्द्र कुमार शैनी       | सिगनल्स    | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 61959 | अनंत शौरव                  | आर्टी      | 08 दिसम्बर 2014 |

|             |                           |            |                 |
|-------------|---------------------------|------------|-----------------|
| आई सी 62483 | विवेक कुमार पांडे         | ई एम ई     | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 63336 | काराजगी जहीर अब्बास एस ए  | इंजीनियर्स | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 63731 | जसदीप सिंह                | ई एम ई     | 13 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 63743 | सुनील कुमार               | आर्टी      | 13 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 63757 | सौरभ मोदी                 | ए सी       | 13 दिसम्बर 2014 |
| आई सी 64872 | दीपेश साबले               | इंफैंट्री  | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 64879 | विक्रम दीयो सिंह          | इंफैंट्री  | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 64894 | संदीप सिंह                | इंफैंट्री  | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 64983 | करुणा थापलियाल            | ए ई सी     | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 65036 | ताकिर मुंतखाब             | इंफैंट्री  | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 65079 | अमित गुप्ता               | आर्टी      | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 65084 | प्रीतिपाल सिंह आलुवालिया  | ई एम ई     | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 65087 | आशीष चौहान                | इंजीनियर्स | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 65195 | के के गिरी                | इंजीनियर्स | 03 नवम्बर 2014  |
| आई सी 65255 | पीयुष कृष्णा              | आर्टी      | 03 नवम्बर 2014  |
| आई सी 65800 | नहुष माल्विया             | इंजीनियर्स | 27 अक्तूबर 2014 |
| आई सी 67614 | सरोज कुमार अधिकारी        | ए ओ सी     | 27 अक्तूबर 2014 |
| एस सी 00139 | मुरुगासन सी               | इंफैंट्री  | 27 अक्तूबर 2014 |
| एस सी 00176 | जोधा अनिरुद्ध सिंह        | इंफैंट्री  | 27 अक्तूबर 2014 |
| एस सी 00182 | राज पाल सिंह              | सिगनल्स    | 27 अक्तूबर 2014 |
| एस सी 00215 | अमित कुमार आदर्स          | ई एम ई     | 27 अक्तूबर 2014 |
| एस सी 00217 | ए पी पांडे                | ए ओ सी     | 27 अक्तूबर 2014 |
| एस सी 00220 | डी एन तिवारी              | इंफैंट्री  | 27 अक्तूबर 2014 |
| एस सी 00338 | रछपाल सिंह                | इंफैंट्री  | 27 अक्तूबर 2014 |
| एस सी 00358 | दामोदरन पी पी             | ए सी       | 27 अक्तूबर 2014 |
| एस सी 00360 | गिरधारी लाल               | आर्टी      | 27 अक्तूबर 2014 |
| एस सी 00364 | राजिंदर कुमार सैनी        | आर्टी      | 27 अक्तूबर 2014 |
| एस सी 00374 | रामफल सिंह नेहरा          | ए ओ सी     | 27 अक्तूबर 2014 |
| एस सी 00375 | सुधीर थापा                | इंफैंट्री  | 27 अक्तूबर 2014 |
| एस सी 00378 | किशोर कुमार मोरे          | इंफैंट्री  | 27 अक्तूबर 2014 |
| एस सी 00386 | राम कृष्णा यादव           | इंफैंट्री  | 27 अक्तूबर 2014 |
| एस सी 00390 | प्रहलाद सिंह बंधराल       | आर्टी      | 27 अक्तूबर 2014 |
| एस सी 00392 | हरीश चन्दर शर्मा          | आर्टी      | 27 अक्तूबर 2014 |
| एस सी 00393 | रामीनेनी ए नलिनी मोहन रॉव | इंफैंट्री  | 27 अक्तूबर 2014 |
| एस सी 00408 | सत्यनारायण                | इंफैंट्री  | 08 दिसम्बर 2014 |
| एस सी 00422 | वी वेंकटेश                | इंफैंट्री  | 08 दिसम्बर 2014 |
| एस एल 04615 | दिनेश कुमार               | एस एल ए ओ  | 27 अक्तूबर 2014 |
| एस एल 04688 | जयवीर सिंह                | आईईईई/एम   | 27 अक्तूबर 2014 |
| एस एल 05262 | मनोज कुमार                | इंफैंट्री  | 08 दिसम्बर 2014 |

|                  |                       |            |                 |
|------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| डब्ल्यू एस 00194 | मलिका शेख             | ए ओ सी     | 27 अक्टूबर 2014 |
| डब्ल्यू एस 00252 | अमनदीप औलख            | इंजीनियर्स | 27 अक्टूबर 2014 |
| डब्ल्यू एस 00412 | सोनाली सिंह           | ए एस सी    | 27 अक्टूबर 2014 |
| डब्ल्यू एस 00423 | पुनम देवगन            | ई एम ई     | 27 अक्टूबर 2014 |
| डब्ल्यू एस 00494 | अनु सिंह रंधावा       | ए ओ सी     | 27 अक्टूबर 2014 |
| डब्ल्यू एस 00523 | रीता देब              | इंजीनियर्स | 27 अक्टूबर 2014 |
| डब्ल्यू एस 00531 | डोली तिवारी           | ए एस सी    | 27 अक्टूबर 2014 |
| डब्ल्यू एस 00571 | मीनाक्षी काडियान      | इंजीनियर्स | 27 अक्टूबर 2014 |
| डब्ल्यू एस 00782 | अंजु तिवारी           | सिगनल्स    | 27 अक्टूबर 2014 |
| आई सी — 61422    | सत्य कीर्ति मिश्रा    | इंफैंट्री  | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी — 61493    | सचिन भाटिया           | इंजीनियर्स | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी — 61678    | अमित                  | इंफैंट्री  | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी — 61830    | निशित मुरत सिंह ठाकुर | इंफैंट्री  | 08 दिसम्बर 2014 |
| आई सी — 63754    | चिनतलुरी हनुमंथा रॉव  | इंजीनियर्स | 13 दिसम्बर 2014 |
| आई सी — 63337    | विक्रम नेहरा          | इंजीनियर्स | 14 जून 2014     |

## मेजर से ले0 कर्नल

| पर्सनल सं0    | नाम                 | आर्म       |
|---------------|---------------------|------------|
| आई सी — 66035 | विशाल अरोडा         | ई एम ई     |
| आई सी — 66036 | रवि प्रकाश          | ई एम ई     |
| आई सी — 66037 | कार्तिक             | इंजीनियर्स |
| आई सी — 66038 | प्रवीण कुमार        | सिगनल्स    |
| आई सी — 66040 | राहुल रघुवंशी       | सिगनल्स    |
| आई सी — 66041 | अनुज बिन्द्रा       | ई एम ई     |
| आई सी — 66042 | जीजु वर्गिज         | ई एम ई     |
| आई सी — 66043 | अनुजा कुमार आचार्या | इंजीनियर्स |
| एस एस — 40516 | आर एस श्याम         | सिगनल्स    |

..... 20 अप्रैल 2015

| एस एल सं0     | नाम      | आर्म        | ले0 कर्नल दिनांक से |
|---------------|----------|-------------|---------------------|
| एस एल — 04709 | एम रजईया | एस एल बी/आर | 02 अप्रैल 2015      |

| डब्ल्यू एस संख्या | नाम       | आर्म/सर्विसिज |
|-------------------|-----------|---------------|
| डब्ल्यू एस—00810  | सुमन देवी | इंजीनियर्स    |

..... 06 मार्च 2015

|               |                  |     |
|---------------|------------------|-----|
| आई सी — 60448 | निर्मलेन्दुपांडे | इंट |
|---------------|------------------|-----|

..... 09 दिसम्बर 2013

| आई सी सं०     | नाम                   | आर्म          | ले कर्नल दिनांक से |
|---------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| आई सी — 65112 | वी एन सुन्दर राम      | आर्टी         | 02 मई 2015         |
| आई सी — 65113 | अविनाश कुमार          | ए एस सी       | 02 मई 2015         |
| आई सी — 65114 | गौरव सिंह मनकोटिया    | इंफैंट्री     | 02 मई 2015         |
| आई सी — 65115 | आशीष सक्सेना          | आर्टी         | 02 मई 2015         |
| आई सी — 65116 | गौरव भाखडी            | ए सी          | 02 मई 2015         |
| आई सी — 65117 | रविंदर सिंह चौहान     | इंफैंट्री     | 02 मई 2015         |
| आई सी — 65118 | संजय कुमार            | मैक इंफैंट्री | 02 मई 2015         |
| आई सी — 65119 | गिरिजेश दुबे          | ए ए डी        | 02 मई 2015         |
| आई सी — 65120 | आनंद जोन संपत         | इंफैंट्री     | 02 मई 2015         |
| आई सी — 65121 | कंवरजीत सिंह          | इंजीनियर्स    | 02 मई 2015         |
| आई सी — 65122 | प्रवीण जगोटा          | ए सी          | 02 मई 2015         |
| आई सी — 65124 | मोहनीश तिवारी         | आर्टी         | 02 मई 2015         |
| आई सी — 65126 | मुकेश कुमार सिंह      | इंजीनियर्स    | 02 मई 2015         |
| आई सी — 65130 | राज कुमार पुन्नी      | ई एम ई        | 02 मई 2015         |
| आई सी — 65330 | सुरेश कुमार अबरोल     | ए सी          | 01 मई 2015         |
| आई सी — 65331 | विनय कुमार सिंह       | मैक इंफैंट्री | 01 मई 2015         |
| आई सी — 65332 | राकेश कुमार लांबा     | इंफैंट्री     | 01 मई 2015         |
| आई सी — 65333 | अजात शत्रु जांवल      | इंजीनियर्स    | 01 मई 2015         |
| आई सी — 65334 | अनुप कुमार सिंह       | ए एस सी       | 01 मई 2015         |
| आई सी — 65336 | रंजीत आर पवार         | आर्टी         | 01 मई 2015         |
| आई सी — 65337 | विशाल एस जोशी         | आर्टी         | 01 मई 2015         |
| आई सी — 65338 | उमेशवर सिंह           | इंफैंट्री     | 01 मई 2015         |
| आई सी — 65339 | प्रदीप दुग्गल         | इंफैंट्री     | 01 मई 2015         |
| आई सी — 65340 | अश्विनी खुल्लड        | ए सी          | 01 मई 2015         |
| आई सी — 65341 | अजय सांभ्याल          | इंफैंट्री     | 01 मई 2015         |
| आई सी — 65342 | आलोक कोथियाल          | ई एम ई        | 01 मई 2015         |
| आई सी — 65343 | जयदीप सिंह            | इंफैंट्री     | 01 मई 2015         |
| आई सी — 65344 | चिनोद काडियान         | आर्टी         | 01 मई 2015         |
| आई सी — 65345 | मुनीत बंगा            | इंट           | 01 मई 2015         |
| आई सी — 65346 | प्रवीण यादव           | इंफैंट्री     | 01 मई 2015         |
| आई सी — 65347 | क्रमिल केवालिया       | ए ओ सी        | 01 मई 2015         |
| आई सी — 65348 | रूपुश कुमार शर्मा     | ए ए डी        | 01 मई 2015         |
| आई सी — 65349 | प्रदीप कुमार          | इंफैंट्री     | 01 मई 2015         |
| आई सी — 65350 | एस मुथुकृष्णन         | इंफैंट्री     | 01 मई 2015         |
| आई सी — 65351 | अश्विनी कुमार रैना    | ए सी          | 01 मई 2015         |
| आई सी — 65352 | मनोहर सिंह भाटी       | इंफैंट्री     | 01 मई 2015         |
| आई सी — 65353 | परागे अभय कुमार पौलास | आर्टी         | 01 मई 2015         |
| आई सी — 65354 | एल लनखोटिन थांग हओकिप | आर्टी         | 01 मई 2015         |

|               |                             |           |            |
|---------------|-----------------------------|-----------|------------|
| आई सी — 65355 | मनराज सिंह सोही             | ए सी      | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65356 | परब अमित आनंद               | इंफैंट्री | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65357 | विजयंत चौहान                | ए एस सी   | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65359 | हरजिंदर सिंह                | इंफैंट्री | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65360 | बी सुधीर यादव               | ए ए डी    | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65362 | प्रदीप कुमार बेहेरा         | इंफैंट्री | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65363 | अभिषेक कुमार मिश्रा         | आर्टी     | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65364 | विशाल खजुरिया               | इंफैंट्री | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65365 | विजय बाहु एस                | आर्टी     | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65366 | शमशेर चौहान                 | इंफैंट्री | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65367 | दीपक शर्मा                  | ए एस सी   | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65368 | यदुकुल भुषण                 | इंफैंट्री | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65369 | सिद्धार्थ रेधु              | इंफैंट्री | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65370 | ब्रिजेश एम टी               | ए ओ सी    | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65371 | रंजीत चंडेल                 | इंफैंट्री | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65373 | विवेक तलवार                 | ए सी      | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65375 | विनय मेहता                  | आर्टी     | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65376 | मांडके गौतम शरद चन्द्रा     | इंफैंट्री | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65377 | रतनेश कुमार शर्मा           | इंफैंट्री | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65378 | कुमार देवेश                 | ए सी      | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65379 | देविंदर राजपुत              | इंफैंट्री | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65380 | संदीप पाल                   | ए एस सी   | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65382 | मंजीत सिंह                  | ए वी एन   | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65384 | साहु सतीश गौतम              | ए वी एन   | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65385 | विनोद कंवासी                | इंफैंट्री | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65386 | योगिंदर सिंह चौहान          | ए ओ सी    | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65388 | नित्तला चार्ल्स प्रनुथ सागर | आर्टी     | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65389 | सतवीर सिंह कलकल             | आर्टी     | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65390 | प्रवीण सिंह                 | ए ए डी    | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65391 | रंगानाथन एस                 | इंफैंट्री | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65392 | देवेंदर कुमार               | इंफैंट्री | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65393 | विपुल देशवाल                | ए सी      | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65394 | शशी कांत                    | आर्टी     | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65395 | अमित श्रीवास्तवा            | ए एस सी   | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65396 | डेरिक एडलिन                 | ए ए डी    | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65397 | अरिंदम धर                   | इंफैंट्री | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65398 | बी एस श्रीरामामूर्ती        | आर्टी     | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65399 | अश्विनी चौधरी               | सिगनल्स   | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65400 | अंकुर पासी                  | ए एस सी   | 01 मई 2015 |

|               |                       |               |            |
|---------------|-----------------------|---------------|------------|
| आई सी — 65401 | नीरज काडियान          | इंफैंट्री     | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65402 | आशुतोष शर्मा          | मैक इंफैंट्री | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65403 | फरीद उर रहमान         | मैक इंफैंट्री | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65404 | वरुण कुमार            | आर्टी         | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65405 | संधीर कोतवाल          | इंफैंट्री     | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65407 | नरेन्दर पाल ओला       | इंफैंट्री     | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65409 | अनिल पंडित            | ए सी          | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65410 | विनय कुमार सिंह       | आर्टी         | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65411 | विवेक जग्गी           | ए ए डी        | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65412 | पंकज तिवारी           | आर्टी         | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65413 | गोविंद कृष्णा मेनन एन | आर्टी         | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65414 | पिल्लई राकेश व्यसनथ   | इंफैंट्री     | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65415 | केर बहादुर पुन        | इंफैंट्री     | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65416 | देवेंदर सिंह नरुका    | ए एस सी       | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65417 | आशीष तिवारी           | ए ए डी        | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65418 | नितिन दत्ता           | इंफैंट्री     | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65419 | देवेंदर चहल           | इंट           | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65420 | प्रदीप सिंह पोखरिया   | इंफैंट्री     | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65421 | एल गणेश               | इंफैंट्री     | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65422 | संजय कुमार दुबे       | ए ए डी        | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65423 | संजय दास गुप्ता       | इंफैंट्री     | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65424 | सेबेशटियन जचारिया     | इंफैंट्री     | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65425 | सर्वजीत सिंह          | इंफैंट्री     | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65426 | पांडया ऋशिक जतिन      | इंफैंट्री     | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65428 | अनुपम शर्मा           | इंफैंट्री     | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65429 | संदीप सिंह            | ए सी          | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65430 | मनबेन्द्रा बुजरबरुआ   | आर्टी         | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65431 | जी सी चक्रधर          | आर्टी         | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65432 | विनोद आर निकम         | ए ओ सी        | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65433 | बलदेव सिंह ठाकुर      | आर्टी         | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65434 | कुमार अभिजीत बैनर्जी  | ए सी          | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65435 | चरनजीत यादव           | ए एस सी       | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65436 | सुमेश जे एंथोनी       | इंफैंट्री     | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65437 | आदित्य प्रकाश शर्मा   | आर्टी         | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65439 | पुनीत शर्मा           | ए एस सी       | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65440 | नवदीप सिद्धु          | इंफैंट्री     | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65441 | मनीश दत्ता            | इंफैंट्री     | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65442 | मनु                   | आर्टी         | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65443 | ज्योति प्रकाश गौड     | आर्टी         | 01 मई 2015 |

|               |                       |            |            |
|---------------|-----------------------|------------|------------|
| आई सी — 65444 | हिरेन बोरा            | इंफैंट्री  | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65445 | विक्रांत शर्मा        | इंफैंट्री  | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65446 | राहुल व्यास           | इंफैंट्री  | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65448 | दीपेश प्रताप सिंह     | ए सी       | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65449 | दुर्गा प्रसाद नंदा    | ए एस सी    | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65450 | नितेश कुमार           | आर्टी      | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65451 | विकाश सिंह बिष्ट      | ए ए डी     | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65453 | विभोर कुमार अष्टावक्र | आर्टी      | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65454 | महेश कुमार            | इंफैंट्री  | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65455 | जयंता सरकार           | इंफैंट्री  | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65456 | राजेश कुमार           | इंफैंट्री  | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65457 | प्रणव वैश             | इंट        | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65458 | अंकुर प्रतिम बरुआ     | आर्टी      | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65459 | विक्रमजीत सिंह विक्र  | इंफैंट्री  | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65460 | पीयुष कुमार सिंह      | ए एस सी    | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65463 | हरप्रीत सिंह          | ए एस सी    | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65464 | निशांत कुमार          | इंफैंट्री  | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65465 | पंकज कुमार            | इंफैंट्री  | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65466 | मनीष कपिल             | इंजीनियर्स | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65467 | अरुण कुमार            | इंफैंट्री  | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65468 | अभिषेक सिंह नेगी      | आर्टी      | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65470 | पुष्पिंदर सिंह        | इंफैंट्री  | 01 मई 2015 |
| आई सी — 65801 | रचित आलुवालिया        | सिगनल्स    | 08 मई 2015 |
| आई सी — 65802 | सबरिश मेनन            | ई एम ई     | 08 मई 2015 |

## मेजर से ले0 कर्नल

| एस एल सं0 | नाम                   | आर्म                      |
|-----------|-----------------------|---------------------------|
| 04691     | सुरेश कुमार           | ए एस डब्ल्यू (इंजीनियर्स) |
| 04692     | सैथिल कुमार डी        | ए ई ई/बी/आर (इंजीनियर्स)  |
| 04693     | रामेश्वर              | ए ई ई/बी आर (इंजीनियर्स)  |
| 04696     | बी बसावा लिंगा प्रसाद | ए ई ई/बी/आर (इंजीनियर्स)  |
| 04697     | बलबीर सिंह            | ए ई ई ई/एम (इंजीनियर्स)   |
| 04698     | शाम सिंह यादव         | ए ई ई बी/आर (इंजीनियर्स)  |
| 04699     | इंदर सिंह             | ए एस डब्ल्यू (इंजीनियर्स) |
| 04700     | संजय बलोधी            | ए एस डब्ल्यू (इंजीनियर्स) |
| 04701     | जयाप्रकाश यू बी       | ए एस डब्ल्यू (इंजीनियर्स) |
| 04703     | उन्नी कृष्णन नायर आर  | आर ओ (ए एस सी)            |

|       |                     |                           |
|-------|---------------------|---------------------------|
| 04704 | आर एस बनकोटी        | ए ई ई बी/आर (इंजीनियर्स)  |
| 04705 | अनिल कुमार          | ए ई ई बी/आर (इंजीनियर्स)  |
| 04707 | अजित कुमार          | ए एस डब्ल्यू (इंजीनियर्स) |
| 04708 | राजेश वासुदेवा      | ए ई ई ई/एम (इंजीनियर्स)   |
| 04711 | संजीव कुमार शर्मा   | ए ई ई बी/आर (इंजीनियर्स)  |
| 04712 | के एन सुनील कुमार   | ए ई ई बी/आर (इंजीनियर्स)  |
| 04713 | ए के सिंह           | आर ओ (ई एम ई)             |
| 04714 | विनोद कुमार         | ए ई ई बी/आर (इंजीनियर्स)  |
| 04715 | हरीहर कुमार एन      | आर ओ (ई एम ई)             |
| 04716 | एस थोमस एडवर्ड      | ई एम ए ई (ई एम ई)         |
| 04718 | टी संपत             | आर ओ (ए एस सी)            |
| 04719 | जयबीर सिंह          | साइफर (सिगनल्स)           |
| 04720 | बलजीत सिंह          | साइफर (सिगनल्स)           |
| 04721 | श्री कुमार एस       | आर ओ (ए एस सी)            |
| 04722 | रणबीर सिंह          | आर ओ (ए ओ सी)             |
| 04723 | पी के पात्रो        | आर ओ (ए एस सी)            |
| 04724 | रामेश्वर            | आर ओ (इंफैंट्री)          |
| 04725 | सुनील कुमार भल्ला   | आर ओ (ए एस सी)            |
| 04727 | नरेन्द्र कुमार दुबे | आर ओ (आर्टी)              |
| 04728 | राजीव डी            | आर ओ (इंजीनियर्स)         |
| 04730 | एम अलागु            | आर ओ (ई एम ई)             |
| 04731 | विजय पाल            | टी ई ओ (ए डी आर्टी)       |
| 04732 | एम डी कृष्णा कुमार  | ए ई ई ई/एम (इंजीनियर्स)   |
| 04734 | जी उथिरिया राज      | आर ओ (इंजीनियर्स)         |
| 04735 | शरवन राम            | आर ओ (इंफैंट्री)          |

..... 02 अप्रैल 2015

राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं । ये पदोन्नतियाँ एस एल पी (सिव) नं. 9367-9369/2011 जिसका शीर्षक सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबिता पूनिया एवं अन्य है, के अंतिम निर्णय के शर्त पर दिया जाता है ।

नियमित सेना

अल्पकालिक सेवा कमीशन (डब्ल्यू एस)

मेजर से ले. कर्नल

| पर्सनल सं.        | नाम         | आर्म       |
|-------------------|-------------|------------|
| डब्ल्यू एस —00545 | समिका शिवरन | ए एस सी    |
| डब्ल्यू एस —00564 | सुनिता रे   | सिग्नलस    |
| डब्ल्यू एस —00565 | श्वेता सिंह | इंजीनियर्स |
| डब्ल्यू एस —00574 | सोनाली रथ   | सिग्नलस    |

..... 03 मार्च 2015

## ले. से कप्तान

| आई सी नं. | नाम                 | आर्म        | कप्तान दिनांक से |
|-----------|---------------------|-------------|------------------|
| 73302     | विजय गौतम           | आर्टी       | 17 अक्टूबर 2010  |
| 73590     | सिद्धार्थ सिंह      | ए ए डी      | 22 अक्टूबर 2010  |
| 73644     | चौगले युवराज मारुति | इन्फैन्ट्री | 20 अप्रैल 2011   |
| 73750     | अक्षय चड्ढा         | ए सी        | 20 अप्रैल 2011   |
| 73771     | मितेश राठौर         | सिग्नल्स    | 21 अक्टूबर 2011  |
| 73797     | राहुल बेओत्रा       | सिग्नल्स    | 21 अक्टूबर 2011  |
| 73827     | कुमार साकेत रंजन    | आर्टी       | 21 अक्टूबर 2011  |

## अल्प-कालीन सेवा कमीशन (एस.सी.)

## ले. से कप्तान

| एस सी सं. | नाम                   | आर्म            |
|-----------|-----------------------|-----------------|
| 00747     | राजेश शर्मा           | मैक इन्फैन्ट्री |
| 00748     | भुवन चन्द्र शर्मा     | एएडी            |
| 00749     | सेंथिलकुमार पी        | ईएमई            |
| 00750     | राहुल देव शर्मा       | एएससी           |
| 00751     | रमेश चन्द्र झा        | ईएमई            |
| 00752     | अँचरा पंकज जेटारामजी  | आर्टी           |
| 00753     | उत्तम पाटील           | इंजीनियर्स      |
| 00754     | गीता नन्द             | इन्फैन्ट्री     |
| 00755     | शिवनाथ कुमार पी       | इंजीनियर्स      |
| 00756     | दिलीप चौहान           | एओसी            |
| 00757     | गजेन्द्र सिंह सौरोत   | एएससी           |
| 00758     | कमल कुमार शर्मा       | इन्फैन्ट्री     |
| 00759     | प्रवीन सिंह           | एसी             |
| 00760     | मोरे राजू हरिभाऊ      | आर्टी           |
| 00761     | मुकेश यादव            | इन्फैन्ट्री     |
| 00762     | रिनूप नारांगली        | इन्फैन्ट्री     |
| 00763     | रोहित कुमार सिंह      | सिग्नल्स        |
| 00764     | अमित खत्री            | इन्फैन्ट्री     |
| 00765     | वीरेन्द्र सिंह        | आर्टी           |
| 00766     | मनि चन्द्र सिंघा      | सिग्नल्स        |
| 00767     | धर्मेन्द्र सिंह       | सिग्नल्स        |
| 00768     | विनोद प्रसाद          | इन्फैन्ट्री     |
| 00769     | प्रशान्त सिंह भदौरिया | ईएमई            |
| 00770     | संग्राम सिंह          | आर्टी           |
| 00771     | सचिन प्रेम सिंह       | एओसी            |

|       |                           |             |
|-------|---------------------------|-------------|
| 00772 | देवेन्द्र कुमार चतुर्वेदी | इन्फैन्ट्री |
| 00773 | अरोकिया राज वी            | इन्फैन्ट्री |
| 00774 | सुमन्ता भट्टाचार्या       | एएससी       |
| 00775 | राजेश के पी               | आर्टी       |
| 00776 | ए मरियप्पन                | एसी         |
| 00777 | कृष्णा पानीग्रही          | ईएमई        |
| 00778 | विकास कुमार सिंह          | इन्फैन्ट्री |
| 00779 | रविन्द्र सिंह             | आर्टी       |
| 00780 | विनोद चतुर्वेदी           | एएडी        |
| 00781 | गोविन्द सिंह गौड़         | इंजीनियर्स  |
| 00782 | पी सुनील कुमार रेड्डी     | आर्टी       |
| 00783 | सी वेन्कटेश कुमार         | इंजीनियर्स  |

..... 08 जून 2015

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (मैन)

ले. से कप्तान

| एस.एस.सं. | नाम                        | आर्म        | वरीयता तिथि   | कोर्स               | संशोधित वरीयता तिथि | कप्तान दिनांक से |
|-----------|----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 45694     | हरविन्दर सिंह              | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |
| 45695     | ईशान राणा                  | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |
| 45696     | प्रवीन कुमार राजपुरोहित    | इंजीनियर्स  | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |
| 45698     | जवलकर वैभव प्रमोद          | ए सी        | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |
| 45699     | उदय प्रताप सिंह            | मैक         | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |
| 45700     | राहुल                      | आर्टी       | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |
| 45702     | मुकेश कुमार जोशी           | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |
| 45703     | संदीप पठानिया              | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |
| 45704     | पंकज कुमार                 | ए ओ सी      | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |
| 45705     | नितेश कुमार सिंह           | ई एम ई      | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |
| 45707     | लोकेन्द्र कुमार            | आर्टी       | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |
| 45708     | रोहन सिंह                  | ए ए डी      | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |
| 45709     | रोशन पोखरेल                | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |
| 45711     | ताबिश रजा                  | सिग्नल      | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |
| 45712     | खेतरीमयूम आनंद कृष्णन सिंह | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |
| 45714     | अमरेन्द्र प्रताप सिंह      | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |
| 45715     | वीर अक्षय दिलीप            | आर्टी       | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |
| 45716     | उमेश राघव                  | ई एम ई      | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |
| 45717     | नवीन कुमार                 | ए एस सी     | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |
| 45719     | इटित यादव                  | सिग्नल      | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |
| 45720     | ज्ञानेश प्रताप             | ए ए डी      | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |

|       |                           |             |               |                     |              |              |
|-------|---------------------------|-------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| 45721 | अनुज भूषण                 | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45722 | रंजीत सिंह सिनसिनवार      | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45723 | सेबसटिन नाईडु             | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45727 | आशीष कुमार                | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45728 | हरसिमरनजीत सिंह           | आर्टी       | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45729 | शीलेश कुमार पांडेय        | ए सी        | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45730 | पिंगाक्ष मिश्र            | इंट         | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45732 | सैयद इफान हुडा            | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45733 | अखिल के उमेश              | आर्टी       | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45734 | कपिल कुमार                | आर्टी       | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45735 | पंकज कुमार                | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45736 | टाटा रामदास अरुण बाबू     | ए ए डी      | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45737 | योगेन्द्र सिंह            | आर्टी       | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45738 | कमलेश वर्मा               | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45739 | रंजन भाटिया               | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45740 | भोसले पृथ्वीराज बालासाहेब | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45741 | जसकीरत सिंह हंसपाल        | ए एस सी     | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45742 | तरुण मियान                | आर्टी       | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45746 | अंकित ढौंडियाल            | ए ओ सी      | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45747 | अभिषेक पांडेय             | आर्टी       | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45748 | सुशील कुमार               | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45750 | युवराज नोएल पाठक          | ए सी        | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45751 | अमिताभ विष्णु शर्मा       | आर्टी       | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45752 | तरुण कालरा                | जैग         | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45753 | सेमिनथंग हौकिप            | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45754 | विघ्नेश कुमार वी          | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45755 | कोरटिकेरे रविचन्द्रलोकेश  | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45756 | वरुण यादव                 | इंजीनियर्स  | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45758 | पी एफ कैसी फीमू           | मैक         | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45759 | गुरअरिबम वेदकान्ता शर्मा  | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45760 | युमनम गिनेश सिंह          | इंजीनियर्स  | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45761 | विनय ठाकुर                | ए एस सी     | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45763 | प्रणव शर्मा               | इंजीनियर्स  | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45764 | अनिल कुमार                | सिग्नल      | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45766 | के शशि कांत               | ई एम ई      | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45767 | अनिल मलिक                 | आर्टी       | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45768 | विशाल कटोच                | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45769 | पटेल महेक बिपिनचन्द्र     | ए ओ सी      | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45770 | सूर्यवंशी बालाजी गंगाधर   | ए ओ सी      | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |

|       |                         |             |               |                     |              |              |
|-------|-------------------------|-------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| 45772 | ग्रेगरी शपांक मार्टिन   | आर्टी       | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45773 | आनंद जे पी              | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45774 | प्रत्यूष पुष्पम         | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45775 | हंसराज सिंह शेखावत      | आर्टी       | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45776 | इरनबम मोना मित्तई       | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45777 | दीपक रावत               | ई एम ई      | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45778 | राज कमल                 | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45780 | पंकज सेठी               | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45782 | सुमित कुमार विज         | ई एम ई      | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45783 | अभिषेक                  | ए एस सी     | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45784 | राजकुमार देवेन्द्र सिंह | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45785 | शक्ति सिंह राठौर        | ए ओ सी      | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45786 | एल के सुभाष अनाल        | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45788 | विष्णु एच               | आर्टी       | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45789 | रिकाश वर्मा             | ए ए डी      | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45790 | मनसूर अहमद              | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45791 | बी आर कनिष्क केशव       | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45792 | सी महेन्द्र कुमार       | ई एम ई      | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45794 | पुनशिबा पेबम            | आर्टी       | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45795 | अमन प्रताप सिंह जामवाल  | ए एस सी     | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45796 | योगेश विश्णोई           | ए ओ सी      | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45797 | अचल सिरौही              | जैग         | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45798 | सुमित कुमार             | ए सी        | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45799 | विवेक थपलियाल           | सिग्नल      | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45800 | ऋषभ श्रीवास्तव          | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45801 | देवेन्द्र सिंह          | सिग्नल      | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45802 | केकाणे चिन्मय सदाशिव    | इंजीनियर्स  | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45804 | गौरव गोयल               | इंजीनियर्स  | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45805 | अक्षय कुमार सिंह        | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45806 | अनिसूर रहमान शाह        | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45807 | निशांत कुमार            | आर्टी       | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45808 | रूपक रंजन दत्ता         | इंजीनियर्स  | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45810 | मोहम्मद साहानवाज हुसैन  | आर्टी       | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45811 | अक्षय संजय थत्ते        | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45813 | प्रेम दीप आनन्द         | सिग्नल      | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45814 | विष्णु शंकर शुक्ला      | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45815 | भव्य सिंह               | आर्टी       | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45817 | निखिल कुमार झा          | ई एम ई      | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45818 | चन्द्र प्रकाश           | आर्टी       | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |

|       |                             |             |               |                     |              |              |
|-------|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| 45819 | किशन सिंह                   | ए एस सी     | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45820 | सुख अंगद सिंह               | ए सी        | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45821 | तरुण वी पिल्लई              | जैग         | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45824 | जामेश जोसेफ                 | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45825 | राजदीप दिनकर पंदेरे         | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45826 | समर कुशवाहा                 | ए एस सी     | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45827 | मोई रांगथेम देवादत्ता       | इंजीनियर्स  | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45828 | अनिरुद्ध पपनेई              | ए ओ सी      | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45829 | इंदरजीत सिंह                | आर्टी       | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45832 | देवेन्द्र सिंह तंवर         | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45833 | रमन दीप सिंह मनहास          | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45834 | आशीष अंजनेया                | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45835 | ओईनम सुरज सिंह              | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45836 | प्रशांत छेत्री              | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45837 | विकास लिखितकर               | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45838 | मोहित कथूरिया               | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45839 | सग्गु रणबीर सिंह मंजीत सिंह | इंजीनियर्स  | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45840 | राजा मुराद                  | आर्टी       | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45841 | पुष्पेन्द्र यादव            | आर्टी       | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45844 | नमित पांडेय                 | इन्फैन्ट्री | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45845 | सुमित कपूर                  | इंजीनियर्स  | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45849 | केतन दवघरिया                | ए ए डी      | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45850 | गनानेष् कुमार               | ए सी        | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45853 | जसकरन सिंह                  | आर्टी       | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 94(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |

अल्प-कालीन सेवा कमीशन(एस.एस.सी.डब्ल्यू.)

ले. से कप्तान

| एस.एस.सं. | नाम                   | आर्म       | वरीयता तिथि   | कोर्स                      | संशोधित वरीयता तिथि | कप्तान दिनांक से |
|-----------|-----------------------|------------|---------------|----------------------------|---------------------|------------------|
| 45697     | पूजा चौहान            | इंजीनियर्स | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |
| 45701     | भावना स्याल           | सिग्नल     | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |
| 45706     | मीनू शर्मा            | ए एस सी    | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |
| 45710     | अनिता                 | ए ओ सी     | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |
| 45713     | आंचल भारद्वाज         | इंट        | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |
| 45718     | शेंडे ऋजुला रविन्द्र  | सिग्नल     | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |
| 45724     | कनिका सी बी सिंह      | ए ओ सी     | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |
| 45726     | बोरसे पल्लवी भाऊसाहेब | ए ए डी     | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |
| 45731     | सोनिया अरोड़ा         | ए एस सी    | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |
| 45743     | प्रीति चौहान          | ए एस सी    | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13        | 15 अप्रैल 15     |

|       |                  |            |               |                            |              |              |
|-------|------------------|------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| 45744 | ज्योत्सना सिंह   | ए ए डी     | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45745 | दीपिका सिंह      | ए ए डी     | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45749 | नेहा भारद्वाज    | ए ओ सी     | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45757 | अपूर्वा कौशिक    | ई एम ई     | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45762 | आईना             | इंजीनियर्स | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45765 | अर्चना चौहान     | ए ए डी     | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45779 | शिखा शर्मा       | एविएशन     | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45781 | शिल्पी सिंह      | ए ओ सी     | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45787 | साधना बावा       | ए एस सी    | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45793 | जूही शर्मा       | ए एस सी    | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45803 | के प्रीति        | ई एम ई     | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45809 | शैफाली कौशिक     | ए ए डी     | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45812 | अंजली त्यागी     | इंजीनियर्स | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45816 | नेहा सेंगर       | सिग्नल     | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45822 | मोनिका सलारिया   | ए ओ सी     | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45830 | अग्नेयता सक्सेना | ए ओ सी     | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45831 | मन्दिरा सिंह     | ए एस सी    | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45842 | हिना सेठ         | इंट        | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45843 | नान्थोइ ओइनाम    | ए ओ सी     | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45846 | सिमरत ढिल्लो     | ए एस सी    | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45847 | रीतिका मेहता     | ए ए डी     | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45848 | प्रियंका सिंह    | ए एस सी    | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45851 | अरणिमा सेहगल     | ए ओ सी     | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45852 | फरहत हसन         | सिग्नल     | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |
| 45854 | शिवांगी शर्मा    | इंजीनियर्स | 15 सितम्बर 12 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.08(एन टी) | 15 अप्रैल 13 | 15 अप्रैल 15 |

अल्प-कालीन सेवा कमीशन(मैन)

ले. से कप्तान

| एस.एस.सं. | नाम             | आर्म        | वरीयता तिथि   | कोर्स            | संशोधित वरीयता तिथि | कप्तान दिनांक से |
|-----------|-----------------|-------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|
| 46867     | अंकित कुमार नैन | एविएशन      | 16 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 39(टी) | 16 अक्टूबर 12       | 16 अक्टूबर 14    |
| 46896     | अभिषेक यादव     | ए एस सी     | 16 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 39(टी) | 16 अक्टूबर 12       | 16 अक्टूबर 14    |
| 46952     | लिजु राजन       | ई एम ई      | 16 सितम्बर 12 | एस.एस.सी. 39(टी) | 16 अक्टूबर 12       | 16 अक्टूबर 14    |
| 47271     | अतुल पठानिया    | इन्फैन्ट्री | 17 मार्च 13   | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13        | 17 अप्रैल 15     |
| 47275     | प्रखर शर्मा     | इंजीनियर्स  | 17 मार्च 13   | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13        | 17 अप्रैल 15     |
| 47276     | राहुल शर्मा     | सिग्नल्स    | 17 मार्च 13   | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13        | 17 अप्रैल 15     |
| 47278     | राकेश कुमार     | इन्फैन्ट्री | 17 मार्च 13   | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13        | 17 अप्रैल 15     |
| 47281     | राजेश कुमार आर  | ई एम ई      | 17 मार्च 13   | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13        | 17 अप्रैल 15     |
| 47283     | चिरायु जोशी     | ए सी        | 17 मार्च 13   | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13        | 17 अप्रैल 15     |

|       |                   |                    |             |                  |              |              |
|-------|-------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|
| 47284 | गिफिन जार्ज       | एविएशन             | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47285 | मोहित धवन         | सिग्नल्स           | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47287 | धर अनुराग एस      | सिग्नल्स           | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47288 | मुन्जे सागर सुधीर | इंजीनियर्स         | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47289 | के नागार्जुन      | इन्फैन्ट्री        | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47291 | अनूप एम           | इंजीनियर्स         | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47293 | शिवकुमार एस एन    | इंजीनियर्स         | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47294 | रविन्द्र सिंह     | आर्टी              | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47298 | रतन सिंह गुर्जर   | इन्फैन्ट्री        | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47299 | अमृत पाल सिंह     | ए सी               | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47300 | मजहीर एम कपाड़िया | ए ओ सी             | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47301 | विवेक कानुनगो     | इंजीनियर्स         | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47302 | चितरंजन पाठक      | इंजीनियर्स         | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47303 | विपिन कुमार रावत  | एविएशन             | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47304 | अरुण कुमार शर्मा  | ई एम ई             | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47305 | शैलेन्दर          | सिग्नल्स           | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47307 | किरण ए            | इंजीनियर्स         | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47309 | हर्षित शर्मा      | एविएशन             | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47312 | अविनाश यादव       | आर्टी              | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47313 | राहुल सिंह        | ए ए डी             | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47314 | दीप सिंह          | इन्फैन्ट्री        | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47315 | विन्नी के वर्गीस  | सिग्नल्स           | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47316 | नीतिश कुमार       | ए ओ सी             | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47317 | अभय कुमार         | इंजीनियर्स         | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47318 | वरुण गौतम         | ई एम ई             | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47320 | आशीष रावत         | इंजीनियर्स         | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47321 | अविनाश कुमार      | आर्टी              | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47322 | गौरव फौगट         | ए ए डी             | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47323 | विशाल कुमार       | ई एम ई             | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47324 | अभिषेक बन्धु      | इन्फैन्ट्री        | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47326 | शिवम चक्रवर्ती    | मैक<br>इन्फैन्ट्री | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47327 | सम्राट अशोक घाडी  | इन्फैन्ट्री        | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47328 | सुनील सिंह        | सिग्नल्स           | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47329 | सुजान सिंह        | ई एम ई             | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |

|       |                               |             |             |                  |              |              |
|-------|-------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|
| 47330 | लक्ष्मीकान्ता एस              | ई एम ई      | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47332 | अनूप मोहन                     | ई एम ई      | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47333 | अनिरुध गिलदीयाल               | इन्फैन्ट्री | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47334 | निशान्त कुमार शर्मा           | इंजीनियर्स  | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47335 | युवराज सिंह                   | आर्टी       | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47337 | अपूर्व चित्तौरिया             | ई एम ई      | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47338 | दिनेश कुमार                   | सिग्नल्स    | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47339 | आशीष राठी                     | सिग्नल्स    | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47340 | अनुप सिंह एन आर               | सिग्नल्स    | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47341 | अभिषेक सिंह                   | आर्टी       | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47343 | सिनाई तलवादकर<br>रामकृष्ण उदय | ई एम ई      | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47344 | मनप्रीत सिंह                  | आर्टी       | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47345 | अवनेश राजपूत                  | इंजीनियर्स  | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47346 | अनुज लखानी                    | सिग्नल्स    | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47347 | दिनेश ए                       | इंजीनियर्स  | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47348 | सुजीत कुमार सिंह              | सिग्नल्स    | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47349 | इष्टप्रीत सिंह                | सिग्नल्स    | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47351 | नोगेन्द्र हुड्डा              | इंजीनियर्स  | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47354 | अखिल धवन                      | ए एस सी     | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47355 | किशोर के                      | इंजीनियर्स  | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47357 | अर्पित अग्रवाल                | इंजीनियर्स  | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47358 | कमलेश माहतो                   | सिग्नल्स    | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47359 | गौरव मिश्रा                   | इंजीनियर्स  | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी. 40(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |

अल्प-कालीन सेवा कमीशन(एस.एस.सी.डब्ल्यू.)

ले. से कप्तान

| एस.एस.सं. | नाम           | आर्म       | वरीयता तिथि | कोर्स                    | संशोधित वरीयता तिथि | कप्तान दिनांक से |
|-----------|---------------|------------|-------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| 47272     | मेघा ठाकुर    | ई एम ई     | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11(टी) | 17 अप्रैल 13        | 17 अप्रैल 15     |
| 47274     | जैस्मीन कौशिक | सिग्नल्स   | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11(टी) | 17 अप्रैल 13        | 17 अप्रैल 15     |
| 47277     | रितु मलिक     | सिग्नल्स   | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11(टी) | 17 अप्रैल 13        | 17 अप्रैल 15     |
| 47279     | प्रेमलता      | ई एम ई     | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11(टी) | 17 अप्रैल 13        | 17 अप्रैल 15     |
| 47280     | अमनदीप कौर    | इंजीनियर्स | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11(टी) | 17 अप्रैल 13        | 17 अप्रैल 15     |
| 47282     | साक्षी त्यागी | ई एम ई     | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11(टी) | 17 अप्रैल 13        | 17 अप्रैल 15     |
| 47286     | संजना मित्तल  | ई एम ई     | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11(टी) | 17 अप्रैल 13        | 17 अप्रैल 15     |
| 47290     | कविता भट्ट    | इंजीनियर्स | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11(टी) | 17 अप्रैल 13        | 17 अप्रैल 15     |

|       |                    |            |             |                         |              |              |
|-------|--------------------|------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 47292 | चित्रा प्रताप      | ई एम ई     | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी.डब्ल्यू 11(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47295 | अनन्दीता वर्मा     | सिग्नल्स   | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी.डब्ल्यू 11(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47296 | खुशबू पटनी         | सिग्नल्स   | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी.डब्ल्यू 11(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47306 | निशा               | इंजीनियर्स | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी.डब्ल्यू 11(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47308 | पिल्लैई गौरी सुरेश | इंजीनियर्स | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी.डब्ल्यू 11(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47310 | वगां भारगवी        | सिग्नल्स   | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी.डब्ल्यू 11(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47311 | अय्यर अनुपमा गणेश  | इंजीनियर्स | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी.डब्ल्यू 11(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47319 | सोनम दूबे          | ई एम ई     | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी.डब्ल्यू 11(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47325 | स्नेहा चौधरी       | इंजीनियर्स | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी.डब्ल्यू 11(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47331 | मेघा दीक्षित       | ई एम ई     | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी.डब्ल्यू 11(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47342 | रशमिल सागवान       | ई एम ई     | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी.डब्ल्यू 11(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47350 | निधि पाल           | इंजीनियर्स | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी.डब्ल्यू 11(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47352 | स्नेहा रावत        | ई एम ई     | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी.डब्ल्यू 11(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |
| 47353 | खुशबु शर्मा        | ई एम ई     | 17 मार्च 13 | एस.एस.सी.डब्ल्यू 11(टी) | 17 अप्रैल 13 | 17 अप्रैल 15 |

अल्प-कालीन सेवा कमीशन

ले. से क्वासी-सब्सटेनटिव कप्तान

| एस.एस.सं. | नाम           | आर्म        | क्वासी सब्सटेनटिव कप्तान दिनांक से |
|-----------|---------------|-------------|------------------------------------|
| 42005     | अभिषेक परमार  | इन्फैन्ट्री | 18 मार्च 2015                      |
| 42863     | अमनदीप पनजेटे | मैक         | 22 मार्च 2015                      |
| 42864     | बलविन्दर सिंह | ई एम ई      | 22 मार्च 2015                      |

शंकर बसु  
उप निदेशक  
एम एस 8सी

थल सेना विभाग

सं. 216, दिनांक 24 अगस्त 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकेनाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार(लिपिक) भेंवर सिंह (जे सी-420879 एफ) 05 मई 2015\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी जाती है।)

सूबेदार परविन्द सिंह (जे सी-421157 एफ) 01 मई 2015

सूबेदार जगदीश चन्द्र (जे सी-421042 एन) 01 मई 2015

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार ए थोप्पु (जे सी-421834 एन ) 01 अप्रैल 2015

नायब सूबेदार टी सत्या राव (जे सी-421835 डब्ल्यू) 01 अप्रैल 2015

नायब सूबेदार जितेन्द्रा कुमार (जे सी-422386 वाई) 01 अप्रैल 2015

नायब सूबेदार आर मुरुगानन्दम (जे सी-422393 पी) 01 अप्रैल 2015

|                                                                                                          |                                        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| नायब सूबेदार मांगे राम                                                                                   | (जे सी-422440 एफ)                      | 17 अप्रैल 2015* |
| *( नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है। ) |                                        |                 |
| नायब सूबेदार अब्दुल अलीम                                                                                 | (जे सी-421725 एफ)                      | 01 मई 2015      |
| नायब सूबेदार के रैंक में                                                                                 |                                        |                 |
| हवलदार काकेकर जयराम दशरथ                                                                                 | (14920639 एच अब जे सी-422782 पी)       | 01 फरवरी 2015   |
| हवलदार धिरेन्द्रा सिंह                                                                                   | (14920017 एफ अब जे सी-422783 एक्स)     | 07 मई 2015*     |
| *( नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 मार्च 2015 से दी जाती है। )  |                                        |                 |
| हवलदार सुशील कुमार                                                                                       | (14918054 डब्ल्यू अब जे सी-422784 ए)   | 17 अप्रैल 2015* |
| *( नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है। ) |                                        |                 |
| हवलदार कौशल कुमार सिंह                                                                                   | (14918919 एक्स अब जे सी-422785 एच)     | 17 अप्रैल 2015* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है। )  |                                        |                 |
| हवलदार एंटोनी जे                                                                                         | (14919692 एफ अब जे सी-422786 एल)       | 04 अप्रैल 2015* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है। )  |                                        |                 |
| हवलदार राजपाल                                                                                            | (14921410 डब्ल्यू अब जे सी-422787 एन)  | 01 मई 2015      |
| हवलदार विजय कुमार                                                                                        | (14921446 पी अब जे सी-422788 डब्ल्यू)  | 30 मई 2015*     |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 मई 2015 से दी जाती है। )      |                                        |                 |
| हवलदार विवेक चन्द सावन                                                                                   | (14922864 डब्ल्यू अब जे सी-422789 वाई) | 01 जून 2015     |
| हवलदार भगत सिंह                                                                                          | (14922907 ए अब जे सी-422790 एन)        | 01 जून 2015     |
| हवलदार सत्यवान                                                                                           | (14921425 वाई अब जे सी-422791 डब्ल्यू) | 04 जून 2015*    |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जाती है। )     |                                        |                 |
| हवलदार रामा शंकर रॉय                                                                                     | (14921145 एल अब जे सी-422792 वाई)      | 01 जून 2015     |

## इन्फैन्ट्री

## ब्रिगेड ऑफ दी गार्ड्स

## नायब सूबेदार के रैंक में

|                                                                                                        |                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| हवलदार मुकेश कुमार                                                                                     | (सं013693487ए अब जेसी-405331वाई)           | 01 मार्च 2015   |
| हवलदार किशोर सिंगा                                                                                     | (सं013693582एम अब जेसी-405343एन)           | 01 अप्रैल 2015  |
| हवलदार सत्य नारायण                                                                                     | (सं013694575एच अब जेसी-405333के)           | 04 मार्च 2015*  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है। ) |                                            |                 |
| हवलदार कृष्ण कांत सूत्रधार                                                                             | (सं013692510डब्ल्यू अब जेसी-405330डब्ल्यू) | 03 मार्च 2015*  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है। ) |                                            |                 |
| हवलदार धरम बीर सिंह                                                                                    | (सं013693560एन अब जेसी-405350के)           | 01 अप्रैल 2015  |
| हवलदार प्रदीप कुमार                                                                                    | (सं013693606एल अब जेसी-405351एम)           | 01 अप्रैल 2015  |
| हवलदार जय प्रकाश सिंह                                                                                  | (सं013695073एम अब जेसी-405334एम)           | 02 मार्च 2015*  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है। ) |                                            |                 |
| हवलदार छोटे भैया मिश्रा                                                                                | (सं013695117वाई अब जेसी-405335पी)          | 02 मार्च 2015*  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है। ) |                                            |                 |
| हवलदार गावणे गजानन नारायण                                                                              | (सं013695715डब्ल्यू अब जेसी-405345वाई)     | 01 मार्च 2015   |
| हवलदार प्रेमवीर सिंह                                                                                   | (सं013693707वाई अब जेसी-405341एच)          | 01 अप्रैल 2015* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है। ) |                                            |                 |
| हवलदार देश राज सिंह                                                                                    | (सं013694584के अब जेसी-405349पी)           | 01 अप्रैल 2015  |
| हवलदार पपू राम                                                                                         | (सं013694843एफ अब जेसी-405360एन)           | 01 मई 2015      |
| हवलदार नरेश कुमार                                                                                      | (सं013694036एम अब जेसी-405359वाई)          | 01 मई 2015      |
| हवलदार विनय कुमार राय                                                                                  | (सं013693427एल अब जेसी-405347के)           | 01 अप्रैल 2015  |
| हवलदार बदीरुज्जा मान मंडल                                                                              | (सं013694573एक्स अब जेसी-405344डब्ल्यू)    | 01 अप्रैल 2015  |

|                                                                                                       |                                      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| हवलदार प्रमोद कुमार                                                                                   | (सं013695881के अब जेसी—405337ए)      | 17 मार्च 2015*  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 मार्च 2015 से दी जाती है)  |                                      |                 |
| हवलदार राजीव कुमार सिंह                                                                               | (सं013695370ए अब जेसी—405358डब्ल्यू) | 01 मई 2015      |
| हवलदार कुंभार रविन्द्र नरसिंह                                                                         | (सं013696126एम अब जेसी—405336एक्स)   | 01 मार्च 2015   |
| हवलदार राजेन्द्र प्रसाद                                                                               | (सं013693776पी अब जेसी—405332एफ)     | 23 मार्च 2015*  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)  |                                      |                 |
| हवलदार सूरेंद्र सिंह                                                                                  | (सं013694083के अब जेसी—405348एम)     | 01 अप्रैल 2015  |
| हवलदार पुरना वहादूर छेत्री                                                                            | (सं013693243एम अब जेसी—405338एच)     | 19 मार्च 2015   |
| हवलदार यादव हरकेश वहादूर दूध नाथ                                                                      | (सं013692702एन अब जेसी—405339एल)     | 04 अप्रैल 2015* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)  |                                      |                 |
| हवलदार हरि केश चौहान                                                                                  | (सं013692947के अब जेसी—405340ए)      | 04 अप्रैल 2015* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)  |                                      |                 |
| हवलदार संजय                                                                                           | (सं013694771एच अब जेसी—405364के)     | 28 मई 2015*     |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है) |                                      |                 |
| हवलदार राजन कुमार राय                                                                                 | (सं013696366के अब जेसी—405365एम)     | 03 मई 2015*     |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है) |                                      |                 |
| हवलदार राज कुमार                                                                                      | (सं013696438एच अब जेसी—405352पी)     | 01 अप्रैल 2015  |
| हवलदार चौधारी चंद्रकिशोर रामजीवन                                                                      | (सं013693525एल अब जेसी—405362वाई)    | 30 अप्रैल 2015* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है) |                                      |                 |

## नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) के रैंक में

|                                                                                                   |                                      |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| हवलदार (क्लर्क एस डी) निकम गोपीनाथ विष्णु                                                         | (सं013696325ए अब जेसी—405342एल)      | 01 अप्रैल 2015 |
| हवलदार (क्लर्क एस डी) प्रताप कुमार साहू                                                           | (सं013696470एक्स अब जेसी—405346एफ)   | 01 अप्रैल 2015 |
| हवलदार (क्लर्क एस डी) राजीव कुमार                                                                 | (सं013696474एन अब जेसी—405353एक्स)   | 01 मई 2015     |
| हवलदार (क्लर्क एस डी) सुनिल कुमार एम                                                              | (सं013695683वाई अब जेसी—405354ए)     | 01 मई 2015     |
| हवलदार (क्लर्क एस डी) आषुतोष कुमार पाण्डे                                                         | (सं013696157एम अब जेसी—405355एच)     | 01 मई 2015     |
| हवलदार (क्लर्क एस डी) समरजीत सिंह                                                                 | (सं013696349के अब जेसी—405356एल)     | 01 मई 2015     |
| हवलदार (क्लर्क एस डी) पुठा कोण्डा रेडी                                                            | (सं013696486एच अब जेसी—405357एन)     | 01 मई 2015     |
| हवलदार (क्लर्क एस डी) राजेश नेगी                                                                  | (सं013694354डब्ल्यू अब जेसी—405368ए) | 12 मई 2015*    |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी जाती है) |                                      |                |
| हवलदार (क्लर्क एस डी) मनोज कुमार                                                                  | (सं013696518ए अब जेसी—405371ए)       | 01 जून 2015    |

## कवचित कोर

## स्थाई रिसालदार मेजर के रैंक में

|                                                                                                         |            |                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------|
| रिसालदार                                                                                                | अशोक कुमार | (जेसी—243505एन)   | *14 अगस्त 2014   |
| *(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)   |            |                   |                  |
| रिसालदार                                                                                                | राजेश सिंह | (जेसी—243378के)   | *02 अक्टूबर 2014 |
| *(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है) |            |                   |                  |
| रिसालदार                                                                                                | इंदर सिंह  | (जेसी—242896एक्स) | *01 नवम्बर 2014  |
| *(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अक्टूबर 2014 से दी जाती है) |            |                   |                  |
| रिसालदार                                                                                                | विजय कुमार | (जेसी—244162पी)   | *18 दिसम्बर 2014 |
| *(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है)  |            |                   |                  |

|                                                                                                       |                      |                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| रिसालदार                                                                                              | सतार खान             | (जेसी—242206एच)      | *06 जनवरी 2015 |
| *(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है) |                      |                      |                |
| रिसालदार                                                                                              | रामवतार              | (जेसी—243541वाई)     | 01 फरवरी 2015  |
| रिसालदार                                                                                              | पर्वत सिंह रजावत     | (जेसी—245030एन)      | *03 फरवरी 2015 |
| *(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है) |                      |                      |                |
| रिसालदार                                                                                              | सुरेश                | (जेसी—243012एम)      | *02 मार्च 2015 |
| *(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है) |                      |                      |                |
| रिसालदार                                                                                              | राम नरायन यादव       | (जेसी—243598एन)      | *02 मार्च 2015 |
| *(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है) |                      |                      |                |
| रिसालदार                                                                                              | पवन कुमार            | (जेसी—244086एन)      | *02 मार्च 2015 |
| *(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है) |                      |                      |                |
| रिसालदार                                                                                              | सी जी मुरुग्यान      | (जेसी—243387एल)      | 01 अप्रैल 2015 |
| रिसालदार                                                                                              | जैन जोस              | (जेसी—243788ए )      | 01 अप्रैल 2015 |
| रिसालदार                                                                                              | श्री राम प्रताप सिंह | (जेसी—243893डब्ल्यू) | 01 अप्रैल 2015 |
| रिसालदार                                                                                              | राजबीर               | (जेसी—243385ए)       | 01 मई 2015     |
| रिसालदार                                                                                              | सुरेश सिंह           | (जेसी—243715एन)      | 01 मई 2015     |
| रिसालदार                                                                                              | सुखविन्दर सिंह       | (जेसी—243257एच)      | 01 जून 2015    |
| रिसालदार                                                                                              | राजेन्द्र कुमार      | (जेसी—244376एल)      | 03 जून 2015    |

राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

थलसेना विभाग (एम जी ओ)

इलेक्ट्रानिक्स और मैकेनिकल इन्जीनियरिंग कार्मिक

सूबेदार से सूबेदार मेजर आर टी (पंडित) के रैंक में

कृष्ण कुमार (जेसी—164248 ए) 15 जनवरी 2014 / 01 जनवरी 2014\*

सूबेदार से सूबेदार मेजर एस के टी के रैंक में

राकेश बाबु (जेसी—763800 ए) 09 जनवरी 2014 / 01 जनवरी 2014\*

सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक ए वेहिकल के रैंक में

राज बीर (जेसी— 757489 पी) 06 जनवरी 2014 / 01 जनवरी 2014\*

सूबेदार से सूबेदार मेजर आटो टेक ए वेहिकल के रैंक में

झाबरमल (जेसी—758513 एम) 10 जनवरी 2014 / 01 जनवरी 2014\*

सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक ईलैक्ट के रैंक में

रंजीत सिंह चौधरी (जेसी— 757582 डब्ल्यू) 11 जनवरी 2014 / 01 जनवरी 2014\*

सूबेदार से सूबेदार मेजर टेक (कम्प्यूनिकेशन) के रैंक में

विलसन जोर्ज (जेसी— 762821 के) 07 जनवरी 2014 / 01 जनवरी 2014\*

|                                                                |                        |                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| सूबेदार से सूबेदार मेजर ड्राईवर एम टी के रैंक में              |                        |                                |
| राजेन्द्र यादव                                                 | (जेसी— 762607 एफ)      | 01 जनवरी 2014                  |
| हरी चन्द                                                       | (जेसी—761625 एक्स)     | 01 जनवरी 2014                  |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक सी वेहिकल के रैंक में       |                        |                                |
| सुरेन्द्र कुमार                                                | (जेसी—757507 एम)       | 01 फरवरी 2014                  |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक ए वी एन (सी एस) के रैंक में |                        |                                |
| प्रकाश चन्द्रा                                                 | (जेसी—756510 ए)        | 01 फरवरी 2014                  |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर ड्राईवर एम टी के रैंक में              |                        |                                |
| गोपाल सिंह मेहता                                               | (जेसी— 762773 पी)      | 08 जनवरी 2014 / 01 जनवरी 2014* |
| मनोज कुमार सिंह                                                | (जेसी—762786 एम)       | 01 फरवरी 2014                  |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर एस के टी के रैंक में                   |                        |                                |
| अनील कुमार                                                     | (जेसी— 764164 के)      | 01 फरवरी 2014                  |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर टेक (एस ए) के रैंक में                 |                        |                                |
| त्रिशपाल सिंह                                                  | (जेसी—763482 एफ)       | 01 जनवरी 2014                  |
| सतेन्द्रपाल सिंह                                               | (जेसी— 763902 डब्ल्यू) | 08 मार्च 2014 / 01 जनवरी 2014* |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर एस के टी के रैंक में                   |                        |                                |
| लाल मोहन कोनार                                                 | (जेसी— 764133 के)      | 01 फरवरी 2014                  |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर ड्राईवर एम टी के रैंक में              |                        |                                |
| निर्मल सिंह                                                    | (जेसी—762941 एच)       | 01 मार्च 2014                  |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक ए वेहिकल के रैंक में        |                        |                                |
| स्वापन कुमार खटुवा                                             | (जेसी— 757816 पी)      | 01 मार्च 2014                  |
| अजित सिंह                                                      | (जेसी—757791 एन)       | 01 मार्च 2014                  |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर आटो टेक बी वेहिकल के रैंक में          |                        |                                |
| मेबा राम                                                       | (जेसी—757674 एच)       | 04 मार्च 2014 / 01 मार्च 2014* |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर क्लर्क एस डी के रैंक में               |                        |                                |
| शिशुपाल सिंह                                                   | (जेसी—761608 एक्स)     | 06 मार्च 2014 / 01 मार्च 2014* |
| अशोक कुमार कौर                                                 | (जेसी—761592 एक्स)     | 03 मार्च 2014 / 01 मार्च 2014* |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक (ए वी एन सी एस) के रैंक में |                        |                                |
| दिलिप कुमार सिंह                                               | (जेसी— 757430 पी)      | 01 मार्च 2014                  |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर टेक (जी सी ई) के रैंक में              |                        |                                |
| बलदेव यादव                                                     | (जेसी— 762700 एच)      | 29 मार्च 2014                  |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक एस ए के रैंक में            |                        |                                |
| कृष्णा चन्द्रा तराई                                            | (जेसी—757889 एफ)       | 01 अप्रैल 2014                 |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर टेक एस ए के रैंक में                   |                        |                                |
| हेम चन्द्रा माईन्डोला                                          | (जेसी—764186 एच)       | 01 अप्रैल 2014                 |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक (ए वी एन सी एस) के रैंक में |                        |                                |
| पंचान्नान सामल                                                 | (जेसी— 757850 पी)      | 01 अप्रैल 2014                 |

|                                                                 |                        |                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक गन के रैंक में               |                        |                                  |
| विनोद कुमार                                                     | (जेसी— 757721 पी)      | 01 अप्रैल 2014                   |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर क्लर्क (एस डी) के रैंक में              |                        |                                  |
| ईश्वर सिंह                                                      | (जेसी— 756262 पी)      | 17 जनवरी 2014 / 01 जनवरी 2014*   |
| ईफत्खार अहमद अंसारी                                             | (जेसी— 761681 डब्ल्यू) | 01 अप्रैल 2014                   |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक (ए वी एन ईलैक्ट) के रैंक में |                        |                                  |
| रनजीत सिंह                                                      | (जेसी— 756906 के)      | 04 फरवरी 2014 / 01 फरवरी 2014*   |
| नाहर सिंह                                                       | (जेसी—757576 एच)       | 03 मार्च 2014 / 01 मार्च 2014*   |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर एस के टी के रैंक में                    |                        |                                  |
| उत्तम कुमार दे                                                  | (जेसी—763470 एम)       | 13 जनवरी 2014 / 01 जनवरी 2014*   |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक (बी वहिकल) के रैंक में       |                        |                                  |
| राज कुमार साह                                                   | (जेसी— 757681 वाई)     | 04 मार्च 2014 / 01 मार्च 2014*   |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक (गन) के रैंक में             |                        |                                  |
| सीनिवासन वी                                                     | (जेसी—757832 एम)       | 01 अप्रैल 2014                   |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर टेक (एस ए) के रैंक में                  |                        |                                  |
| नरेन्द्र सिंह नागरकोटिया                                        | (जेसी— 757893 के)      | 01 अप्रैल 2014                   |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर टेक (एस ए) के रैंक में                  |                        |                                  |
| अच्छे लाल चौधरी                                                 | (जेसी—764187 एल)       | 04 अप्रैल 2014 / 01 अप्रैल 2014* |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक (रडार) के रैंक में           |                        |                                  |
| काकडे सुरेश दिनकर                                               | (जेसी—757902 ए)        | 01 मई 2014                       |
| माहावीर सिंह                                                    | (जेसी—757901 एक्स)     | 01 मई 2014                       |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक (बी वहिकल) के रैंक में       |                        |                                  |
| तुंगाला नीरंजन राव                                              | (जेसी— 757694 डब्ल्यू) | 01 मई 2014                       |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर आर टी (पंडित) के रैंक में               |                        |                                  |
| बेद प्रकाश मिश्रा                                               | (जेसी—758093 एक्स)     | 01 मार्च 2014                    |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक (कम्यूनिकेशन) के रैंक में    |                        |                                  |
| सी शेखर प्रसाद सिंह                                             | (जेसी— 757483 एन)      | 03 अप्रैल 2014 / 01 अप्रैल 2014* |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक (गन) के रैंक में             |                        |                                  |
| राम मनी वर्मा                                                   | (जेसी—757708 एल)       | 03 अप्रैल 2014 / 01 अप्रैल 2014* |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर क्लर्क (एस डी) के रैंक में              |                        |                                  |
| पियर चन्द सिंह राना                                             | (जेसी— 762451 पी)      | 01 मई 2014                       |
| सुलिन्द्र सिंह मोवाल्ल                                          | (जेसी— 762546 पी)      | 01 मई 2014                       |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर आर टी (पंडित) के रैंक में               |                        |                                  |
| श्रीनिवास पाठक                                                  | (जेसी—758787 एक्स)     | 01 मई 2014                       |
| सूबेदार से सूबेदार मेजर रेफ्रिजरेटर मैक के रैंक में             |                        |                                  |
| दयालन                                                           | (जेसी— 761273 एल)      | 01 जनवरी 2014                    |

|                    |                                                                |                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                    | सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक (ए वी एन सी एस) के रैंक में |                                |
| हेम राज            | (जेसी—757851 एक्स)                                             | 01 अप्रैल 2014                 |
|                    | सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक (कम्यूनिकेशन) के रैंक में   |                                |
| जेमस एम एम         | (जेसी— 758222 एम)                                              | 01 मई 2014                     |
|                    | सूबेदार से सूबेदार मेजर ड्राईवर एम टी के रैंक में              |                                |
| देव करन जाट        | (जेसी— 762949 पी)                                              | 01 जून 2014                    |
|                    | सूबेदार से सूबेदार मेजर टेक (एस ए) के रैंक में                 |                                |
| प्रवीन कुमार चौधरी | (जेसी—764583 एफ)                                               | 01 जून 2014                    |
| राम अवतार सिंह     | (जेसी— 758173 पी)                                              | 01 जून 2014                    |
|                    | सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक (सी वेहिकल) के रैंक में     |                                |
| माहालिंगम आर       | (जेसी—757916 ए)                                                | 03 जून 2014 / 01 जून 2014*     |
|                    | सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक (रडार) के रैंक में          |                                |
| जसवीन्द्र सिंह     | (जेसी—758016 एच)                                               | 01 जुलाई 2014                  |
|                    | सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक (ए वेहिकल) के रैंक में      |                                |
| श्याम सिंह         | (जेसी— 757933ए)                                                | 01 जुलाई 2014                  |
|                    | सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक (सी वेहिकल) के रैंक में     |                                |
| नन्द किशोर         | (जेसी— 757909 के)                                              | 03 जून 2014 / 01 जून 2014*     |
|                    | सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक (ए वेहिकल) के रैंक में      |                                |
| रामा राज ए         | (जेसी— 757979 एच)                                              | 01 जून 2014                    |
|                    | सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक (रडार) के रैंक में          |                                |
| रनधीर सिंह         | (जेसी— 757937 डब्ल्यू)                                         | 01 जुलाई 2014                  |
|                    | सूबेदार से सूबेदार मेजर टेक (एस ए) के रैंक में                 |                                |
| नार सिंह           | (जेसी—758176 एच)                                               | 02 जुलाई 2014 / 01 जुलाई 2014* |

\*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

राजीव जौहरी  
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 217, दिनांक 25 अगस्त 2015—

शुद्धि पत्र

नियमित सेना

मेजर से ले0 कर्नल

भारत के राजपत्र भाग—1, अनुभाग—IV में दिनांक 15 अक्टूबर 2005 को प्रकाशित शीर्षक “नियमित सेना, स्थायी कमीशन (एस एल”), एवं उप शीर्षक “मेजर से ले0 कर्नल” के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

के सामने : आई सी — 41859 एस राधाकृष्णा, इंजीनियर्स  
पढ़ा जाए : आई सी — 41859 एस राधाकृष्णन, इंजीनियर्स

शंकर बसु  
उप निदेशक  
एम एस 8 सी

सं. 218, दिनांक 25 अगस्त 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :-

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकेनाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

भारत के राजपत्र सं 14 दिनांक 06 अप्रैल 2013 में प्रकाशित अधिसूचना सं 143 दिनांक 15 मार्च 2013 शीर्षक नियमित सेना उपशीर्षक इन्फैन्ट्री और मैकेनाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट के नीचे निम्नलिखित संशोधन किया जाता है ।

नायब सूबेदार के रैंक में

के स्थान पर हवलदार जगदाले प्रकाश माधव (सं 14918700 एच अब जे सी-422026 एच) 14 जुलाई 2011'  
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)  
पढ़ा जाए हवलदार जगदाले प्रकाश माधव (सं 14918700 एच अब जे सी-422026 एच) 14 जुलाई 2011'  
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 जून 2011 से दी जाती है)

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकेनाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

भारत के राजपत्र सं 21 दिनांक 26 मई 2012 में प्रकाशित अधिसूचना सं 190 दिनांक 24 अप्रैल 2012 शीर्षक नियमित सेना उपशीर्षक इन्फैन्ट्री और मैकेनाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट के नीचे निम्नलिखित संशोधन किया जाता है ।

नायब सूबेदार के रैंक में

के स्थान पर हवलदार मोहित कुमार साहु (सं 14918860 एच अब जे सी-422080 डब्ल्यू) 01 जनवरी 2012'  
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जाती है)  
पढ़ा जाए हवलदार मोहित कुमार साहु (सं 14918860 एच अब जे सी-422080 डब्ल्यू) 01 जनवरी 2012'

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकेनाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

भारत के राजपत्र सं 27 दिनांक 07 जुलाई 2012 में प्रकाशित अधिसूचना सं 267 दिनांक 12 जून 2012 शीर्षक नियमित सेना उपशीर्षक इन्फैन्ट्री और मैकेनाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट के नीचे निम्नलिखित संशोधन किया जाता है ।

नायब सूबेदार के रैंक में

के स्थान पर हवलदार जसवंत (सं 14918861 एल अब जे सी-422112 एन) 01 फरवरी 2012'  
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाती है)  
पढ़ा जाए हवलदार जसवंत (सं 14918861 एल अब जे सी-422112 एन) 01 फरवरी 2012'

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकेनाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

भारत के राजपत्र सं 51 दिनांक 21 दिसम्बर 2013 में प्रकाशित अधिसूचना सं 342 दिनांक 17 अक्टूबर 2013 शीर्षक नियमित सेना उपशीर्षक इन्फैन्ट्री और मैकेनाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट के नीचे निम्नलिखित संशोधन किया जाता है ।

नायब सूबेदार के रैंक में

के स्थान पर हवलदार प्रशांता समूर्ई (सं 14918657 एम अब जे सी-422228 के) 09 दिसम्बर 2012'  
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाती है)  
हवलदार शिव बहादुर सिंह (सं 14918840 पी अब जे सी-422229 एम) 02 जनवरी 2013'  
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाती है)  
पढ़ा जाए हवलदार प्रशांता समूर्ई (सं 14918657 एम अब जे सी-422228 के) 09 दिसम्बर 2012'  
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)  
हवलदार शिव बहादुर सिंह (सं 14918840 पी अब जे सी-422229 एम) 02 जनवरी 2013'  
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

राजीव जौहरी  
अवर सचिव

## थल सेना विभाग

सं. 219, दिनांक 26 अगस्त 2015—थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति 05 वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

## नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन के पद पर (परख पर)

डी एस—12482 एम कप्तान (सुश्री) प्रनीत के राणा — 05-02-2013

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 05-08-2012 से दी जाती है । इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 माह और पहले से दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है ।

डी एस—12520एक्स कप्तान वरुण जैन — 27-12-2013

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 27-06-2013 से दी जाती है । इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 माह और पहले से दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

16 अगस्त 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है ।

डी एस—12529एम कप्तान विकास कुमार — 27-12-2013

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 27-06-2013 से दी जाती है । इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 माह और पहले से दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

16 अगस्त 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है ।

डी एस—12544एफ कप्तान दीपक शुक्ला — 06-03-2014

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 06-09-2013 से दी जाती है । इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 माह और पहले से दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

09 अगस्त 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है ।

थलसेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अधीन और रक्षा मंत्रालय के पत्र सं 10(3)(प)/05/डी मेड, 28 अक्टूबर 2005 यथासंशोधित के अधीन राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति 05 वर्ष के लिए करते हैं:—

## नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन) कमीशन

कैप्टन के पद पर (परख पर)

| निजी संख्या        | रैंक व नाम                    | दिनांक     |
|--------------------|-------------------------------|------------|
| डी एस—12379एफ      | कप्तान रोहिन तक्रियार         | 30-08-2010 |
| डी एस—12381वाई     | कप्तान देवव्रत सिंह           | 30-08-2010 |
| डी एस—12383के      | कप्तान (सुश्री) पायल          | 01-09-2010 |
| डी एस—12386एक्स    | कप्तान चन्द्र भूषण सिंह पटेल  | 04-09-2010 |
| डी एस—12388एच      | कप्तान (सुश्री) सुखमनी दिल्ली | 06-09-2010 |
| डी एस—12389एल      | कप्तान जोर्ज कुट्टी एम तोमस   | 09-09-2010 |
| डी एस—12390ए       | कप्तान ऋषिकेश एच के           | 10-09-2010 |
| डी एस—12394डब्ल्यू | कप्तान मुनीश जोशी             | 14-10-2010 |
| डी एस—12399पी      | कप्तान सत्यम कुमार सिंह       | 16-12-2010 |
| डी एस—12554एल      | कप्तान रणोजोय हाजरा           | 13-01-2015 |
| डी एस—12555एन      | कप्तान आयुष श्रिवास्तव        | 13-01-2015 |

| निजी संख्या        | रैंक व नाम                   | दिनांक     |
|--------------------|------------------------------|------------|
| डी एस-12556डब्ल्यू | कप्तान एनसन जोस              | 13-01-2015 |
| डी एस-12557वाई     | कप्तान एल अभिषेक             | 13-01-2015 |
| डी एस-12558एफ      | कप्तान प्रतीक माथुर          | 13-01-2015 |
| डी एस-12559के      | कप्तान शबरीश जक्का           | 13-01-2015 |
| डी एस-12560वाई     | कप्तान सुरेन्द्र कुमार सेवदा | 13-01-2015 |
| डी एस-12561एफ      | कप्तान आकाश सेठी             | 13-01-2015 |
| डी एस-12562के      | कप्तान गौरव सिंह राठी        | 13-01-2015 |
| डी एस-12563एम      | कप्तान किशोर सिंह भंडारी     | 13-01-2015 |
| डी एस-12564पी      | कप्तान (सुश्री) ऋचा गुप्ता   | 13-01-2015 |
| डी एस-12565एक्स    | कप्तान गौरव सोलंकी           | 13-01-2015 |
| डी एस-12566ए       | कप्तान सचिन गुप्ता           | 13-01-2015 |
| डी एस-12567एच      | कप्तान प्रभव जैन             | 13-01-2015 |
| डी एस-12568एल      | कप्तान सुमन आनन्द            | 13-01-2015 |
| डी एस-12569एन      | कप्तान अमित शेखर नेमा        | 13-01-2015 |
| डी एस-12570एच      | कप्तान मलकीत सिंह            | 13-01-2015 |
| डी एस-12571एल      | कप्तान रजिंदर पाल सिंह       | 13-01-2015 |
| डी एस-12572एन      | कप्तान (सुश्री) मानवी सेठ    | 13-01-2015 |
| डी एस-12573डब्ल्यू | कप्तान शुभम गोयल             | 13-01-2015 |
| डी एस-12574वाई     | कप्तान नीलेश सिंह            | 13-01-2015 |
| डी एस-12575एफ      | कप्तान कुणाल अशोक निम्बालकर  | 13-01-2015 |
| डी एस-12576के      | कप्तान एस गोपि पवन सुधीर     | 13-01-2015 |
| डी एस-12577एम      | कप्तान अनूप कुमार सिंह       | 13-01-2015 |
| डी एस-12578पी      | कप्तान विकास सिंह            | 13-01-2015 |
| डी एस-12579एक्स    | कप्तान अजय प्रताप सिंह चौहान | 13-01-2015 |

एच एस संधू  
ब्रिगेडियर  
डीडीजीडीएस (पी)

#### थलसेना विभाग

सं. 220, दिनांक 26 अगस्त 2015—थलसेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधनों के अर्न्तगत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना  
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर  
(स्थाई कमीशन)

ब्रिगेडियर (तथा समकक्ष) से मेजर जनरल के पद पर

| निजी संख्या    | पद और नाम                          | पदोन्नति की तिथि                                                                                           |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| डी आर -10335एल | ब्रिगेडियर एस एच गुप्ता,<br>वीएसएम | 01-03-2015 (परन्तु वैकल्पिक वरीयता<br>30-04-2012 से दी जाती है जोकि वेतन<br>और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी) |

| निजी संख्या   | पद और नाम             | पदोन्नति की तिथि                                                                                     |
|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| डी आर—10339एफ | ब्रिगेडियर एन के साहू | 08-05-2015 (परन्तु वैकल्पिक वरीयता 23-03-2015 से दी जाती है जोकि वेतन और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी) |

स्क्वार्डन लीडर से विंग कमाण्डर के पद पर

|                             |                 |            |            |
|-----------------------------|-----------------|------------|------------|
| डी आर—10555पी<br>(26942—एल) | स्क्वार्डन लीडर | शालीन ऐरोन | 17-11-2014 |
|-----------------------------|-----------------|------------|------------|

मेजर से ले0 कर्नल के पद पर

|                |      |                  |            |
|----------------|------|------------------|------------|
| डी आर—10632वाई | मेजर | काडू अभिजीत अशोक | 05-12-2014 |
|----------------|------|------------------|------------|

थलसेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अस्थाई कमीशन)

सर्जन ले0 कमाण्डर से सर्जन कमाण्डर के पद पर

| निजी संख्या                | नाम                              | पदोन्नति की तिथि |
|----------------------------|----------------------------------|------------------|
| डी एस—12091एफ<br>(79059बी) | सर्जन ले0 कमाण्डर सी एम जैड अहमद | 03-09-2014       |

कैप्टन से मेजर के पद पर

|                    |        |                          |          |
|--------------------|--------|--------------------------|----------|
| डी एस—12489डब्ल्यू | कप्तान | तपन सिंह                 | 12-02-14 |
| डी एस—12511डब्ल्यू | कप्तान | सलीम अखतर                | 14-03-14 |
| डी एस—12485ए       | कप्तान | वरुन राणा                | 07-08-14 |
| डी एस—12487एल      | कप्तान | सम्पन्न चौधरी            | 09-08-14 |
| डी एस—12494एफ      | कप्तान | देसाई जिमिश भाविक कुमार  | 16-08-14 |
| डी एस—12499ए       | कप्तान | सोनवणे द्रैवेंद्र लोटेश  | 19-08-14 |
| डी एस—12500के      | कप्तान | नुकला अनिकेत रामामूर्ती  | 20-08-14 |
| डी एस—12504ए       | कप्तान | हिमांशु ठुकराल           | 22-08-14 |
| डी एस—12505एच      | कप्तान | (सुश्री) अदिति रावत      | 02-09-14 |
| डी एस—12508डब्ल्यू | कप्तान | (सुश्री) सुष्मिता देबनाथ | 10-09-14 |
| डी एस—12510एन      | कप्तान | (सुश्री) जसमीत गिल       | 14-09-14 |
| डी एस—12540एल      | कप्तान | लखवीर कौर                | 27-12-14 |
| डी एस—12415एफ      | कप्तान | भूषण कुमार               | 17-03-12 |
| डी एस—12469एच      | कप्तान | अंकुर ठकराल              | 18-05-13 |
| डी एस—12493 वाई    | कप्तान | क्रिंतात भूषण            | 01-02-14 |
| डी एस—12395 वाई    | कप्तान | मो0 काशिफ उस्मानी        | 16-04-15 |

| निजी संख्या   | पद     | नाम               | पदोन्नति की तिथि |
|---------------|--------|-------------------|------------------|
| डी एस-12396एफ | कप्तान | अजीत कुमार गुप्ता | 18-04-15         |
| डी एस-12375एल | कप्तान | (सुश्री) दिव्या   | 16-10-14         |

एच एस संधू  
ब्रिगेडियर  
डीडीजीडीएस (पी)

सेना शाखा

सं. 221, दिनांक 26 अगस्त 2015—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं:—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

मेजर बनाया जाता है

|                          |             |                 |               |
|--------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| कैप्टन जानेश्वर प्रसाद   | (टीए-42686) | (इन्जीनियर टीए) | 08 मार्च 2015 |
| कैप्टन नांगमेईकापम दानिश | (टीए-42681) | (इन्फैन्ट्री)   | 14 मई 2015    |

कैप्टन बनाया जाता है

|                           |             |               |            |
|---------------------------|-------------|---------------|------------|
| लै0 पाटिल विनय सुरेश      | (टीए-42804) | (इन्फैन्ट्री) | 01 मई 2015 |
| लै0 माक्रस गैबरियल रोवर्ट | (टीए-42805) | (इन्फैन्ट्री) | 02 मई 2015 |
| लै0 ओमवीर सिंह            | (टीए-42806) | (इन्फैन्ट्री) | 02 मई 2015 |
| लै0 विवेक पठानिया         | (टीए-42808) | (इन्फैन्ट्री) | 18 मई 2015 |
| लै0 जितेन्द्र सिंह        | (टीए-42809) | (इन्फैन्ट्री) | 21 मई 2015 |

भारत भूषण  
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 222, दिनांक 27 अगस्त 2015—राष्ट्रपति, निम्नलिखित नियुक्तियां/पदोन्नतियां करते हैं:—

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री

सूबेदार मेजर की पदोन्नति के लिए

|                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| सूबेदार (धर्म गुरु) मोहम्मद अहमद सिद्दिकी (जेसी 220858एफ)               | 01 नवम्बर 2014  |
| सूबेदार मेजर (धर्म गुरु) रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है |                 |
| सूबेदार मोहम्मद नवाज हजम, सेना मैडल (जेसी 593227ए)                      | 05 दिसम्बर 2014 |
| सूबेदार मेजर रैंक में 01 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है            |                 |
| सूबेदार राज कुमार (जेसी 593211पी)                                       | 02 जनवरी 2015   |
| सूबेदार मेजर रैंक में 01 जनवरी 2015 से वरिष्ठता दी जाती है              |                 |
| सूबेदार राम दास (जेसी 593386एक्स)                                       | 10 फरवरी 2015   |
| सूबेदार मेजर रैंक में 01 फरवरी 2015 से वरिष्ठता दी जाती है              |                 |

|                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| सूबेदार परमोध सिंह (जेसी 593415एफ)                                  | 01 जून 2015     |
| सूबेदार मेजर रैंक में 01 जून 2015 से वरिष्ठता दी जाती है            |                 |
| सूबेदार (संगीतकार) अश्वनी कुमार (जेसी 593951के)                     | 12 जून 2015     |
| सूबेदार मेजर (संगीतकार) रैंक में 01 जून 2015 से वरिष्ठता दी जाती है |                 |
| नायब सूबेदार की पदोन्नति के लिए                                     |                 |
| हवलदार विजय कुमार (9095822एन अब जेसी 594663के)                      | 01 दिसम्बर 2014 |
| नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है        |                 |
| हवलदार तिलक राज (9096302पी अब जेसी 594664एम)                        | 12 जनवरी 2015   |
| नायब सूबेदार रैंक में 15 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है        |                 |
| हवलदार बलराज कुमार (9095486एम अब जेसी 594665पी)                     | 31 जनवरी 2015   |
| नायब सूबेदार रैंक में 19 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है        |                 |
| हवलदार तरसीम राज (9095604पी अब जेसी 594666एक्स)                     | 23 फरवरी 2015   |
| नायब सूबेदार रैंक में 04 फरवरी 2015 से वरिष्ठता दी जाती है          |                 |
| हवलदार मंजूर हुसैन (9096193एन अब जेसी 594667ऐ)                      | 01 मार्च 2015   |
| नायब सूबेदार रैंक में 04 फरवरी 2015 से वरिष्ठता दी जाती है          |                 |
| हवलदार जीत सिंह (9095610एच अब जेसी 594668एच)                        | 23 फरवरी 2015   |
| नायब सूबेदार रैंक में 07 फरवरी 2015 से वरिष्ठता दी जाती है          |                 |
| हवलदार मनोहर लाल (9094893एच अब जेसी 594669एल)                       | 02 मार्च 2015   |
| नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2015 से वरिष्ठता दी जाती है          |                 |
| हवलदार जगवीर सिंह (9094935के अब जेसी 594670ऐ)                       | 02 मार्च 2015   |
| नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2015 से वरिष्ठता दी जाती है          |                 |
| हवलदार मोहम्मद कवीर (9094950वाई अब जेसी 594671एच)                   | 02 मार्च 2015   |
| नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2015 से वरिष्ठता दी जाती है          |                 |
| हवलदार फारुक अहमद मीर (9096072एम अब जेसी 594672एल)                  | 13 फरवरी 2015   |
| नायब सूबेदार रैंक में 26 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है        |                 |
| हवलदार विहारी लाल (9096507के अब जेसी 594673एन)                      | 26 मार्च 2015   |
| नायब सूबेदार रैंक में 05 फरवरी 2015 से वरिष्ठता दी जाती है          |                 |
| हवलदार मुश्ताक अहमद (9096517एन अब जेसी 594674एन)                    | 28 मार्च 2015   |
| नायब सूबेदार रैंक में 23 फरवरी 2015 से वरिष्ठता दी जाती है          |                 |
| हवलदार मनोहर लाल (9096125ऐ अब जेसी 594675वाई)                       | 09 मार्च 2015   |
| नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2015 से वरिष्ठता दी जाती है          |                 |
| हवलदार नजीर अहमद लोन (9097777एल अब जेसी 594676एफ)                   | 02 मार्च 2015   |
| नायब सूबेदार रैंक में 20 जनवरी 2015 से वरिष्ठता दी जाती है          |                 |
| हवलदार जिम्मी (9094211एम अब जेसी 594677के)                          | 14 अप्रैल 2015  |
| नायब सूबेदार रैंक में 07 फरवरी 2015 से वरिष्ठता दी जाती है          |                 |
| हवलदार जगीर सिंह (9096086एम अब जेसी 594678एम)                       | 04 मार्च 2015   |
| नायब सूबेदार रैंक में 09 फरवरी 2015 से वरिष्ठता दी जाती है          |                 |

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| हवलदार बचित्तर सिंह (9099332एम अब जेसी 594679पी)            | 11 अप्रैल 2015 |
| नायब सूबेदार रैंक में 22 फरवरी 2015 से वरिष्ठता दी जाती है  |                |
| हवलदार त्रुभ सिंह (9096453एन अब जेसी 594680के)              | 29 मार्च 2015  |
| नायब सूबेदार रैंक में 21 मार्च 2015 से वरिष्ठता दी जाती है  |                |
| हवलदार मोहम्मद शौकीन (9094955एक्स अब जेसी 594681एम)         | 02 अप्रैल 2015 |
| नायब सूबेदार रैंक में 01 अप्रैल 2015 से वरिष्ठता दी जाती है |                |
| हवलदार मोहम्मद इकवाल (9094695एक्स अब जेसी 594682पी)         | 17 अप्रैल 2015 |
| नायब सूबेदार रैंक में 03 अप्रैल 2015 से वरिष्ठता दी जाती है |                |
| हवलदार जाकिर हुसैन (9096046एल अब जेसी 594683एक्स)           | 03 मई 2015     |
| नायब सूबेदार रैंक में 01 अप्रैल 2015 से वरिष्ठता दी जाती है |                |
| हवलदार सतपाल सिंह (9094387एक्स अब जेसी 594684ऐ)             | 27 अप्रैल 2015 |
| नायब सूबेदार रैंक में 08 अप्रैल 2015 से वरिष्ठता दी जाती है |                |
| हवलदार दया राम (9095526एच अब जेसी 594685एच)                 | 27 अप्रैल 2015 |
| नायब सूबेदार रैंक में 08 अप्रैल 2015 से वरिष्ठता दी जाती है |                |
| हवलदार कीकर सिंह (9096998एल अब जेसी 594686एल)               | 02 मई 2015     |
| नायब सूबेदार रैंक में 01 मई 2015 से वरिष्ठता दी जाती है     |                |
| हवलदार राकेश कुमार (9095934एन अब जेसी 594687एन)             | 07 मई 2015     |
| नायब सूबेदार रैंक में 01 मई 2015 से वरिष्ठता दी जाती है     |                |
| हवलदार मोहम्मद इमरान (9096259वाई अब जेसी 594688डब्ल्यू)     | 20 मई 2015     |
| नायब सूबेदार रैंक में 01 अप्रैल 2015 से वरिष्ठता दी जाती है |                |
| हवलदार रमेश चन्दर (9094710एफ अब जेसी 594689वाई)             | 16 मई 2015     |
| नायब सूबेदार रैंक में 05 अप्रैल 2015 से वरिष्ठता दी जाती है |                |
| हवलदार केवल कुमार (9096112एच अब जेसी 594590एन)              | 21 मई 2015     |
| नायब सूबेदार रैंक में 05 अप्रैल 2015 से वरिष्ठता दी जाती है |                |
| हवलदार रियाज अहमद (9089968एल अब जेसी 594691डब्ल्यू)         | 30 मई 2015     |
| नायब सूबेदार रैंक में 07 अप्रैल 2015 से वरिष्ठता दी जाती है |                |
| हवलदार फारुक महमूद (9096776डब्ल्यू अब जेसी 594692वाई)       | 30 मई 2015     |
| नायब सूबेदार रैंक में 07 अप्रैल 2015 से वरिष्ठता दी जाती है |                |
| हवलदार परषोत्तम लाल (9097369ऐ अब जेसी 594693एफ)             | 30 मई 2015     |
| नायब सूबेदार रैंक में 07 अप्रैल 2015 से वरिष्ठता दी जाती है |                |
| हवलदार बाघ हुसैन (9096331के अब जेसी 594694के)               | 28 मई 2015     |
| नायब सूबेदार रैंक में 14 अप्रैल 2015 से वरिष्ठता दी जाती है |                |
| हवलदार मोहम्मद तुफैल (9094590एन अब जेसी 594695एम)           | 29 मई 2015     |
| नायब सूबेदार रैंक में 20 अप्रैल 2015 से वरिष्ठता दी जाती है |                |
| हवलदार बलाइत सिंह (9095518के अब जेसी 594696पी)              | 05 जून 2015    |
| नायब सूबेदार रैंक में 20 मई 2015 से वरिष्ठता दी जाती है     |                |

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| हवलदार भूपिन्दर सिंह (9095551एफ अब जेसी 594697एक्स)         | 29 मई 2015 |
| नायब सूबेदार रैंक में 20 अप्रैल 2015 से वरिष्ठता दी जाती है |            |
| हवलदार बशीर अहमद (9095731के अब जेसी 594698ऐ)                | 29 मई 2015 |
| नायब सूबेदार रैंक में 20 अप्रैल 2015 से वरिष्ठता दी जाती है |            |
| हवलदार कमल किशोर (9096236एक्स अब जेसी 594699एच)             | 29 मई 2015 |
| नायब सूबेदार रैंक में 20 अप्रैल 2015 से वरिष्ठता दी जाती है |            |
| हवलदार मनरोध शर्मा (9095745के अब जेसी 594700डब्ल्यू)        | 29 मई 2015 |
| नायब सूबेदार रैंक में 01 मई 2015 से वरिष्ठता दी जाती है     |            |
| हवलदार मंजूर हुसैन (9095643एन अब जेसी 594701पी)             | 16 मई 2015 |
| नायब सूबेदार रैंक में 05 अप्रैल 2015 से वरिष्ठता दी जाती है |            |
| हवलदार सतपाल (9096115डब्ल्यू अब जेसी 594702एक्स)            | 22 मई 2015 |
| नायब सूबेदार रैंक में 05 अप्रैल 2015 से वरिष्ठता दी जाती है |            |
| हवलदार कुलवन्त सिंह (9096157एच अब जेसी 594703ऐ)             | 16 मई 2015 |
| नायब सूबेदार रैंक में 05 अप्रैल 2015 से वरिष्ठता दी जाती है |            |
| हवलदार मोहम्मद शफीक (9096105एम अब जेसी 594704एच)            | 16 मई 2015 |
| नायब सूबेदार रैंक में 05 अप्रैल 2015 से वरिष्ठता दी जाती है |            |
| हवलदार प्रेम पाल (9096198एम अब जेसी 594705एल)               | 16 मई 2015 |
| नायब सूबेदार रैंक में 05 अप्रैल 2015 से वरिष्ठता दी जाती है |            |
| हवलदार कश्तूरी लाल (9095930एक्स अब जेसी 594706एन)           | 16 मई 2015 |
| नायब सूबेदार रैंक में 05 अप्रैल 2015 से वरिष्ठता दी जाती है |            |
| हवलदार सुरिन्दर सिंह (9096314के अब जेसी 594707डब्ल्यू)      | 16 मई 2015 |
| नायब सूबेदार रैंक में 05 अप्रैल 2015 से वरिष्ठता दी जाती है |            |
| हवलदार द्वारका नाथ (9096359के अब जेसी 594708वाई)            | 19 मई 2015 |
| नायब सूबेदार रैंक में 05 अप्रैल 2015 से वरिष्ठता दी जाती है |            |

## डोगरा रेजिमेण्ट

## सूबेदार मेजर के रैंक में

|                    |                       |             |
|--------------------|-----------------------|-------------|
| सूबेदार लखबीर सिंह | (जेसी 520556 एन)      | 1 जून 2015  |
| सूबेदार विजय कुमार | (जेसी 520526 डब्ल्यू) | 2 जून 2015* |

\*(सूबेदार मेजर रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2015 से दी जायेगी)

## सूबेदार मेजर (लिपिक एस डी) के रैंक में

|                                          |                  |               |
|------------------------------------------|------------------|---------------|
| सूबेदार (लिपिक एस डी) होशियार अली खान    | (जेसी 520670 एल) | 1 अप्रैल 2015 |
| सूबेदार (लिपिक एस डी) सुनील कुमार तिवारी | (जेसी 520837 के) | 1 मई 2015     |

## सूबेदार के रैंक में

|                         |                  |                 |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| नायब सूबेदार रंजीत सिंह | (जेसी 521799 एल) | 27 अप्रैल 2015* |
|-------------------------|------------------|-----------------|

\*(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2014 से दी जायेगी)

|                         |                  |                 |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| नायब सूबेदार सतीश कुमार | (जेसी 521861 एम) | 27 अप्रैल 2015* |
|-------------------------|------------------|-----------------|

\*(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2014 से दी जायेगी)

|                         |                  |            |
|-------------------------|------------------|------------|
| नायब सूबेदार सुभाष चन्द | (जेसी 521762 के) | 8 मई 2015* |
|-------------------------|------------------|------------|

\*(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)

|                                                                                              |                       |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| नायब सूबेदार महिन्दर लाल वर्मा                                                               | (जेसी 521534 एफ)      | 10 अप्रैल 2015* |
| *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 5 दिसम्बर 2014 से दी जायेगी) |                       |                 |
| नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह                                                                   | (जेसी 521505 एम)      | 6 अप्रैल 2015*  |
| *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2015 से दी जायेगी)   |                       |                 |
| नायब सूबेदार बलवीर सिंह                                                                      | (जेसी 521514 एन)      | 6 अप्रैल 2015*  |
| *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2015 से दी जायेगी)   |                       |                 |
| नायब सूबेदार कुमेर चन्द                                                                      | (जेसी 521763 एम)      | 21 अप्रैल 2015* |
| *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2015 से दी जायेगी)   |                       |                 |
| नायब सूबेदार भूपिन्दर सिंह                                                                   | (जेसी 521576 एन)      | 8 अप्रैल 2015*  |
| *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2015 से दी जायेगी)   |                       |                 |
| नायब सूबेदार मनोहर लाल डोगरा                                                                 | (जेसी 521579 एफ)      | 5 अप्रैल 2015*  |
| *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2015 से दी जायेगी)   |                       |                 |
| नायब सूबेदार शेर सिंह चन्देल                                                                 | (जेसी 521753 एच)      | 17 अप्रैल 2015* |
| *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2015 से दी जायेगी)  |                       |                 |
| नायब सूबेदार परवीन सिंह                                                                      | (जेसी 521754 एल)      | 15 अप्रैल 2015* |
| *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2015 से दी जायेगी)  |                       |                 |
| नायब सूबेदार विनोद कुमार                                                                     | (जेसी 521789 एफ)      | 18 अप्रैल 2015* |
| *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2015 से दी जायेगी)  |                       |                 |
| नायब सूबेदार राम पाल                                                                         | (जेसी 521574 एच)      | 2 मई 2015*      |
| *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2015 से दी जायेगी)      |                       |                 |
| नायब सूबेदार जगत्तर सिंह                                                                     | (जेसी 521575 एल)      | 8 मई 2015*      |
| *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2015 से दी जायेगी)      |                       |                 |
| नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह                                                                   | (जेसी 521572 एक्स)    | 27 मई 2015*     |
| *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2015 से दी जायेगी)      |                       |                 |
| नायब सूबेदार जगो राम                                                                         | (जेसी 521599 पी)      | 15 मई 2015*     |
| *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2015 से दी जायेगी)      |                       |                 |
| नायब सूबेदार सुनील सिंह                                                                      | (जेसी 521615 एफ)      | 1 मई 2015       |
| नायब सूबेदार संजय कुमार                                                                      | (जेसी 521617 एम)      | 1 मई 2015       |
| नायब सूबेदार तरसाम जाब                                                                       | (जेसी 521661 डब्ल्यू) | 1 मई 2015       |
| नायब सूबेदार मन्जीत सिंह                                                                     | (जेसी 521715 एम)      | 1 मई 2015       |
| सूबेदार (लिपिक एस डी) के रैंक में                                                            |                       |                 |
| नायब सूबेदार (लिपिक एस डी) हरी प्रकाश                                                        | (जेसी 521449 वाई)     | 1 अप्रैल 2015   |
| नायब सूबेदार (लिपिक एस डी) सावंत हेमंत लाहु                                                  | (जेसी 521323 वाई)     | 1 अप्रैल 2015   |
| नायब सूबेदार (लिपिक एस डी) अगिन्दर पाल                                                       | (जेसी 521324 एफ)      | 1 अप्रैल 2015   |
| नायब सूबेदार (लिपिक एस डी) धन पाल सिंह                                                       | (जेसी 521325 के)      | 1 अप्रैल 2015   |
| नायब सूबेदार (लिपिक एस डी) सत्य नारायण सिंह                                                  | (जेसी 521462 एच)      | 1 अप्रैल 2015   |
| नायब सूबेदार (लिपिक एस डी) दिनेश कुमार जी                                                    | (जेसी 521495 एन)      | 5 मई 2015*      |
| *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2015 से दी जायेगी)      |                       |                 |

## नायब सूबेदार के रैंक में

|                                                                                                       |                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| हवलदार अशोक कुमार                                                                                     | (3992644डब्ल्यू अब जेसी 522136एम)   | 27 अप्रैल 2015* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)   |                                     |                 |
| हवलदार प्यार चन्द                                                                                     | (3992649पी अब जेसी 522137पी)        | 25 अप्रैल 2015* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)   |                                     |                 |
| हवलदार देवी दास                                                                                       | (3992773डब्ल्यू अब जेसी 522138एक्स) | 21 अप्रैल 2015* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)   |                                     |                 |
| हवलदार जगदीश चन्द                                                                                     | (3996855डब्ल्यू अब जेसी 522139ए)    | 13 मई 2015*     |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)  |                                     |                 |
| हवलदार राज कुमार                                                                                      | (3991647एक्स अब जेसी 522140पी)      | 10 अप्रैल 2015* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 5 दिसम्बर 2014 से दी जायेगी)  |                                     |                 |
| हवलदार राकेश कुमार                                                                                    | (3991667एल अब जेसी 522141एक्स)      | 15 अप्रैल 2015* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 दिसम्बर 2014 से दी जायेगी) |                                     |                 |
| हवलदार जसवीर सिंह                                                                                     | (3991996एफ अब जेसी 522142ए)         | 27 अप्रैल 2015* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 7 जनवरी 2015 से दी जायेगी)    |                                     |                 |
| हवलदार गणेश राज                                                                                       | (3992820एफ अब जेसी 522143एच)        | 27 अप्रैल 2015* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 7 जनवरी 2015 से दी जायेगी)    |                                     |                 |
| हवलदार सुरेन्द्र कुमार                                                                                | (3992995एल अब जेसी 522144एल)        | 29 अप्रैल 2015* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2015 से दी जायेगी)    |                                     |                 |
| हवलदार दीपक कुमार ठाकुर                                                                               | (3993121के अब जेसी 522145एन)        | 21 अप्रैल 2015* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2015 से दी जायेगी)    |                                     |                 |
| हवलदार लेख राज ठाकुर                                                                                  | (3992636एक्स अब जेसी 522146डब्ल्यू) | 13 अप्रैल 2015* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 3 फरवरी 2015 से दी जायेगी)    |                                     |                 |
| हवलदार सुरेन्द्र कुमार ठाकुर                                                                          | (3992847ए अब जेसी 522147वाई)        | 27 अप्रैल 2015* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2015 से दी जायेगी)    |                                     |                 |
| हवलदार राजेन्द्र सिंह                                                                                 | (3993031एच अब जेसी 522148एफ)        | 30 मई 2015*     |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 4 मार्च 2015 से दी जायेगी)    |                                     |                 |
| हवलदार यदोपति वर्मा                                                                                   | (3993131एन अब जेसी 522149के)        | 30 मई 2015*     |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 4 मार्च 2015 से दी जायेगी)    |                                     |                 |
| हवलदार देश राज                                                                                        | (3992037एक्स अब जेसी 522150वाई)     | 21 अप्रैल 2015* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 मार्च 2015 से दी जायेगी)   |                                     |                 |
| हवलदार जय लाल                                                                                         | (3991883वाई अब जेसी 522151एफ)       | 21 मई 2015*     |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 अप्रैल 2015 से दी जायेगी)  |                                     |                 |
| हवलदार परवीन कुमार सोहारु                                                                             | (3991909एच अब जेसी 522152के)        | 21 मई 2015*     |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 अप्रैल 2015 से दी जायेगी)  |                                     |                 |

|                           |                                     |           |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------|
| हवलदार हेमंत कुमार        | (4006819एम अब जेसी 522153एम)        | 1 मई 2015 |
| हवलदार सुधीर कुमार कौण्डल | (3991763ए अब जेसी 522154पी)         | 1 मई 2015 |
| हवलदार ब्यास सिंह         | (3991784डब्ल्यू अब जेसी 522155एक्स) | 1 मई 2015 |
| हवलदार मनोहर सिंह         | (3991802एन अब जेसी 522156ए)         | 1 मई 2015 |
| हवलदार रजिन्दर देव सिंह   | (3991343ए अब जेसी 522157एच)         | 1 मई 2015 |

नायब सूबेदार (लिपिक एस डी) के रैंक में

|                                                                                                     |                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| हवलदार (लिपिक एस डी) खोकन चन्द्रा भोवल                                                              | (3994344एन अब जेसी 522158एल)      | 1 अप्रैल 2015   |
| हवलदार (लिपिक एस डी) झिटे बालसीराम भीकाजि                                                           | (3994691एम अब जेसी 522159एन)      | 1 अप्रैल 2015   |
| हवलदार (लिपिक एस डी) देव राज                                                                        | (3991302डब्ल्यू अब जेसी 522160एच) | 1 अप्रैल 2015   |
| हवलदार (लिपिक एस डी) पुल्लागुरा वेंकटेशु                                                            | (3994751डब्ल्यू अब जेसी 522161एल) | 1 अप्रैल 2015   |
| हवलदार (लिपिक एस डी) अजय सिंह बिष्ट                                                                 | (3993818एक्स अब जेसी 522162एन)    | 18 अप्रैल 2015* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2015 से दी जायेगी) |                                   |                 |
| हवलदार (लिपिक एस डी) मोहिन्दर सिंह                                                                  | (3991380एन अब जेसी 522163डब्ल्यू) | 1 मई 2015       |

लद्दाख स्काउट्स

सूबेदार मेजर के रैंक में

|                                                                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| सूबेदार टाशी ग्यापो (जेसी 588330 एफ)                                                                       | 01 अगस्त 2014*   |
| *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)        |                  |
| सूबेदार फुन्चोक राफसतन (जेसी 588349 ए)                                                                     | 01 अक्टूबर 2014* |
| *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी)      |                  |
| सूबेदार टाशी गोन्बो (जेसी 588351 एक्स)                                                                     | 01 अक्टूबर 2014* |
| *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी)      |                  |
| सूबेदार छेरिंग स्तोब्दन, एस एम (जेसी 588375 एफ)                                                            | 01 नवम्बर 2014*  |
| *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)       |                  |
| सूबेदार फुन्चोक नमायाल (जेसी 588394 एक्स)                                                                  | 01 दिसम्बर 2014* |
| *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जायेगी)      |                  |
| सूबेदार छेरिंग दोंजे (जेसी 588377 एम)                                                                      | 01 फरवरी 2015*   |
| *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जायेगी)        |                  |
| सूबेदार सर्कमा चेन्बा छोजिंग (जेसी 588321 ए)                                                               | 01 मार्च 2015*   |
| *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जायेगी)        |                  |
| सूबेदार छेरिंग अंग्चोक (जेसी 588466 एल)                                                                    | 01 जून 2015*     |
| *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी)          |                  |
| सूबेदार मेजर क्लर्क के रैंक में                                                                            |                  |
| सूबेदार क्लर्क सेतन थिन्लेस (जेसी 588414 पी)                                                               | 01 फरवरी 2015*   |
| *(सूबेदार मेजर क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जायेगी) |                  |

## सूबेदार के रैंक में

|                                                                                                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| नायब सूबेदार स्तान्जिन छोसफल (जेसी 588614 एल)                                                    | 16 जुलाई 2014*   |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 जुलाई 2014 से दी जायेगी)   |                  |
| नायब सूबेदार ग्यालतसन नीमा (जेसी 588543 पी)                                                      | 01 सितम्बर 2014* |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी) |                  |
| नायब सूबेदार फुन्चोक अंग्चोक (जेसी 588589 एक्स)                                                  | 07 सितम्बर 2014* |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 सितम्बर 2014 से दी जायेगी) |                  |
| नायब सूबेदार रिगजिन ओटसल (जेसी 588574 पी)                                                        | 01 अक्टूबर 2014* |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी) |                  |
| नायब सूबेदार मोहम्मद दीन (जेसी 588576 ए)                                                         | 01 अक्टूबर 2014* |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी) |                  |
| नायब सूबेदार सेवांग रिन्चेन (जेसी 588611 एक्स)                                                   | 01 अक्टूबर 2014* |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी) |                  |
| नायब सूबेदार गुरमेत फुन्सतोग (जेसी 588623 एम)                                                    | 01 अक्टूबर 2014* |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी) |                  |
| नायब सूबेदार सोनम पल्जोर, वी एस एम (जेसी 588588 पी)                                              | 01 अक्टूबर 2014* |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी) |                  |
| नायब सूबेदार सेवांग दोर्जे (जेसी 588598 वाई)                                                     | 01 अक्टूबर 2014* |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी) |                  |
| नायब सूबेदार सेवांग नोरबु (जेसी 588609 ए)                                                        | 01 अक्टूबर 2014* |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी) |                  |
| नायब सूबेदार थुपस्तन सेवांग (जेसी 588618 एफ)                                                     | 01 अक्टूबर 2014* |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी) |                  |
| नायब सूबेदार मोहम्मद अब्दुलाह (जेसी 588626 ए)                                                    | 01 नवम्बर 2014*  |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)  |                  |
| नायब सूबेदार पवन कुमार (जेसी 588628 एल)                                                          | 01 नवम्बर 2014*  |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)  |                  |

|                                                                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| नायब सूबेदार टाशी अंग्चोक (जेसी 588631 एल)                                                            | 01 नवम्बर 2014*  |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)       |                  |
| नायब सूबेदार सेवांग स्तोवग्यास (जेसी 588536 वाई)                                                      | 01 नवम्बर 2014*  |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)       |                  |
| नायब सूबेदार नारबु ग्यालसन (जेसी 588639 एक्स)                                                         | 01 नवम्बर 2014*  |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)       |                  |
| नायब सूबेदार सेरिंग मोरुप (जेसी 588640 एम)                                                            | 01 नवम्बर 2014*  |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)       |                  |
| नायब सूबेदार सोनम छोस्दन (जेसी 588635 एफ)                                                             | 01 दिसम्बर 2014* |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जायेगी)      |                  |
| नायब सूबेदार थुजे नम्याल (जेसी 588575 एक्स)                                                           | 01 फरवरी 2015*   |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जायेगी)        |                  |
| नायब सूबेदार रिंगजिन नम्याल (जेसी 588532 एच)                                                          | 01 मार्च 2015*   |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जायेगी)        |                  |
| सूबेदार क्लर्क के रैंक में                                                                            |                  |
| नायब सूबेदार क्लर्क जनक राज (जेसी 588621 एफ)                                                          | 01 अगस्त 2014*   |
| *(सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी) |                  |
| नायब सूबेदार क्लर्क प्रवीण सिंह गुलेरिया (जेसी 588622 के)                                             | 01 फरवरी 2015*   |
| *(सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जायेगी) |                  |
| नायब सूबेदार के रैंक में                                                                              |                  |
| हवलदार अरिवालंगन जी (सं. 2596381 डब्लु अब जेसी 588726 एल)                                             | 06 जून 2014*     |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 जून 2014 से दी जायेगी)     |                  |
| हवलदार टाशी फोन्तसोग (सं. 9924269 एच अब जेसी 588727 एन)                                               | 01 जुलाई 2014*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी)   |                  |
| हवलदार सोनम अंग्चोक (सं. 9924311 डब्लु अब जेसी 588728 डब्ल्यू)                                        | 01 जुलाई 2014*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी)   |                  |
| हवलदार गुल्जार हसैन (सं. 9924257 एन अब जेसी 588729 वाई)                                               | 01 अगस्त 2014*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)   |                  |

|                                                                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| हवलदार छेरिंग तरगेंस (सं. 9924110 एक्स अब जेसी 588732 वाई)                                            | 01 सितम्बर 2014* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी) |                  |
| हवलदार नवांग दोर्जे (सं. 9924005 एफ अब जेसी 588733 एफ)                                                | 07 सितम्बर 2014* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 सितम्बर 2014 से दी जायेगी) |                  |
| हवलदार पदमा सोनम (सं. 9924073 पी अब जेसी 588734 के)                                                   | 01 अक्टूबर 2014* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी) |                  |
| हवलदार दोर्जे सेतन (सं. 9924127 एल अब जेसी 588735 एम)                                                 | 01 अक्टूबर 2014* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी) |                  |
| हवलदार सकलजंग गलसियोन (सं. 9924195 वाई अब जेसी 588736 पी)                                             | 01 अक्टूबर 2014* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी) |                  |
| हवलदार सेतन नमायाल (सं. 9924325 डब्ल्यू अब जेसी 588737 एक्स)                                          | 01 अक्टूबर 2014* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी) |                  |
| हवलदार पदमा दोर्जी (सं. 9924336 एच अब जेसी 588738 ए)                                                  | 01 अक्टूबर 2014* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी) |                  |
| हवलदार पदमा दोर्जे (सं. 9924190 ए अब जेसी 588739 एच)                                                  | 01 अक्टूबर 2014* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी) |                  |
| हवलदार गुलाम हसन (सं. 9924562 ए अब जेसी 588740 एक्स)                                                  | 01 अक्टूबर 2014* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी) |                  |
| हवलदार नवांग नोरबू (सं. 9924318 ए अब जेसी 588742 एच)                                                  | 01 अक्टूबर 2014* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी) |                  |
| हवलदार मलकियात सिंह (सं. 13692100 ए अब जेसी 588743 एल)                                                | 08 अक्टूबर 2014* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी) |                  |
| हवलदार मोहम्मद हसन (सं. 9924596 एन अब जेसी 588744 एन)                                                 | 01 नवम्बर 2014*  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)  |                  |
| हवलदार सेरिंग पुन्चोक (सं. 9925420 पी अब जेसी 588745 डब्ल्यू)                                         | 01 नवम्बर 2014*  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)  |                  |
| हवलदार टाशी स्तोब्दन (सं. 9924418 एल अब जेसी 588746 वाई)                                              | 01 नवम्बर 2014*  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)  |                  |

हवलदार टाशी पल्दन (सं. 9924507 के अब जेसी 588747 एफ) 01 नवम्बर 2014\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)

हवलदार छेरिंग टाशी (सं. 9924349 ए अब जेसी 588748 के) 10 नवम्बर 2014\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)

हवलदार स्तान्जिन थिन्लेस (सं. 9924354 एल अब जेसी 588749 एम) 10 नवम्बर 2014\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)

हवलदार थिन्लेस अंगदु (सं. 9924339 डब्ल्यू अब जेसी 588750 एफ) 01 दिसम्बर 2014\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जायेगी)

हवलदार लोब्जंग रिगजिन (सं. 9924753 पी अब जेसी 588751 के) 01 दिसम्बर 2014\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जायेगी)

हवलदार नवांग टुंडुप (सं. 9924156 ए अब जेसी 588752 एम) 01 फरवरी 2015\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जायेगी)

हवलदार सेरिंग पल्दन (सं. 9924198 एम अब जेसी 588753 पी) 01 फरवरी 2015\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जायेगी)

हवलदार फुन्चोक अंग्चोक (सं. 9924321 ए अब जेसी 588754 एक्स) 01 फरवरी 2015\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जायेगी)

हवलदार मोहम्मद फरोज (सं. 9924260 एन अब जेसी 588756 एच) 01 मार्च 2015\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जायेगी)

हवलदार स्तान्जिन जम्यांग (सं. 9924171 पी अब जेसी 588757 एल) 01 मार्च 2015\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क टुंडोप दोर्जी (सं. 9924914 एम अब जेसी 588730 एन) 01 अगस्त 2014\*

\*(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क अरविंद कुमार दिक्षित (सं. 9924917 ए अब जेसी 588755 ए) 01 फरवरी 2015\*

\*(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (धर्मशिक्षक) के रैंक में

राईफलमैन मोहम्मद नसीरुदीन (सं. 14653572 डब्ल्यू अब जेसी 588731 डब्ल्यू) 28 जून 2014\*

\*(नायब सूबेदार (आर टी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 जून 2014 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (आर टी) शेख असद शेख अब्दुल समाद (सं. 588641ए अब जेसी 588641ए) 02 अक्टूबर 2014\*

\*(नायब सूबेदार (आर टी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी)

जम्मू और काश्मीर राईफल्स  
सूबेदार मेजर जी0 डी0 के रैंक में

|                        |                 |             |                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| सूबेदार शमशेर सिंह     | जेसी-580592 एच  | जैक राईफल्स | 03 जुलाई 2014   |
| सूबेदार मिलाप चंद      | जेसी-580602 एफ  | जैक राईफल्स | 14 जुलाई 2014   |
| सूबेदार चेताराम        | जेसी-580649 एम  | जैक राईफल्स | 01 अगस्त 2014   |
| सूबेदार कृष्णचंद       | जेसी-580867एळ   | जैक राईफल्स | 01 अगस्त 2014   |
| सूबेदार गुरचरन सिंह    | जेसी-580327एम   | जैक राईफल्स | 03 सितम्बर 2014 |
| सूबेदार गनेश बहादुर मळ | जेसी-580617 के  | जैक राईफल्स | 08 सितम्बर 2014 |
| सूबेदार राजिंदर सिंह   | जेसी-580839 वाई | जैक राईफल्स | 03 अक्टूबर 2014 |
| सूबेदार विनोद कुमार    | जेसी-580849एच   | जैक राईफल्स | 01 नवम्बर 2014  |

सूबेदार मेजर लिपिक एस0 डी0 के रैंक में

|                                                 |                  |             |               |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|
| सूबेदार लिपिक (एस0 डी0) अश्वनी कुमार विश्वकर्मा | जेसी-580296 एक्स | जैक राईफल्स | 02 मार्च 2015 |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|

सूबेदार मेजर म्युजिसियन के रैंक में

|                               |                     |             |                |
|-------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| सूबेदार (म्युजिसियन) पारस राम | जेसी-580642 एच      | जैक राईफल्स | 10 अप्रैल 2015 |
| सूबेदार जी0 डी0 के रैंक में   |                     |             |                |
| नायब सूबेदार बाग हुसैन        | जेसी-581215 वाई     | जैक राईफल्स | 01 मार्च 2014  |
| नायब सूबेदार सुमन कल्याण सिंह | जेसी-581250 एफ      | जैक राईफल्स | 01 जून 2014    |
| नायब सूबेदार जगदीप सिंह       | जेसी-581294 वाई     | जैक राईफल्स | 01 जून 2014    |
| नायब सूबेदार बक्शी चंद        | जेसी-581304 एक्स    | जैक राईफल्स | 01 जून 2014    |
| नायब सूबेदार मलकीत सिंह       | जेसी-581316 एम      | जैक राईफल्स | 01 जून 2014    |
| नायब सूबेदार किशन लाल ठाकुर   | जेसी-581410 डब्ल्यू | जैक राईफल्स | 01 जून 2014    |
| नायब सूबेदार हरिन्दर सिंह     | जेसी-581203के       | जैक राईफल्स | 01 जुलाई 2014  |
| नायब सूबेदार राम सिंह         | जेसी-581244 एन      | जैक राईफल्स | 01 जुलाई 2014  |
| नायब सूबेदार अत्तर सिंह       | जेसी-581305ए        | जैक राईफल्स | 01 जुलाई 2014  |
| नायब सूबेदार गुरमीत सिंह      | जेसी-581317 पी      | जैक राईफल्स | 01 जुलाई 2014  |
| नायब सूबेदार विक्रमजीत शर्मा  | जेसी-581341 एल      | जैक राईफल्स | 01 जुलाई 2014  |
| नायब सूबेदार विजय कुमार       | जेसी-581342 एन      | जैक राईफल्स | 01 जुलाई 2014  |
| नायब सूबेदार हेम राज          | जेसी-581344 वाई     | जैक राईफल्स | 01 जुलाई 2014  |
| नायब सूबेदार पुरन चंद         | जेसी-581369 एच      | जैक राईफल्स | 01 जुलाई 2014  |
| नायब सूबेदार वेद प्रकाश       | जेसी-581375 वाई     | जैक राईफल्स | 01 जुलाई 2014  |
| नायब सूबेदार सतविन्दर कुमार   | जेसी-581416 एक्स    | जैक राईफल्स | 01 जुलाई 2014  |
| नायब सूबेदार मनोहर लाल        | जेसी-581449 एच      | जैक राईफल्स | 01 जुलाई 2014  |
| नायब सूबेदार वरिन्दर सिंह     | जेसी-581477 पी      | जैक राईफल्स | 01 जुलाई 2014  |
| नायब सूबेदार कुलदीप सिंह      | जेसी-581385एच       | जैक राईफल्स | 04 जुलाई 2014  |
| नायब सूबेदार सत पाल           | जेसी-581223 एक्स    | जैक राईफल्स | 08 जुलाई 2014  |

|                                 |                     |             |                 |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| नायब सूबेदार यश पाल             | जेसी-581419 एल      | जैक राईफल्स | 10 जुलाई 2014   |
| नायब सूबेदार रशीद खान           | जेसी-581208 एच      | जैक राईफल्स | 11 जुलाई 2014   |
| नायब सूबेदार बिजेन्द्र थापा     | जेसी-581209 एल      | जैक राईफल्स | 11 जुलाई 2014   |
| नायब सूबेदार गुरपाळ सिंह        | जेसी-581308 एन      | जैक राईफल्स | 12 जुलाई 2014   |
| नायब सूबेदार कृष्ण कुमार        | जेसी-581370 ए       | जैक राईफल्स | 14 जुलाई 2014   |
| नायब सूबेदार सतीश कुमार         | जेसी-581431 एम      | जैक राईफल्स | 15 जुलाई 2014   |
| नायब सूबेदार बिरि सिंह          | जेसी-581407 डब्ल्यू | जैक राईफल्स | 22 जुलाई 2014   |
| नायब सूबेदार भिखम राम           | जेसी-581326 डब्ल्यू | जैक राईफल्स | 01 अगस्त 2014   |
| नायब सूबेदार गुरबक्श सिंह       | जेसी-581343 डब्ल्यू | जैक राईफल्स | 01 अगस्त 2014   |
| नायब सूबेदार सतीश कुमार         | जेसी-581346 के      | जैक राईफल्स | 01 अगस्त 2014   |
| नायब सूबेदार होशियार चंद        | जेसी-581358 वाई     | जैक राईफल्स | 01 अगस्त 2014   |
| नायब सूबेदार देवेन्द्र थापा     | जेसी-581371 एच      | जैक राईफल्स | 01 अगस्त 2014   |
| नायब सूबेदार मोहन लाल           | जेसी-581408 वाई     | जैक राईफल्स | 01 अगस्त 2014   |
| नायब सूबेदार पवन कुमार          | जेसी-581500 के      | जैक राईफल्स | 01 अगस्त 2014   |
| नायब सूबेदार अशनी कुमार         | जेसी-581501 वाई     | जैक राईफल्स | 20 अगस्त 2014   |
| नायब सूबेदार चंद्र बहादुर       | जेसी-581399 एच      | जैक राईफल्स | 01 सितम्बर 2014 |
| नायब सूबेदार निर्मल सिंह        | जेसी-581465ए        | जैक राईफल्स | 01 सितम्बर 2014 |
| नायब सूबेदार बंशी लाल           | जेसी-581509एम       | जैक राईफल्स | 01 सितम्बर 2014 |
| नायब सूबेदार महेन्द्र पाल       | जेसी-581592पी       | जैक राईफल्स | 01 सितम्बर 2014 |
| नायब सूबेदार सूरज गुरुन्ग       | जेसी-581602एन       | जैक राईफल्स | 01 सितम्बर 2014 |
| नायब सूबेदार भजन सिंह           | जेसी-581231 डब्ल्यू | जैक राईफल्स | 07 सितम्बर 2014 |
| नायब सूबेदार पवन कुमार          | जेसी-581409एफ       | जैक राईफल्स | 01 अक्टूबर 2014 |
| नायब सूबेदार भोला राम           | जेसी-581426एफ       | जैक राईफल्स | 01 अक्टूबर 2014 |
| नायब सूबेदार बलकार सिंह         | जेसी-581480पी       | जैक राईफल्स | 01 अक्टूबर 2014 |
| नायब सूबेदार अश्वनी कुमार       | जेसी-581513पी       | जैक राईफल्स | 01 अक्टूबर 2014 |
| नायब सूबेदार रमेश लाल मल्होत्रा | जेसी-581556के       | जैक राईफल्स | 01 अक्टूबर 2014 |
| नायब सूबेदार शिव कुमार          | जेसी-581446पी       | जैक राईफल्स | 07 अक्टूबर 2014 |
| नायब सूबेदार रछपाल सिंह         | जेसी-581388 डब्ल्यू | जैक राईफल्स | 01 नवम्बर 2014  |
| नायब सूबेदार सुभाष चंद          | जेसी-581432पी       | जैक राईफल्स | 01 नवम्बर 2014  |
| नायब सूबेदार लोक नाथ छेत्री     | जेसी-581454 एन      | जैक राईफल्स | 01 नवम्बर 2014  |
| नायब सूबेदार गुरविन्द्र सिंह    | जेसी-581497 एच      | जैक राईफल्स | 01 नवम्बर 2014  |
| नायब सूबेदार अर्जुन सिंह        | जेसी-581498 एल      | जैक राईफल्स | 01 नवम्बर 2014  |
| नायब सूबेदार यश पाल             | जेसी-581546 ए       | जैक राईफल्स | 01 नवम्बर 2014  |
| नायब सूबेदार पदम नाभ            | जेसी-581578 एच      | जैक राईफल्स | 01 नवम्बर 2014  |
| नायब सूबेदार विजय कुमार         | जेसी-581514 एक्स    | जैक राईफल्स | 01 नवम्बर 2014  |

|                               |                 |             |                 |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| नायब सूबेदार जगदीश राज        | जेसी-581291 एल  | जैक राईफल्स | 01 दिसम्बर 2014 |
| नायब सूबेदार मदन कुमार        | जेसी-581376 एफ  | जैक राईफल्स | 01 दिसम्बर 2014 |
| नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह    | जेसी-581482 ए   | जैक राईफल्स | 01 दिसम्बर 2014 |
| नायब सूबेदार राबदीन शाह       | जेसी-581257एल   | जैक राईफल्स | 01 जनवरी 2015   |
| नायब सूबेदार अवतार सिंह       | जेसी-581552एन   | जैक राईफल्स | 01 जनवरी 2015   |
| नायब सूबेदार राज सिंह         | जेसी-581579एल   | जैक राईफल्स | 01 जनवरी 2015   |
| नायब सूबेदार पवन कुमार        | जेसी-581377 के  | जैक राईफल्स | 01 फरवरी 2015   |
| नायब सूबेदार हरबंस सिंह       | जेसी-581551एल   | जैक राईफल्स | 01 फरवरी 2015   |
| नायब सूबेदार सुखविन्दर सिंह   | जेसी-581229 वाई | जैक राईफल्स | 01 फरवरी 2015   |
| नायब सूबेदार कुलबिन्दर सिंह   | जेसी-581379पी   | जैक राईफल्स | 01 मार्च 2015   |
| नायब सूबेदार अशोक कुमार       | जेसी-581393 एफ  | जैक राईफल्स | 01 मार्च 2015   |
| नायब सूबेदार इस्लाम खान       | जेसी-581272ए    | जैक राईफल्स | 01 अप्रैल 2015  |
| नायब सूबेदार करतार सिंह ठाकुर | जेसी-581331एफ   | जैक राईफल्स | 01 अप्रैल 2015  |
| नायब सूबेदार हरि सिंह         | जेसी-581487वाई  | जैक राईफल्स | 01 अप्रैल 2015  |

नायब सूबेदार जी0 डी0 के रैंक में

|                                                                                                     |                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| हवलदार पुरन सिंह. एस एम                                                                             | 13756029 एफ अब जे सी-581862 वाई       | 21 जून 2014*   |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 मई 2014 से दी जायेगी ।    |                                       |                |
| हवलदार देश राज                                                                                      | 13755929 वाई अब जे सी-581863 एफ       | 28 जुलाई 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 मई 2014 से दी जायेगी ।    |                                       |                |
| हवलदार योग राज                                                                                      | 13754159 एल अब जे सी-581864 के        | 09 जून 2014*   |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी ।   |                                       |                |
| हवलदार सुभाष सिंह                                                                                   | 13756427 एच अब जे सी-581865 एम        | 20 जून 2014*   |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी ।   |                                       |                |
| हवलदार रमन सिंह                                                                                     | 13756599 एक्स अब जे सी-581866 पी      | 02 जून 2014    |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी ।   |                                       |                |
| हवलदार राम दत्त                                                                                     | 13756653 ए अब जे सी-581867 एक्स       | 01 जून 2014    |
| हवलदार अशोक कुमार                                                                                   | 13754725 ए अब जे सी-581868 ए          | 01 जून 2014    |
| हवलदार राकेश अग्निहोत्री                                                                            | 13754736 एम अब जे सी-581869 एच        | 01 जून 2014    |
| हवलदार सुरिन्दर सिंह                                                                                | 13754889 डब्ल्यू अब जे सी-581870 एक्स | 30 जून 2014*   |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जून 2014 से दी जायेगी ।   |                                       |                |
| हवलदार संजय कुमार, पी वी सी                                                                         | 13760533 वाई अब जे सी-581871 ए        | 02 जुलाई 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 जून 2014 से दी जायेगी ।   |                                       |                |
| हवलदार जसवन्त सिंह                                                                                  | 13754163 एन अब जे सी-581872 एच        | 09 जुलाई 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी । |                                       |                |
| हवलदार मुहम्मद रशीद                                                                                 | 13755473 एल अब जे सी-581873 एल        | 07 जुलाई 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी । |                                       |                |

|                                                                                                     |                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| हवलदार हरनाम सिंह                                                                                   | 4362400 एम अब जे सी-581874 एन         | 07 जुलाई 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी । |                                       |                |
| हवलदार रघुबीर सिंह                                                                                  | 13755030 के अब जे सी-581875 डब्ल्यू   | 14 जुलाई 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी । |                                       |                |
| हवलदार अनिल कुमार                                                                                   | 13756583 एम अब जे सी-581876 वाई       | 06 जुलाई 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी । |                                       |                |
| हवलदार राकेश कुमार                                                                                  | 13754586 एफ अब जे सी-581877 एफ        | 10 जुलाई 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी । |                                       |                |
| हवलदार राम पाल                                                                                      | 13756058 डब्ल्यू अब जे सी-581878 के   | 02 जुलाई 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी । |                                       |                |
| हवलदार जितेन्द्र कुमार राय                                                                          | 13753564 डब्ल्यू अब जे सी-581879 एम   | 01 जुलाई 2014  |
| हवलदार कृष्ण ठाकुर                                                                                  | 13754543 एम अब जे सी-581880 एफ        | 01 जुलाई 2014  |
| हवलदार सुशील कुमार कटोच                                                                             | 13754557 एम अब जे सी-581881 के        | 01 जुलाई 2014  |
| हवलदार प्रीतम सिंह                                                                                  | 13754609 एक्स अब जे सी-581882 एम      | 18 जुलाई 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी । |                                       |                |
| हवलदार संतोष कुमार                                                                                  | 13620446 एन अब जे सी-581883 पी        | 01 जुलाई 2014  |
| हवलदार सुभाष चन्द                                                                                   | 13756657 डब्ल्यू अब जे सी-581884 एक्स | 19 जुलाई 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी । |                                       |                |
| हवलदार कुलवन्त सिंह बंद्राल, एस एम                                                                  | 13758080 ए अब जे सी-581885 ए          | 17 जुलाई 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी । |                                       |                |
| हवलदार जोगिन्दर सिंह                                                                                | 4072982 एम अब जे सी-581886 एच         | 05 जुलाई 2014* |
| हवलदार संपूर्ण सिंह                                                                                 | 13755146 ए अब जे सी-581887 एल         | 05 जुलाई 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी । |                                       |                |
| हवलदार बलदेव राज                                                                                    | 13754901 एम अब जे सी-581888 एन        | 01 जुलाई 2014  |
| हवलदार राजिन्दर सिंह                                                                                | 13755152 एन अब जे सी-581889 डब्ल्यू   | 05 जुलाई 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी । |                                       |                |
| हवलदार सुधीर सिंह                                                                                   | 13758851 के अब जे सी-581894 एफ        | 01 मई 2014*    |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 मई 2013 से दी जायेगी ।    |                                       |                |
| हवलदार सुरेश कुमार                                                                                  | 13755281 एन अब जे सी-581895 के        | 09 अगस्त 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी । |                                       |                |
| हवलदार सतीश कुमार                                                                                   | 13756054 ए अब जे सी-581896 एम         | 01 अगस्त 2014* |
| हवलदार तजिन्दर कुमार                                                                                | 13756070 एक्स अब जे सी-581897 पी      | 01 अगस्त 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी । |                                       |                |
| हवलदार राकेश कुमार                                                                                  | 13756072 एच अब जे सी-581898 एक्स      | 09 अगस्त 2014* |
| हवलदार संजीव कुमार                                                                                  | 13756075 डब्ल्यू अब जे सी-581899 ए    | 09 अगस्त 2014* |

|                                                                                                     |                                          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| हवलदार सुभाष सिंह                                                                                   | 13755701 एच अब जे सी-581900 के           | 21 अगस्त 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी । |                                          |                |
| हवलदार रंजीत सिंह                                                                                   | 13755931 डब्ल्यू अब जे सी-581901 एम      | 28 जुलाई 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी । |                                          |                |
| हवलदार किशन सिंह                                                                                    | 13756752 एच अब जे सी-581902 पी           | 14 अगस्त 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी । |                                          |                |
| हवलदार राकेश कुमार                                                                                  | 13754912 वाई अब जे सी-581903 एक्स        | 01 अगस्त 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी । |                                          |                |
| हवलदार परविन्दर कुमार                                                                               | 13755243 एक्स अब जे सी-581904 ए          | 09 अगस्त 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 जुलाई 2014 से दी जायेगी । |                                          |                |
| हवलदार राजेन्द्र सिंह रौतेला                                                                        | 13755958 एन अब जे सी-581905 एच           | 09 अगस्त 2014* |
| हवलदार जनक राज                                                                                      | 13756312 पी अब जे सी-581906 एल           | 09 अगस्त 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जुलाई 2014 से दी जायेगी । |                                          |                |
| हवलदार अनुरुध सिंह                                                                                  | 13755055 डब्ल्यू अब जे सी-581907 एन      | 09 अगस्त 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 जुलाई 2014 से दी जायेगी । |                                          |                |
| हवलदार केसर सिंह                                                                                    | 13754441 डब्ल्यू अब जे सी-581908 डब्ल्यू | 09 अगस्त 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 जुलाई 2014 से दी जायेगी । |                                          |                |
| हवलदार दीपक साही                                                                                    | 13754966 ए अब जे सी-581909 एक्स          | 09 अगस्त 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जुलाई 2014 से दी जायेगी । |                                          |                |
| हवलदार नरोत्तम चन्द                                                                                 | 13754968 एल अब जे सी-581910 एन           | 11 अगस्त 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जुलाई 2014 से दी जायेगी । |                                          |                |
| हवलदार कुलबीर सिंह                                                                                  | 13754625 पी अब जे सी-581911 डब्ल्यू      | 11 अगस्त 2014* |
| हवलदार विनय ठाकुर                                                                                   | 13756922 एफ अब जे सी-581912 वाई          | 14 अगस्त 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 जुलाई 2014 से दी जायेगी । |                                          |                |
| हवलदार प्रभु दयाल                                                                                   | 13756658 वाई अब जे सी-581913 एफ          | 13 अगस्त 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 जुलाई 2014 से दी जायेगी । |                                          |                |
| हवलदार अवतार सिंह                                                                                   | 13755283 वाई अब जे सी-581914 के          | 09 अगस्त 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी । |                                          |                |
| हवलदार मोहन खडका                                                                                    | 13619495 के अब जे सी-581915 एम           | 01 अगस्त 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी । |                                          |                |
| हवलदार अमर शर्मा                                                                                    | 13756094 एफ अब जे सी-581916 पी           | 01 अगस्त 2014  |
| हवलदार रुपेश शर्मा                                                                                  | 13756097 पी अब जे सी-581917 एक्स         | 09 अगस्त 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी । |                                          |                |
| हवलदार रशपाल सिंह                                                                                   | 13758167 एफ अब जे सी-581918 ए            | 13 अगस्त 2014* |

|                                                                                                      |                                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| हवलदार विजय कुमार                                                                                    | 13758185 के अब जे सी-581919 एच       | 13 अगस्त 2014*   |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी।   |                                      |                  |
| हवलदार गुरचरन सिंह                                                                                   | 13756959 एच अब जे सी-581922 एच       | 01 सितम्बर 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जुलाई 2014 से दी जायेगी।   |                                      |                  |
| हवलदार संजीव कुमार                                                                                   | 13753404 डब्ल्यू अब जे सी-581923 एल  | 25 अगस्त 2014*   |
| हवलदार नरोत्तम सिंह                                                                                  | 13753692 एन अब जे सी-581924 एन       | 25 अगस्त 2014*   |
| हवलदार रविन्दर सिंह पलियाल                                                                           | 13754364 एम अब जे सी-581925 डब्ल्यू  | 25 अगस्त 2014*   |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 जुलाई 2014 से दी जायेगी।   |                                      |                  |
| हवलदार अनिल शर्मा                                                                                    | 13754813 डब्ल्यू अब जे सी-581926 वाई | 28 अगस्त 2014*   |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 जुलाई 2014 से दी जायेगी।   |                                      |                  |
| हवलदार सुख देव                                                                                       | 13754165 वाई अब जे सी-581927 एफ      | 13 अगस्त 2014*   |
| हवलदार शेर सिंह                                                                                      | 13756079 एम अब जे सी-581928 के       | 14 अगस्त 2014*   |
| हवलदार जय राम                                                                                        | 13756082 एम जे सी-581929 एम          | 16 अगस्त 2014*   |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी।   |                                      |                  |
| हवलदार प्रेम प्रसाद पौडल                                                                             | 13755077 पी अब जे सी-581930 एफ       | 05 सितम्बर 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी।   |                                      |                  |
| हवलदार रूप लाल                                                                                       | 13754626 एक्स अब जे सी-581931 के     | 01 सितम्बर 2014* |
| हवलदार सुरजीत सिंह                                                                                   | 13754750 वाई अब जे सी-581932 एम      | 02 सितम्बर 2014* |
| हवलदार धर्म पाल                                                                                      | 13754751 एफ अब जे सी-581933 पी       | 02 सितम्बर 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 अगस्त 2014 से दी जायेगी।   |                                      |                  |
| हवलदार गुरदेव सिंह                                                                                   | 13756970 एफ अब जे सी-581934 एक्स     | 01 सितम्बर 2014  |
| हवलदार टहल सिंह                                                                                      | 13756428 एल अब जे सी-581935 ए        | 18 सितम्बर 2014* |
| हवलदार उमेश तमंग                                                                                     | 13756103 एक्स अब जे सी-581936 एच     | 18 सितम्बर 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी। |                                      |                  |
| हवलदार मनजीत सिंह                                                                                    | 13758225 ए अब जे सी-581937 एल        | 01 सितम्बर 2014  |
| हवलदार मोहिन्दर चन्द                                                                                 | 13757062 एल अब जे सी-581938 एन       | 18 सितम्बर 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 सितम्बर 2014 से दी जायेगी। |                                      |                  |
| हवलदार सुशील कुमार                                                                                   | 13755042 वाई अब जे सी-581939 डब्ल्यू | 13 सितम्बर 2014  |
| हवलदार देवी दास                                                                                      | 13755244 ए अब जे सी-581940 एल        | 11 जुलाई 2014*   |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी।   |                                      |                  |
| हवलदार बलवीर सिंह                                                                                    | 13755513 एफ अब जे सी-581941 एन       | 15 अक्टूबर 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 जुलाई 2014 से दी जायेगी।   |                                      |                  |
| हवलदार जगजीत सिंह                                                                                    | 13755433 के अब जे सी-581942 डब्ल्यू  | 03 अक्टूबर 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 जुलाई 2014 से दी जायेगी।   |                                      |                  |
| हवलदार सुभाष चन्द                                                                                    | 13754464 वाई अब जे सी-581943 वाई     | 22 अगस्त 2014*   |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी।   |                                      |                  |

|                                                                                                       |                                          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| हवलदार कमलेश कुमार                                                                                    | 13754548 एल अब जे सी-581944 एफ           | 07 अक्टूबर 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अगस्त 2014 से दी जायेगी ।   |                                          |                  |
| हवलदार किशोर कुमार                                                                                    | 13755601 एक्स अब जे सी-581945 के         | 13 अक्टूबर 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 सितम्बर 2014 से दी जायेगी । |                                          |                  |
| हवलदार सुरिन्दर सिंह                                                                                  | 13755702 एल जे सी-581946 एम              | 29 अक्टूबर 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 सितम्बर 2014 से दी जायेगी । |                                          |                  |
| हवलदार मंगल सिंह                                                                                      | 13755553 एच अब जे सी-581947 पी           | 07 अक्टूबर 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी । |                                          |                  |
| हवलदार राज कुमार                                                                                      | 13756192 एफ अब जे सी-581948 एक्स         | 04 अक्टूबर 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी । |                                          |                  |
| हवलदार कुलजीत सिंह                                                                                    | 13756077 एफ वाई अब जे सी-581949 ए        | 23 अक्टूबर 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी । |                                          |                  |
| हवलदार नरेश कुमार                                                                                     | 13758227 एल अब जे सी-581950 पी           | 24 अक्टूबर 2014* |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी । |                                          |                  |
| हवलदार खेम चन्द                                                                                       | 13758248 एफ अब जे सी-581951 एक्स         | 03 नवम्बर 2014*  |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी । |                                          |                  |
| हवलदार गुरदेव सिंह                                                                                    | 13755215 एल अब जे सी-581952 ए            | 01 नवम्बर 2014   |
| हवलदार जिन्दर पाल सिंह                                                                                | 13756092 डब्ल्यू अब जे सी-581953 एच      | 01 नवम्बर 2014   |
| हवलदार कुलदीप कुमार                                                                                   | 13756093 वाई अब जे सी-581954 एल          | 01 नवम्बर 2014   |
| हवलदार देश राज                                                                                        | 13755481 के अब जे सी-581955 एन           | 01 नवम्बर 2014   |
| हवलदार केहर सिंह                                                                                      | 13755208 पी अब जे सी-581956 डब्ल्यू      | 18 नवम्बर 2014*  |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी ।  |                                          |                  |
| हवलदार सविन्दर पाल सिंह                                                                               | 13755302 वाई अब जे सी-581957 वाई         | 13 नवम्बर 2014*  |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी ।  |                                          |                  |
| हवलदार जगदेव सिंह                                                                                     | 13755381 वाई अब जे सी-581958 एफ          | 12 नवम्बर 2014*  |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी ।  |                                          |                  |
| नायब सूबेदार लिपिक एस0 डी0 के रैंक में                                                                |                                          |                  |
| हवलदार लिपिक (एस0 डी0) संजीव कुमार                                                                    | 3991098 एच अब जे सी-581860 एन            | 01 जुलाई 2014    |
| हवलदार लिपिक (एस0 डी0) देशमुख रविकांत अप्पाराय                                                        | 13756629 के अब जे सी-581861 डब्ल्यू      | 01 जुलाई 2014    |
| हवलदार लिपिक (एस0 डी0) ओम प्रकाश                                                                      | 13756745 एम अब जे सी-581890 एल           | 01 अगस्त 2014    |
| हवलदार लिपिक (एस0 डी0) स्वरूप कुमार मंडल                                                              | 13756756 वाई अब जे सी-581891 एन          | 01 अगस्त 2014    |
| हवलदार लिपिक (एस0 डी0) ब्रजेन्द्र सिंह                                                                | 13756898 डब्ल्यू अब जे सी-581892 डब्ल्यू | 01 अगस्त 2014    |
| हवलदार लिपिक (एस0 डी0) लक्ष्मण सरकार                                                                  | 13756942 पी अब जे सी-581893 वाई          | 01 अगस्त 2014    |
| हवलदार लिपिक (एस0 डी0) प्रदीप कुमार शर्मा                                                             | 13756995 एन अब जे सी-581920 एक्स         | 01 सितम्बर 2014  |
| हवलदार लिपिक (एस0 डी0) तरसेम सिंह                                                                     | 13756998 एफ अब जे सी-581921 ए            | 01 सितम्बर 2014  |

|                                      |                                        |                 |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| हवलदार लिपिक (एस0 डी0) मदन लाल       | 13756586 ए अब जे सी-581959 के          | 01 नवम्बर 2014  |
| हवलदार लिपिक (एस0 डी0) सी करुपैया    | 13756667 ए अब जे सी सी-581961 वाई      | 01 दिसम्बर 2014 |
| हवलदार लिपिक (एस0 डी0) राजिन्दर सिंह | 13753144 डब्ल्यू अब जे सी सी-581961 एफ | 01 दिसम्बर 2014 |
| हवलदार लिपिक (एस0 डी0) राजेश चन्द    | 13754226 एल अब जे सी सी-581962 के      | 01 दिसम्बर 2014 |

राजपूताना राईफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

|                                                                                                   |                                    |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| नायब सूबेदार धर्मबीर                                                                              | (2888990के अब जेसी-471597एल)       | 10 मई 2015/*01 अगस्त 2014      |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 दी जायेगी)  |                                    |                                |
| नायब सूबेदार दिलदार हुसैन अंसारी                                                                  | (2888919डब्ल्यू अब जेसी-471598एन)  | 27 मई 2015/*01 जनवरी 2015      |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 दी जायेगी)  |                                    |                                |
| नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र                                                                         | (2888651के अब जेसी-471599डब्ल्यू)  | 24 अप्रैल 2015/*01 जनवरी 2015  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 दी जायेगी)  |                                    |                                |
| नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार                                                                      | (2889552एन अब जेसी-471600ए)        | 02 जुलाई 2015/*01 जनवरी 2015   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 दी जायेगी)  |                                    |                                |
| नायब सूबेदार महेश सिंह राजपूत                                                                     | (2893341एच अब जेसी-471601एच)       | 13 जून 2015/*08 जनवरी 2015     |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 जनवरी 2015 दी जायेगी)  |                                    |                                |
| नायब सूबेदार सुल्तान सिंह                                                                         | (4074363एक्स अब जेसी-471602एल)     | 30 मई 2015/*13 जनवरी 2015      |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जनवरी 2015 दी जायेगी)  |                                    |                                |
| नायब सूबेदार बजरंग सिंह                                                                           | (2889466एच अब जेसी-471603एन)       | 27 मई 2015/*01 फरवरी 2015      |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 दी जायेगी)  |                                    |                                |
| नायब सूबेदार राजवीर सिंह                                                                          | (3994007वाई अब जेसी-471604डब्ल्यू) | 16 अप्रैल 2015/*01 फरवरी 2015  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 दी जायेगी)  |                                    |                                |
| नायब सूबेदार चरन सिंह                                                                             | (2888160एन अब जेसी-471605वाई)      | 06 जुलाई 2015/*01 फरवरी 2015   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 दी जायेगी)  |                                    |                                |
| नायब सूबेदार हजारी लाल वर्मा                                                                      | (2889814वाई अब जेसी-471606एफ)      | 05 जून 2015/*26 फरवरी 2015     |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 फरवरी 2015 दी जायेगी)  |                                    |                                |
| नायब सूबेदार राज करन सिंह                                                                         | (2889482ए अब जेसी-471607के)        | 27 मई 2015/*25 मार्च 2015      |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 मार्च 2015 दी जायेगी)  |                                    |                                |
| नायब सूबेदार सुनील कुमार                                                                          | (2888879ए अब जेसी-471608एम)        | 08 अप्रैल 2015/*01 अप्रैल 2015 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 दी जायेगी) |                                    |                                |
| नायब सूबेदार विशाल सिंह भदौरिया                                                                   | (2888787एन अब जेसी-471609पी)       | 26 अप्रैल 2015/*01 अप्रैल 2015 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 दी जायेगी) |                                    |                                |
| नायब सूबेदार श्यामवीर सिंह                                                                        | (2889155पी अब जेसी-471610के)       | 08 अप्रैल 2015/*01 अप्रैल 2015 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 दी जायेगी) |                                    |                                |
| नायब सूबेदार महेश सिंह                                                                            | (2889035डब्ल्यू अब जेसी-471611एम)  | 01 अप्रैल 2015                 |

|                                                                                                   |                                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| नायब सूबेदार रमेश                                                                                 | (2888314पी अब जेसी-471612पी)        | 03 अप्रैल 2015 / *01 अप्रैल 2015 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 दी जायेगी) |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार जयवीर सिंह                                                                           | (2891285डब्ल्यू अब जेसी-471613एक्स) | 18 अप्रैल 2015 / *01 अप्रैल 2015 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 दी जायेगी) |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार राजेश कुमार                                                                          | (2896901पी अब जेसी-471614ए)         | 05 जून 2015 / *01 अप्रैल 2015    |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 दी जायेगी) |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार लिपिक देबा प्रसाद सरकार                                                              | (2890697एल अब जेसी-471615एच)        | 30 मई 2015 / *01 मई 2015         |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2015 दी जायेगी)     |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार लिपिक पवन कुमार शर्मा                                                                | (2890772के अब जेसी-471616एल)        | 25 मई 2015 / *01 मई 2015         |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2015 दी जायेगी)     |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार शिवजीत सिंह                                                                          | (2890979के अब जेसी-471617एन)        | 01 मई 2015                       |
| नायब सूबेदार प्रकाश नारायण सिंह                                                                   | (2888393पी अब जेसी-471618डब्ल्यू)   | 04 मई 2015 / *01 मई 2015         |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2015 दी जायेगी)     |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार मालम सिंह                                                                            | (2887911एक्स अब जेसी-471619वाई)     | 17 जून 2015 / *01 मई 2015        |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2015 दी जायेगी)     |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार जीतेन्द्र सिंह                                                                       | (2889157ए अब जेसी-471620एन)         | 01 मई 2015                       |
| नायब सूबेदार नवीन कुमार                                                                           | (2888748पी अब जेसी-471621डब्ल्यू)   | 06 मई 2015 / *01 मई 2015         |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2015 दी जायेगी)     |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार सीता राम चौधरी                                                                       | (2888175 डब्ल्यू अब जेसी-471622वाई) | 12 जून 2015 / *29 मई 2015        |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 मई 2015 दी जायेगी)     |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार डाकी रनमल जीवा                                                                       | (2888149पी अब जेसी-471623एफ)        | 01 जून 2015                      |
| नायब सूबेदार नरेश सिंह निरबान                                                                     | (2889555एफ अब जेसी-471624के)        | 13 जुलाई 2015 / *01 जून 2015     |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 दी जायेगी)    |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार श्रवण कुमार सिंह                                                                     | (2888297ए अब जेसी-471625एम)         | 12 जून 2015 / *01 जून 2015       |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 दी जायेगी)    |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार रवि सिंह                                                                             | (2888973के अब जेसी-471626पी)        | 01 जून 2015                      |
| नायब सूबेदार अजय कुमार                                                                            | (2890160एम अब जेसी-471627एक्स)      | 28 जून 2015 / *01 जून 2015       |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 दी जायेगी)    |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार इकबाल हुसैन                                                                          | (2889012पी अब जेसी-471628ए)         | 13 जुलाई 2015 / *01 जून 2015     |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 दी जायेगी)    |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार कपीन्द्र सिंह तंवर                                                                   | (2889408वाई अब जेसी-471629एच)       | 01 जून 2015                      |
| नायब सूबेदार कुमार पाल सिंह                                                                       | (2889094एच अब जेसी-471630एक्स)      | 04 जून 2015 / *01 जून 2015       |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 दी जायेगी)    |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार रिषी पाल                                                                             | (2890826ए अब जेसी-471631ए)          | 02 जून 2015 / *01 जून 2015       |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 दी जायेगी)    |                                     |                                  |

|                                                                                                  |                                   |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| नायब सूबेदार धर्मेन्द्र कुमार                                                                    | (2889833के अब जेसी-471632एच)      | 02 जुलाई 2015/*15 जून 2015   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जून 2015 दी जायेगी)   |                                   |                              |
| नायब सूबेदार विजेन्द्र सिंह                                                                      | (2889381एम अब जेसी-471633एल)      | 09 जुलाई 2015/*16 जून 2015   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 जून 2015 दी जायेगी)   |                                   |                              |
| नायब सूबेदार प्रकाश मान                                                                          | (2888738एल अब जेसी-471634एन)      | 13 जुलाई 2015/*24 जून 2015   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जून 2015 दी जायेगी)   |                                   |                              |
| नायब सूबेदार राम निवास महला                                                                      | (2880501एम अब जेसी-471635डब्ल्यू) | 02 जुलाई 2015/*01 जुलाई 2015 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 दी जायेगी) |                                   |                              |
| नायब सूबेदार अनिल कुमार                                                                          | (2891524ए अब जेसी-471636वाई)      | 06 जुलाई 2015/*01 जुलाई 2015 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 दी जायेगी) |                                   |                              |

वी एन रवीन्द्रन  
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 223, दिनांक 27 अगस्त 2015—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित सेना दन्त चिकित्सा कोर के अधिकारियों को दिनांक 26 दिसम्बर 2014 से अल्पस्थायी कमीशन से मुक्त करते हैं तथा उसी तिथि से ही सेना दन्त चिकित्सा कोर में थलसेना अनुदेश 37/78 के अधीन स्थायी कमीशन में नियुक्त करते हैं :—

नियमित सेना

सेना दन्त चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

अल्पकालीन कमीशन से स्थायी कमीशन में

| पदनाम                       | निजी संख्या       | स्थायी कमीशन की तिथि के साथ वरिष्ठता                                                 |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| मेजर पीयूष पाठक             | डीआर-10707एल      | 26-12-2014 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 28-02-2007 से दी जाती है । |
| मेजर कृष्णप्रसाद के आर      | डीआर-10708एन      | 26-12-2014 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 04-11-2007 से दी जाती है । |
| मेजर मौर्या राजकुमार रामजतन | डीआर-10709डब्ल्यू | 26-12-2014 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 01-03-2008 से दी जाती है । |
| मेजर सौम्यजित कुमार सौतरा   | डीआर-10710एल      | 26-12-2014 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 14-03-2008 से दी जाती है । |
| मेजर अर्णव मुखर्जी          | डीआर-10711एन      | 26-12-2014 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 29-03-2009 से दी जाती है । |
| कप्तान रोहिन तकियार         | डीआर-10712डब्ल्यू | 26-12-2014 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 30-08-2010 से दी जाती है । |
| कप्तान मुनीश जोशी           | डीआर-10713वाई     | 26-12-2014 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 14-10-2010 से दी जाती है । |
| कप्तान गौरव प्रताप सिंह     | डीआर-10714एफ      | 26-12-2014 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 07-03-2011 से दी जाती है । |

| पदनाम                        | निजी संख्या       | स्थाई कमीशन की तिथि के साथ वरिष्ठता                                                  |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| कप्तान हर्ष राठी             | डीआर-10715के      | 26-12-2014 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 16-03-2011 से दी जाती है । |
| कप्तान पुष्कर सदानंद अंधारे  | डीआर-10716एम      | 26-12-2014 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 01-04-2011 से दी जाती है । |
| कप्तान दुष्यन्त मलिक         | डीआर-10717पी      | 26-12-2014 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 02-05-2011 से दी जाती है । |
| कप्तान विवेक कुमार ठाकुर     | डीआर-10718एक्स    | 26-12-2014 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 02-05-2011 से दी जाती है । |
| कप्तान नितिन कुमार वर्मा     | डीआर-10719ए       | 26-12-2014 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 13-05-2011 से दी जाती है । |
| कप्तान शिजू मेथ्यू जैकब      | डीआर-10720पी      | 26-12-2014 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 30-05-2011 से दी जाती है । |
| कप्तान आशीष ठाकुर            | डीआर-10721एक्स    | 26-12-2014 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 17-08-2011 से दी जाती है । |
| कप्तान सन्नी भाटिया          | डीआर-10722ए       | 26-12-2014 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 25-08-2011 से दी जाती है । |
| कप्तान पि इन्द्रनील          | डीआर-10723एच      | 26-12-2014 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 05-09-2011 से दी जाती है । |
| कप्तान शुभम् खन्ना           | डीआर-10724एल      | 26-12-2014 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 10-09-2011 से दी जाती है । |
| कप्तान अरुण कुमार शमटरशान आर | डीआर-10725एन      | 26-12-2014 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 26-03-2012 से दी जाती है । |
| कप्तान प्रमोद कुमार          | डीआर-10726डब्ल्यू | 26-12-2014 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 26-03-2012 से दी जाती है । |

एच एस संधू  
ब्रिगेडियर  
डीडीजीडीएस (पी)

थलसेना विभाग

सं. 224, दिनांक 27 अगस्त 2015—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को उनके निजी कारणवश निवेदन पर समयपूर्व निवृत्ति, उनके नाम के समक्ष लिखी तिथि से, अनुमति प्रदान करते हैं:—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अस्थाई कमीशन)

निवृत्ति

| निजी संख्या   | रैंक   | नाम          | सेवानिवृत्ति की तिथि |
|---------------|--------|--------------|----------------------|
| डी एस-12522एच | कप्तान | अन्शुल अरोडा | 31-03-2015 (प्रातः)  |

एच एस संधू  
ब्रिगेडियर  
डीडीजीडीएस (पी)

## थलसेना विभाग

सं. 225, दिनांक 28 अगस्त 2015—राष्ट्रपति, थलसेना अनुदेश 37/78 के अधीन निम्नलिखित अधिकारी को थल सेना से सेवानिवृत्त करते हैं:—

नियमित सेना  
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर  
(स्थाई कमीशन)  
सेवानिवृत्ति

| निजी संख्या   | रैंक          | नाम           | सेवानिवृत्ति की तिथि |
|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| डी आर-10298एच | ले जनरल       | विमल अरोडा    | 22.03.2015 (सायः)    |
| डी आर-10328पी | मेजर जनरल     | जी के थपलियाल | 28.02.2015 (सायः)    |
| डी आर-10312के | कर्नल (टी एस) | वाई त्यागी    | 30.04.2015 (सायः)    |

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को उनके निजी कारणवश निवेदन पर समयपूर्व सेवानिवृत्त, उनके नाम के समक्ष लिखी तिथि से, अनुमति प्रदान करते हैं:—

## समयपूर्व सेवा निवृत्ति

|               |               |             |                   |
|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| डी आर-10383एल | कर्नल (टी एस) | प्रकाश हलदर | 31.03.2015 (सायः) |
|---------------|---------------|-------------|-------------------|

एच एस संधू  
ब्रिगेडियर  
डीडीजीडीएस (पी)

## थलसेना विभाग

सं. 226, दिनांक 28 अगस्त 2015—राष्ट्रपति, थलसेना अनुदेश 15/79 के अधीन निम्नलिखित अधिकारियों को थल सेना से निवृत्त करते हैं:—

नियमित सेना  
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर  
(अल्पकालीन कमीशन)  
निवृत्ति

| निजी संख्या   | नाम                   | टिप्पणी             |
|---------------|-----------------------|---------------------|
| डी एस-12142के | मेजर टी शंमानन्द सिंह | 08-04-2015 (सायः)   |
| डी एस-12351एफ | मेजर रोहित ठाकुर      | 28-04-2015 (प्रातः) |
| डी एस-12375एल | मेजर (सुश्री) दिव्या  | 15-04-2015 (सायः)   |

एच एस संधू  
ब्रिगेडियर  
डीडीजीडीएस (पी)

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 12<sup>th</sup> September 2015No. 215, dated 24<sup>th</sup> August 2015—The President is pleased to make the following promotions:-

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col

| Pers No  | Name                       | Arms  | Date of Promotion |
|----------|----------------------------|-------|-------------------|
| IC-55810 | Jung Bahadur Singh         | ASC   | 27 Oct 2014       |
| IC-55930 | Ravinder Singh Rana        | ASC   | 27 Oct 2014       |
| IC-56167 | Nitin Chopra               | Arty  | 27 Oct 2014       |
| IC-56259 | Jitender Tyagi D Rao       | Inf   | 27 Oct 2014       |
| IC-56307 | Randeep Singh              | Inf   | 27 Oct 2014       |
| IC-56406 | Xavier D Souza             | Arty  | 27 Oct 2014       |
| IC-56407 | Praveen Singh Bisht        | Engrs | 27 Oct 2014       |
| IC-56439 | Puneet Sharma              | AC    | 27 Oct 2014       |
| IC-56564 | Himanshu Borgaonkar        | Engrs | 27 Oct 2014       |
| IC-57235 | Premjit                    | Engrs | 27 Oct 2014       |
| IC-58287 | Sambit Shatadal Pattajoshi | Arty  | 27 Oct 2014       |
| IC-58576 | Patnaikuni Nagraj          | AEC   | 27 Oct 2014       |
| IC-59148 | Suresh Kumar Singh         | Arty  | 27 Oct 2014       |
| IC-59332 | Ajay Balakrishnan          | Inf   | 27 Oct 2014       |
| IC-59500 | Ajay Tomar                 | Inf   | 27 Oct 2014       |
| IC-59839 | Vineet Madan               | Sigs  | 27 Oct 2014       |
| IC-59854 | Rajeshwar Singh Kushwah    | Arty  | 27 Oct 2014       |
| IC-59964 | Munish Gupta               | Engrs | 27 Oct 2014       |
| IC-59967 | A Venu Gopal Reddy         | EME   | 27 Oct 2014       |
| IC-59984 | Deepak Srivastava          | Inf   | 27 Oct 2014       |
| IC-59990 | Parikshit                  | AC    | 27 Oct 2014       |
| IC-60303 | Rahul Shukla               | EME   | 27 Oct 2014       |
| IC-60331 | KM Santosh                 | EME   | 27 Oct 2014       |
| IC-60332 | Vinod Singh                | Inf   | 27 Oct 2014       |
| IC-60437 | Vikas Bhomia               | Engrs | 27 Oct 2014       |
| IC-60464 | Sachin Kumar               | EME   | 27 Oct 2014       |
| IC-60476 | Sunil Kumar Singh          | Int   | 27 Oct 2014       |
| IC-60483 | Ashish Chauhan             | EME   | 27 Oct 2014       |

| Pers No  | Name                      | Arms  | Date of Promotion |
|----------|---------------------------|-------|-------------------|
| IC-60548 | Pawahjeet Singh Bhullar   | AC    | 27 Oct 2014       |
| IC-60591 | Naresh Kumar              | Arty  | 27 Oct 2014       |
| IC-60673 | Kuldeep Sailwal           | Sigs  | 27 Oct 2014       |
| IC-60695 | Abhay Dogra               | Engrs | 27 Oct 2014       |
| IC-60723 | Rajesh Kumar Sinha        | AOC   | 27 Oct 2014       |
| IC-60743 | Shashi Kant Sharma        | Arty  | 27 Oct 2014       |
| IC-60824 | TS Lokesh                 | Inf   | 27 Oct 2014       |
| IC-60880 | Deepak MR                 | EME   | 27 Oct 2014       |
| IC-61026 | Maneesh Malviya           | AAD   | 27 Oct 2014       |
| IC-61032 | Deeptansh Mohan           | Arty  | 27 Oct 2014       |
| IC-61080 | Bikram Jit Singh Badhwar  | AOC   | 27 Oct 2014       |
| IC-61092 | Rahul Singh               | inf   | 27 Oct 2014       |
| IC-61118 | Mohammed Irfan Naeem      | Engrs | 27 Oct 2014       |
| IC-61129 | Abhishek Sharma           | EME   | 27 Oct 2014       |
| IC-61135 | Ramanjeet Singh Chatha    | AAD   | 27 Oct 2014       |
| IC-61137 | Ajay Singh                | M/Inf | 27 Oct 2014       |
| IC-61151 | Arindam Ghosh             | Inf   | 27 Oct 2014       |
| IC-61310 | Misaal Yashawant Shyamrao | EME   | 27 Oct 2014       |
| IC-61320 | Nitin                     | Sigs  | 27 Oct 2014       |
| IC-61396 | Vinod Kumar               | Inf   | 08 Dec 2014       |
| IC-61526 | Anurag Bakshi             | AC    | 08 Dec 2014       |
| IC-61590 | Amit Shukla               | Inf   | 08 Dec 2014       |
| IC-61614 | Abhishek Thakur           | Inf   | 08 Dec 2014       |
| IC-61630 | Atul Sharma               | Inf   | 08 Dec 2014       |
| IC-61633 | Mayank Rastogi            | Engrs | 08 Dec 2014       |
| IC-61643 | Ravi Kumar                | ASC   | 08 Dec 2014       |
| IC-61657 | Padam Gouru Naidu         | EME   | 08 Dec 2014       |
| IC-61665 | Bhupendra Rawat           | AAD   | 08 Dec 2014       |
| IC-61680 | M Selva Kumar             | Inf   | 08 Dec 2014       |
| IC-61684 | Pramod Singh              | Inf   | 08 Dec 2014       |
| IC-61697 | Sushant Kumar Mohapatra   | Inf   | 08 Dec 2014       |
| IC-61709 | Abhay Singh Rathore       | AC    | 08 Dec 2014       |
| IC-61711 | Viraj Gurung              | Arty  | 08 Dec 2014       |

| Pers No  | Name                        | Arms  | Date of Promotion |
|----------|-----------------------------|-------|-------------------|
| IC-61723 | Yogesh Jha                  | ASC   | 08 Dec 2014       |
| IC-61724 | Shailendra Singh            | Arty  | 08 Dec 2014       |
| IC-61737 | Ankush Pathania             | Inf   | 08 Dec 2014       |
| IC-61748 | Dharmendra Singh            | AAD   | 08 Dec 2014       |
| IC-61764 | T Nithyanand Karunya Murthy | EME   | 08 Dec 2014       |
| IC-61766 | Sarwan Kumar                | Inf   | 08 Dec 2014       |
| IC-61781 | Vivek Pal Singh             | Arty  | 08 Dec 2014       |
| IC-61804 | Piyush Yadav                | Int   | 08 Dec 2014       |
| IC-61820 | Vivek Kandwal               | EME   | 08 Dec 2014       |
| IC-61840 | Rajesh Choudhary            | Inf   | 08 Dec 2014       |
| IC-61853 | Harshwardhan Pande          | AC    | 08 Dec 2014       |
| IC-61874 | Prasun Pallaw               | AAD   | 08 Dec 2014       |
| IC-61879 | Sandeep Bana                | Int   | 08 Dec 2014       |
| IC-61887 | Manish Kumar Singh          | Arty  | 08 Dec 2014       |
| IC-61907 | Kapil Sharma                | ASC   | 08 Dec 2014       |
| IC-61912 | S Anand Singh               | Inf   | 08 Dec 2014       |
| IC-61917 | Prakash Chand Sirswal       | Inf   | 08 Dec 2014       |
| IC-61918 | Tarun Singh                 | Inf   | 08 Dec 2014       |
| IC-61930 | Mahinder Dharani            | Int   | 08 Dec 2014       |
| IC-61941 | Atul Srivastava             | Inf   | 08 Dec 2014       |
| IC-61944 | Brijesh Sharma              | Inf   | 08 Dec 2014       |
| IC-61947 | Jitender Kumar Saini        | Sigs  | 08 Dec 2014       |
| IC-61959 | Anant Saurav                | Arty  | 08 Dec 2014       |
| IC-62483 | Vivek Kumar Pandey          | EME   | 27 Oct 2014       |
| IC-63336 | Karajgi Zaheer Abbas SA     | Engrs | 27 Oct 2014       |
| IC-63731 | Jasdeep Singh               | EME   | 13 Dec 2014       |
| IC-63743 | Sunil Kumar                 | Arty  | 13 Dec 2014       |
| IC-63757 | Saurabh Modi                | AC    | 13 Dec 2014       |
| IC-64872 | Deepesh Sable               | Inf   | 27 Oct 2014       |
| IC-64879 | Vikram Deo Singh            | Inf   | 27 Oct 2014       |
| IC-64894 | Sandeep Singh               | Inf   | 27 Oct 2014       |
| IC-64983 | Karuna Thapliyal            | AEC   | 27 Oct 2014       |
| IC-65036 | Taqueer Muntakhab           | Inf   | 27 Oct 2014       |

| Pers No  | Name                        | Arms   | Date of Promotion |
|----------|-----------------------------|--------|-------------------|
| IC-65079 | Amit Gupta                  | Arty   | 27 Oct 2014       |
| IC-65084 | Prithipal Singh Ahluwalia   | EME    | 27 Oct 2014       |
| IC-65087 | Ashish Chauhan              | Engrs  | 27 Oct 2014       |
| IC-65195 | KK Giri                     | Engrs  | 03 Nov 2014       |
| IC-65255 | Piyush Krishana             | Arty   | 03 Nov 2014       |
| IC-65800 | Nahush Malviya              | Engrs  | 27 Oct 2014       |
| IC-67614 | Saroj Kumar Adhikary        | AOC    | 27 Oct 2014       |
| SC-00139 | Murugasan C                 | Inf    | 27 Oct 2014       |
| SC-00176 | Jodha Anirudh Singh         | Inf    | 27 Oct 2014       |
| SC-00182 | Raj Pal Singh               | Sigs   | 27 Oct 2014       |
| SC-00215 | Amit Kumar Adarsh           | EME    | 27 Oct 2014       |
| SC-00217 | AP Pandey                   | AOC    | 27 Oct 2014       |
| SC-00220 | DN Tiwari                   | Inf    | 27 Oct 2014       |
| SC-00338 | Rachhpal Singh              | Inf    | 27 Oct 2014       |
| SC-00358 | Damodaran PP                | AC     | 27 Oct 2014       |
| SC-00360 | Girdhari Lal                | Arty   | 27 Oct 2014       |
| SC-00364 | Rajinder Kumar Saini        | Arty   | 27 Oct 2014       |
| SC-00374 | Ramphal Singh Nehra         | AOC    | 27 Oct 2014       |
| SC-00375 | Sudhir Thapa                | Inf    | 27 Oct 2014       |
| SC-00378 | Kishor Kumar More           | Inf    | 27 Oct 2014       |
| SC-00386 | Ram Krishna Yadav           | Inf    | 27 Oct 2014       |
| SC-00390 | Prahlad Singh Bandhral      | Arty   | 27 Oct 2014       |
| SC-00392 | Harish Chander Sharma       | Arty   | 27 Oct 2014       |
| SC-00393 | Ramineni A Nalini Mohan Rao | Inf    | 27 Oct 2014       |
| SC-00408 | Satyanarayana               | Inf    | 08 Dec 2014       |
| SC-00422 | V Venkatesh                 | Inf    | 08 Dec 2014       |
| SL-04615 | Dinesh Kumar                | SL AO  | 27 Oct 2014       |
| SL-04688 | Jaivir Singh                | AEEE/M | 27 Oct 2014       |
| SL-05262 | Manoj Kumar                 | Inf    | 08 Dec 2014       |
| WS-00194 | Malika Sheikh               | AOC    | 27 Oct 2014       |
| WS-00252 | Amandeep Aulakh             | Engrs  | 27 Oct 2014       |
| WS-00412 | Sonali Singh                | ASC    | 27 Oct 2014       |
| WS-00423 | Poonam Devgan               | EME    | 27 Oct 2014       |

| Pers No  | Name                      | Arms  | Date of Promotion |
|----------|---------------------------|-------|-------------------|
| WS-00494 | Anu Singh Randhawa        | AOC   | 27 Oct 2014       |
| WS-00523 | Rita Deb                  | Engrs | 27 Oct 2014       |
| WS-00531 | Dolly Tewari              | ASC   | 27 Oct 2014       |
| WS-00571 | Meenakshi Kadian          | Engrs | 27 Oct 2014       |
| WS-00782 | Anju Tiwari               | Sigs  | 27 Oct 2014       |
| IC-61422 | SATYA KIRTI MISHRA        | INF   | 08 DEC 2014       |
| IC-61493 | SACHIN BHATIA             | ENGRS | 08 DEC 2014       |
| IC-61678 | AMIT                      | INF   | 08 DEC 2014       |
| IC-61830 | NISHIT MURAT SINGH THAKUR | INF   | 08 DEC 2014       |
| IC-63754 | CHINTALURI HANUMANTHA RAO | ENGRS | 13 DEC 2014       |
| IC-63337 | VIKRAM NEHRA              | ENGRS | 14 Jun 2014       |

## PERMANENT COMMISSION(SL)

Maj to be Lt Col

|          |                     |       |
|----------|---------------------|-------|
| IC-66035 | VISHAL ARORA        | EME   |
| IC-66036 | RAVI PRAKASH        | EME   |
| IC-66037 | KARTIK              | ENGRS |
| IC-66038 | PRAVEEN KUMAR       | SIGS  |
| IC-66040 | RAHUL RAGHUVANSHI   | SIGS  |
| IC-66041 | ANUJ BINDRA         | EME   |
| IC-66042 | JIJU VARGHESE       | EME   |
| IC-66043 | ANUJA KUMAR ACHARYA | ENGRS |
| SS-40516 | RS SHYAM            | SIGS  |

—20 Apr 2015

## PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col

| SL NO.   | NAME      | ARM/SERVICE | DATE OF PROMOTION |
|----------|-----------|-------------|-------------------|
| SL-04709 | M RAJAIAH | SL B/R      | 02 APR 2015       |

| WS NO. | NAME       | ARMS  |
|--------|------------|-------|
| 00810  | SUMAN DEVI | ENGRS |

—06 Mar 2015

| PERS NO  | NAME             | ARMS |
|----------|------------------|------|
| IC-60448 | NIRMALENDU PANDE | INT  |

—09 DEC 2013

| IC No    | Name                   | Arm   | Date of Promotion |
|----------|------------------------|-------|-------------------|
| IC-65112 | VN SUNDAR RAM          | ARTY  | 02 May 2015       |
| IC-65113 | AVINASH KUMAR          | ASC   | 02 May 2015       |
| IC-65114 | GAURAV SINGH MANKOTIA  | INF   | 02 May 2015       |
| IC-65115 | ASHISH SAXENA          | ARTY  | 02 May 2015       |
| IC-65116 | GAURAV BHAKHRI         | AC    | 02 May 2015       |
| IC-65117 | RAVINDER SINGH CHAUHAN | INF   | 02 May 2015       |
| IC-65118 | SANJAY KUMAR           | M/INF | 02 May 2015       |
| IC-65119 | GRIJESH DUBEY          | AAD   | 02 May 2015       |
| IC-65120 | ANAND JOHN SAMPATH     | INF   | 02 May 2015       |
| IC-65121 | KANWARJIT SINGH        | ENGRS | 02 May 2015       |
| IC-65122 | PRAVEEN JAGOTA         | AC    | 02 May 2015       |
| IC-65124 | MOHNISH TEWARI         | ARTY  | 02 May 2015       |
| IC-65126 | MUKESH KUMAR SINGH     | ENGRS | 02 May 2015       |
| IC-65130 | RAJ KUMAR PUNNI        | EME   | 02 May 2015       |
| IC-65330 | SURESH KUMAR ABROL     | AC    | 01 May 2015       |
| IC-65331 | VINAY KUMAR SINGH      | M/INF | 01 May 2015       |
| IC-65332 | RAKESH KUMAR LAMBA     | INF   | 01 May 2015       |
| IC-65333 | AJAT SHATROO JAMWAL    | ENGRS | 01 May 2015       |
| IC-65334 | ANUP KUMAR SINGH       | ASC   | 01 May 2015       |
| IC-65336 | RANJIT R PAWAR         | ARTY  | 01 May 2015       |
| IC-65337 | VISHAL S JOSHI         | ARTY  | 01 May 2015       |
| IC-65338 | UMESHWAR SINGH         | INF   | 01 May 2015       |
| IC-65339 | PRADEEP DUGGAL         | INF   | 01 May 2015       |
| IC-65340 | ASHWINI KHULLAR        | AC    | 01 May 2015       |
| IC-65341 | AJAY SAMBYAL           | INF   | 01 May 2015       |
| IC-65342 | ALOK KOTHIYAL          | EME   | 01 May 2015       |
| IC-65343 | JAIDEEP SINGH          | INF   | 01 May 2015       |
| IC-65344 | VINOD KADYAN           | ARTY  | 01 May 2015       |
| IC-65345 | MUNEET BANGA           | INT   | 01 May 2015       |
| IC-65346 | PRAVEEN YADAV          | INF   | 01 May 2015       |
| IC-65347 | KRAMIL KEWALIA         | AOC   | 01 May 2015       |
| IC-65348 | RUPUSH KUMAR SHARMA    | AAD   | 01 May 2015       |
| IC-65349 | PRADEEP KUMAR          | INF   | 01 May 2015       |

| IC No    | Name                          | Arm  | Date of Promotion |
|----------|-------------------------------|------|-------------------|
| IC-65350 | S MUTHUKRISHNAN               | INF  | 01 May 2015       |
| IC-65351 | ASHWANI KUMAR RAINA           | AC   | 01 May 2015       |
| IC-65352 | MANOHAR SINGH BHATI           | INF  | 01 May 2015       |
| IC-65353 | PRAAGE ABHAY KUMAR PAULAS     | ARTY | 01 May 2015       |
| IC-65354 | L LUNKHOTIN THANG HAOKIP      | ARTY | 01 May 2015       |
| IC-65355 | MANRAJ SINGH SOHI             | AC   | 01 May 2015       |
| IC-65356 | PARAB AMIT ANAND              | INF  | 01 May 2015       |
| IC-65357 | VIJAYANT CHAUHAN              | ASC  | 01 May 2015       |
| IC-65359 | HARJINDER SINGH               | INF  | 01 May 2015       |
| IC-65360 | B SUDHEER YADAV               | AAD  | 01 May 2015       |
| IC-65362 | PRADEEP KUMAR BEHERA          | INF  | 01 May 2015       |
| IC-65363 | ABHISHEK KUMAR MISHRA         | ARTY | 01 May 2015       |
| IC-65364 | VISHAL KHAJURIA               | INF  | 01 May 2015       |
| IC-65365 | VIJAY BAHU S                  | ARTY | 01 May 2015       |
| IC-65366 | SHAMSHER CHAUHAN              | INF  | 01 May 2015       |
| IC-65367 | DEEPAK SHARMA                 | ASC  | 01 May 2015       |
| IC-65368 | YADUKUL BHUSHAN               | INF  | 01 May 2015       |
| IC-65369 | SIDDHARTHA REDHU              | INF  | 01 May 2015       |
| IC-65370 | BRIJESH MT                    | AOC  | 01 May 2015       |
| IC-65371 | RANJEET CHANDEL               | INF  | 01 May 2015       |
| IC-65373 | VIVEK TALWAR                  | AC   | 01 May 2015       |
| IC-65375 | VINAY MEHTA                   | ARTY | 01 May 2015       |
| IC-65376 | MANDKE GAUTAM SHARAD CHANDRA  | INF  | 01 May 2015       |
| IC-65377 | RATNESH KUMAR SHARMA          | INF  | 01 May 2015       |
| IC-65378 | KUMAR DEVESH                  | AC   | 01 May 2015       |
| IC-65379 | DEVINDER RAJPUT               | INF  | 01 May 2015       |
| IC-65380 | SANDEEP PAL                   | ASC  | 01 May 2015       |
| IC-65382 | MANJIT SINGH                  | AVN  | 01 May 2015       |
| IC-65384 | SAHU SATISH GAUTAM            | AVN  | 01 May 2015       |
| IC-65385 | VINOD KANWASI                 | INF  | 01 May 2015       |
| IC-65386 | YOGINDER SINGH CHAUHAN        | AOC  | 01 May 2015       |
| IC-65388 | NITTALA CHARLES PRANUTH SAGAR | ARTY | 01 May 2015       |

| IC No    | Name                    | Arm   | Date of Promotion |
|----------|-------------------------|-------|-------------------|
| IC-65389 | SATVIR SINGH KALKAL     | ARTY  | 01 May 2015       |
| IC-65390 | PARVEEN SINGH           | AAD   | 01 May 2015       |
| IC-65391 | RANGANATHAN S           | INF   | 01 May 2015       |
| IC-65392 | DEVENDER KUMAR          | INF   | 01 May 2015       |
| IC-65393 | VIPUL DESWAL            | AC    | 01 May 2015       |
| IC-65394 | SHASHI KANT             | ARTY  | 01 May 2015       |
| IC-65395 | AMIT SHRIVASTAVA        | ASC   | 01 May 2015       |
| IC-65396 | DERIC EDLINE            | AAD   | 01 May 2015       |
| IC-65397 | ARINDAM DHAR            | INF   | 01 May 2015       |
| IC-65398 | BS SRIRAMAMURTHY        | ARTY  | 01 May 2015       |
| IC-65399 | ASHWINI CHOUDHARY       | SIGS  | 01 May 2015       |
| IC-65400 | ANKUR PASSI             | ASC   | 01 May 2015       |
| IC-65401 | NEERAJ KADIAN           | INF   | 01 May 2015       |
| IC-65402 | ASHUTOSH SHARMA         | M/INF | 01 May 2015       |
| IC-65403 | FARID UR REHMAN         | M/INF | 01 May 2015       |
| IC-65404 | VARUN KUMAR             | ARTY  | 01 May 2015       |
| IC-65405 | SANDHIR KOTWAL          | INF   | 01 May 2015       |
| IC-65407 | NARENDER PAL OLA        | INF   | 01 May 2015       |
| IC-65409 | ANIL PANDIT             | AC    | 01 May 2015       |
| IC-65410 | VINAY KUMAR SINGH       | ARTY  | 01 May 2015       |
| IC-65411 | VIVEK JAGGI             | AAD   | 01 May 2015       |
| IC-65412 | PANKAJ TEWARI           | ARTY  | 01 May 2015       |
| IC-65413 | GOVIND KRISHNA MENON N  | ARTY  | 01 May 2015       |
| IC-65414 | PILLAI RAKESH VYSANATH  | INF   | 01 May 2015       |
| IC-65415 | KER BAHADUR PUN         | INF   | 01 May 2015       |
| IC-65416 | DEVENDER SINGH NARUKA   | ASC   | 01 May 2015       |
| IC-65417 | ASHISH TIWARI           | AAD   | 01 May 2015       |
| IC-65418 | NITTIN DUTTA            | INF   | 01 May 2015       |
| IC-65419 | DEVENDER CHAHAL         | INT   | 01 May 2015       |
| IC-65420 | PRADEEP SINGH POKHARIYA | INF   | 01 May 2015       |
| IC-65421 | L GANESH                | INF   | 01 May 2015       |
| IC-65422 | SANJAY KUMAR DUBEY      | AAD   | 01 May 2015       |
| IC-65423 | SANJAY DAS GUPTA        | INF   | 01 May 2015       |

| IC No    | Name                   | Arm  | Date of Promotion |
|----------|------------------------|------|-------------------|
| IC-65424 | SEBASTIAN ZACHARIAH    | INF  | 01 May 2015       |
| IC-65425 | SARVJEET SINGH         | INF  | 01 May 2015       |
| IC-65426 | PANDYA HRISHIK JATIN   | INF  | 01 May 2015       |
| IC-65428 | ANUPAM SHARMA          | INF  | 01 May 2015       |
| IC-65429 | SANDEEP SINGH          | AC   | 01 May 2015       |
| IC-65430 | MANABENDRA BUJARBARUA  | ARTY | 01 May 2015       |
| IC-65431 | GC CHAKRADHAR          | ARTY | 01 May 2015       |
| IC-65432 | VINOD R NIKAM          | AOC  | 01 May 2015       |
| IC-65433 | BALDEV SINGH THAKUR    | ARTY | 01 May 2015       |
| IC-65434 | KUMAR ABHIJIT BANERJEE | AC   | 01 May 2015       |
| IC-65435 | CHARANJIT YADAV        | ASC  | 01 May 2015       |
| IC-65436 | SUMESH J ANTONY        | INF  | 01 May 2015       |
| IC-65437 | ADITYA PRAKASH SHARMA  | ARTY | 01 May 2015       |
| IC-65439 | PUNEET SHARMA          | ASC  | 01 May 2015       |
| IC-65440 | NAVDIP SIDHU           | INF  | 01 May 2015       |
| IC-65441 | MANISH DATTA           | INF  | 01 May 2015       |
| IC-65442 | MANU                   | ARTY | 01 May 2015       |
| IC-65443 | JYOTI PRAKASH GOUD     | ARTY | 01 May 2015       |
| IC-65444 | HIREN BORAH            | INF  | 01 May 2015       |
| IC-65445 | VIKRANT SHARMA         | INF  | 01 May 2015       |
| IC-65446 | RAHUL VYAS             | INF  | 01 May 2015       |
| IC-65448 | DEEPESH PRATAP SINGH   | AC   | 01 May 2015       |
| IC-65449 | DURGA PRASAD NANDA     | ASC  | 01 May 2015       |
| IC-65450 | NITESH KUMAR           | ARTY | 01 May 2015       |
| IC-65451 | VIKAS SINGH BISHT      | AAD  | 01 May 2015       |
| IC-65453 | VIBHOR KUMAR ASTAVERKA | ARTY | 01 May 2015       |
| IC-65454 | MAHESH KUMAR           | INF  | 01 May 2015       |
| IC-65455 | JAYANTA SARKAR         | INF  | 01 May 2015       |
| IC-65456 | RAJESH KUMAR           | INF  | 01 May 2015       |
| IC-65457 | PRANAV VAISH           | INT  | 01 May 2015       |
| IC-65458 | ANKUR PRATIM BARUAH    | ARTY | 01 May 2015       |
| IC-65459 | VIKRAMJIT SINGH VIRK   | INF  | 01 May 2015       |
| IC-65460 | PEEYUSH KUMAR SINGH    | ASC  | 01 May 2015       |
| IC-65463 | HARPREET SINGH         | ASC  | 01 May 2015       |

| IC No    | Name                | Arm   | Date of Promotion |
|----------|---------------------|-------|-------------------|
| IC-65464 | NISHANT KUMAR       | INF   | 01 May 2015       |
| IC-65465 | PANKAJ KUMAR        | INF   | 01 May 2015       |
| IC-65466 | MANISH KAPIL        | ENGRS | 01 May 2015       |
| IC-65467 | ARUN KUMAR          | INF   | 01 May 2015       |
| IC-65468 | ABHISEIK SINGH NEGI | ARTY  | 01 May 2015       |
| IC-65470 | PUSHPINDER SINGH    | INF   | 01 May 2015       |
| IC-65801 | RACHIT AHLUWALIA    | SIGS  | 08 May 2015       |
| IC-65802 | SABARISH MENON      | EME   | 08 May 2015       |

## PERMANENT COMMISSION(SL)

Maj to be Lt Col

| SL No | Name                  | Arm             |
|-------|-----------------------|-----------------|
| 04691 | SURESH KUMAR          | ASW (ENGRS)     |
| 04692 | SENTHIL KUMAR D       | AEE/B/R (ENGRS) |
| 04693 | RAMESHWAR             | AEE' BR (ENGRS) |
| 04696 | B BASAVA LINGA PRASAD | AEE/B/R (ENGRS) |
| 04697 | BALBIR SINGH          | AEE E/M (ENGRS) |
| 04698 | SHAM SINGH YADAV      | AEE B/R (ENGRS) |
| 04699 | INDER SINGH           | ASW (ENGRS)     |
| 04700 | SANJAY BALODHI        | ASW (ENGRS)     |
| 04701 | JAYAPRAKASH UB        | ASW (ENGRS)     |
| 04703 | UNNI KRISHNAN NAIR R  | RO (ASC)        |
| 04704 | RS BANKOTI            | AEE B/R (ENGRS) |
| 04705 | ANIL KUMAR            | AEE B/R (ENGRS) |
| 04707 | AJIT KUMAR            | ASW (ENGRS)     |
| 04708 | RAJESH VASUDEVA       | AEE E/M (ENGRS) |
| 04711 | SANJEEV KUMAR SHARMA  | AEE B/R (ENGRS) |
| 04712 | KN SUNIL KUMAR        | AEE B/R (ENGRS) |
| 04713 | AK SINGH              | RO (EME)        |
| 04714 | VINOD KUMAR           | AEE B/R (ENGRS) |
| 04715 | HARIHARA KUMAR N      | RO (EME)        |
| 04716 | S THOMAS EDWARD       | EMAE (EME)      |
| 04718 | T SAMPATH             | RO (ASC)        |

| SL No | Name                 | Arm             |
|-------|----------------------|-----------------|
| 04719 | JAIBIR SINGH         | CIPHER (SIGS)   |
| 04720 | BALJIT SINGH         | CIPHER (SIGS)   |
| 04721 | SREE KUMAR S         | RO (ASC)        |
| 04722 | RANBIR SINGH         | RO (AOC)        |
| 04723 | PK PATRO             | RO (AOC)        |
| 04724 | RAMESHWAR            | RO (INF)        |
| 04725 | SUNIL KUMAR BHALLA   | RO (ASC)        |
| 04727 | NARENDRA KUMAR DUBEY | RO (ARTY)       |
| 04728 | RAJEEV D             | RO (ENGRS)      |
| 04730 | M ALAGU              | RO (EME)        |
| 04731 | VIJAY PAL            | TEO (AD ARTY)   |
| 04732 | MD KRISHNA KUMAR     | AEE E/M (ENGRS) |
| 04734 | G UTHIRIYA RAJ       | RO (ENGRS)      |
| 04735 | SHARWAN RAM          | RO (INF)        |

—02 Apr 2015

The President is pleased to make the following promotions. These promotions will be subject to final outcome of SLP (Civ) No. 9367-9369/2011 titled Secretary, Ministry of Defence Vs Babita Punia & Others :-

## REGULAR ARMY

## SHORT SERVICE COMMISSION (WS)

Maj to be Lt Col

| PERS NO. | NAME           | ARMS  |
|----------|----------------|-------|
| WS-00545 | SAMIKA SHIVRAN | ASC   |
| WS-00564 | SUNITA RAY     | SIGS  |
| WS-00565 | SWETHA SINGH   | ENGRS |
| WS-00574 | SONALI RATH    | SIGS  |

—03 Mar 2015

## PERMANENT COMMISSION

Lt to be Capt

| IC No. | Name                   | Arm  | Date of Subs Capt |
|--------|------------------------|------|-------------------|
| 73302  | VIJAY GAUTAM           | ARTY | 17 Oct 2010       |
| 73590  | SIDDHARTH SINGH        | AAD  | 22 Oct 2010       |
| 73644  | CHOUGALE YUVRAJ MARUTI | INF  | 20 Apr 2011       |
| 73750  | AKSHAY CHADHA          | AC   | 20 Apr 2011       |
| 73771  | MITESH RATHORE         | SIGS | 21 Oct 2011       |

| IC No. | Name               | Arm  | Date of Subs Capt |
|--------|--------------------|------|-------------------|
| 73797  | RAHUL BEOTRA       | SIGS | 21 Oct 2011       |
| 73827  | KUMAR SAKET RANJAN | ARTY | 21 Oct 2011       |

## PERMANENT COMMISSION (SC)

Lt to be Capt

| SC No | Name                      | Arm/Service |
|-------|---------------------------|-------------|
| 00747 | RAJESH SHARMA             | MECH INF    |
| 00748 | BHUWAN CHANDRA SHARMA     | AAD         |
| 00749 | SENTHILKUMAR P            | EME         |
| 00750 | RAHUL DEV SHARMA          | ASC         |
| 00751 | RAMESH CHANDRA JHA        | EME         |
| 00752 | ANCHRA PANKAJ JETHARAMJI  | ARTY        |
| 00753 | UTTAM PATIL               | ENGRS       |
| 00754 | GITA NAND                 | INF         |
| 00755 | SIVANATH KUMAR P          | ENGRS       |
| 00756 | DILIP CHAUHAN             | AOC         |
| 00757 | GAJENDER SINGH SOROUT     | ASC         |
| 00758 | KAMAL KUMAR SHARMA        | INF         |
| 00759 | PARVEEN SINGH             | AC          |
| 00760 | MORE RAJU HARIBHAU        | ARTY        |
| 00761 | MUKESH YADAV              | INF         |
| 00762 | RINOOP NARANGALI          | INF         |
| 00763 | ROHIT KUMAR SINGH         | SIGS        |
| 00764 | AMIT KHATRI               | INF         |
| 00765 | VEERENDRA SINGH           | ARTY        |
| 00766 | MANI CHANDRA SINGHA       | SIGS        |
| 00767 | DHARMENDRA SINGH          | SIGS        |
| 00768 | VINOD PRASAD              | INF         |
| 00769 | PRASHANT SINGH BHADAURIYA | EME         |
| 00770 | SANGRAM SINGH             | ARTY        |
| 00771 | SACHIN PREM SINGH         | AOC         |
| 00772 | DEVENDRA KUMAR CHATURVEDI | INF         |
| 00773 | AROKIA RAJ V              | INF         |
| 00774 | SUMANTA BHATTACHARYYA     | ASC         |
| 00775 | RAJESH K P                | ARTY        |

| SC No | Name                 | Arm/Service |
|-------|----------------------|-------------|
| 00776 | A MARIAPPAN          | AC          |
| 00777 | KRUSHNA PANIGRAHI    | EME         |
| 00778 | VIKAS KUMAR SINGH    | INF         |
| 00779 | RAVINDER SINGH       | ARTY        |
| 00780 | VINOD CHATURVEDI     | AAD         |
| 00781 | GOVIND SINGH GOUR    | ENGRS       |
| 00782 | P SUNEEL KUMAR REDDY | ARTY        |
| 00783 | C VENKETESH KUMAR    | ENGRS       |

—08 JUN 2015

## SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)

Lt to be Capt

| SS No. | Name                              | Arm   | Initial Date of Seniority | Course      | Adjusted Date of Seniority for Promotion | Date of grant of Subs rank of Capt |
|--------|-----------------------------------|-------|---------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 45694  | HARVINDER SINGH                   | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45695  | ISHAN RANA                        | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45696  | PRAVEEN KUMAR RAJPUROHIT          | ENGRS | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45698  | JAVALKAR VAIBHAV PRAMOD           | AC    | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45699  | UDAI PRATAP SINGH                 | MECH  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45700  | RAHUL                             | ARTY  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45702  | MUKESH KUMAR JOSHI                | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45703  | SANDEEP PATHANIA                  | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45704  | PANKAJ KUMAR                      | AOC   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45705  | NITESH KUMAR SINGH                | EME   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45707  | LOKANDER KUMAR                    | ARTY  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45708  | ROHAN SINGH                       | AAD   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45709  | ROSHAN POKHREL                    | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45711  | TABISH RAZA                       | SIGS  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45712  | KSHETRIMAYUM ANAND KRISHNAN SINGH | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |

| SS No. | Name                            | Arm  | Initial Date of Seniority | Course      | Adjusted Date of Seniority for Promotion | Date of grant of Subs rank of Capt |
|--------|---------------------------------|------|---------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 45714  | AMARENDRA PRATAP SINGH          | INF  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45715  | VEER AKSHAY DILIP               | ARTY | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45716  | UMESH RAGHAV                    | EME  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45717  | NAVEEN KUMAR                    | ASC  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45719  | ETIN YADAV                      | SIGS | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45720  | GYANESH PRATAP                  | AAD  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45721  | ANUJ BHUSHAN                    | INF  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45722  | RANJEET SINGH SINSINWAR         | INF  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45723  | SEBASTINE NAIDU                 | INF  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45727  | ASHISH KUMAR                    | INF  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45728  | HARSIMRANJIT SINGH              | ARTY | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45729  | SHEELES KUMAR PANDEY            | AC   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45730  | PINGAKSHA MISRA                 | INT  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45732  | SYED IRFAN HUDA                 | INF  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45733  | AKHIL K UMESH                   | ARTY | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45734  | KAPIL KUMAR                     | ARTY | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45735  | PANKAJ KUMAR                    | INF  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45736  | TATA RAMDAS ARUN BABU           | AAD  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45737  | YOGENDRA SINGH                  | ARTY | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45738  | KAMLESH VARMA                   | INF  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45739  | RANJEN BHATIA                   | INF  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45740  | BHOSALE PRUTHVIRAJ<br>BALASAHEB | INF  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45741  | JASKIRAT SINGH HANSPAL          | ASC  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45742  | TARUN MIYAN                     | ARTY | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |

| SS No. | Name                          | Arm   | Initial Date of Seniority | Course      | Adjusted Date of Seniority for Promotion | Date of grant of Subs rank of Capt |
|--------|-------------------------------|-------|---------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 45746  | ANKIT DHOUDIYAL               | AOC   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45747  | ABHISHEK PANDEY               | ARTY  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45748  | SUSHIL KUMAR                  | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45750  | YUVRAJ NOEL PATHAK            | AC    | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45751  | AMITABH VISHNU SHARMA         | ARTY  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45752  | TARUN KALRA                   | JAG   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45753  | SEIMINTHANG HAOKIP            | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45754  | VIGNESH KUMAR V               | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45755  | KORATIKERE RAVICHANDRA LOKESH | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45756  | VARUN YADAV                   | ENGRS | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45758  | PF KAISII PHIMU               | MECH  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45759  | GURUARIBAM VEDAKANTA SHARMA   | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45760  | YUMNAM GINESH SINGH           | ENGRS | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45761  | VINAY THAKUR                  | ASC   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45763  | PRANAV SHARMA                 | ENGRS | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45764  | ANIL KUMAR                    | SIGS  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45766  | K SHASHI KANTH                | EME   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45767  | ANIL MALIK                    | ARTY  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45768  | VISHAL KATOCH                 | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45769  | PATEL MAHEK BIPINCHANDRA      | AOC   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45770  | SURYAVANSHI BALAJI GANGADHAR  | AOC   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45772  | GREGORY SHASHANK MARTIN       | ARTY  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45773  | ANAND JP                      | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45774  | PRATYUSH PUSHPAM              | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |

| SS No. | Name                     | Arm   | Initial Date of Seniority | Course      | Adjusted Date of Seniority for Promotion | Date of grant of Subs rank of Capt |
|--------|--------------------------|-------|---------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 45775  | HANSRAJ SINGH SHEKHAWAT  | ARTY  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45776  | IRENGBAM MONA MEETEI     | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45777  | DEEPAK RAWAT             | EME   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45778  | RAJ KAMAL                | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45780  | PANKAJ SETHI             | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45782  | SUMIT KUMAR VIJ          | EME   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45783  | ABHISHEK                 | ASC   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45784  | RAJKUMAR DEVENDRA SINGH  | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45785  | SHAKTI SINGH RATHORE     | AOC   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45786  | LK SUBASH ANAL           | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45788  | VISHNU H                 | ARTY  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45789  | RIKASH VERMA             | AAD   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45790  | MANSOOR AHAMMAD          | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45791  | B R KANISHKA KESHAV      | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45792  | C MAHENDRA KUMAR         | EME   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45794  | PUNSHIBA PEBAM           | ARTY  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45795  | AMAN PRATAP SINGH JAMWAL | ASC   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45796  | YOGESH BISHNOI           | AOC   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45797  | ACHAL SIROHI             | JAG   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45798  | SUMIT KUMAR              | AC    | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45799  | VIVEK THAPLIYAL          | SIGS  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45800  | RISHAV SHRIVASTAVA       | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45801  | DEVENDER SINGH           | SIGS  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45802  | KEKANE CHINMAY SADASHIV  | ENGRS | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |

| SS No. | Name                       | Arm   | Initial Date of Seniority | Course      | Adjusted Date of Seniority for Promotion | Date of grant of Subs rank of Capt |
|--------|----------------------------|-------|---------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 45804  | GOURAV GOEL                | ENGRS | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45805  | AKSHAY KUMAR SINGH         | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45806  | ANISOOR RAHMAN SHAH        | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45807  | NISHANT KUMAR              | ARTY  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45808  | RUPAK RANJAN DUTTA         | ENGRS | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45810  | MOHAMMED SAHANAWAZ HUSSAIN | ARTY  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45811  | AKSHAY SANJAY THATTE       | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45813  | PREM DEEP ANAND            | SIGS  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45814  | VISHNU SHANKAR SHUKLA      | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45815  | BHAVYA SINGH               | ARTY  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45817  | NIKHIL KUMAR JHA           | EME   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45818  | CHANDRA PRAKASH            | ARTY  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45819  | KISHAN SINGH               | ASC   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45820  | SUKH ANGAD SINGH           | AC    | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45821  | TARUN V PILLAI             | JAG   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45824  | JAMES JOSEPH               | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45825  | RAJDEEP DINKAR PANDERE     | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45826  | SAMAR KUSHWAHA             | ASC   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45827  | MOIRANGTHEM DEVADUTTA      | ENGRS | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45828  | ANIRUDH PAPNAI             | AOC   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45829  | INDERJEET SINGH            | ARTY  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45832  | DEVENDRA SINGH TANWAR      | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45833  | RAMANDEEP SINGH MANHAS     | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45834  | AASHISH AANJANEYA          | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |

| SS No. | Name                             | Arm   | Initial Date of Seniority | Course      | Adjusted Date of Seniority for Promotion | Date of grant of Subs rank of Capt |
|--------|----------------------------------|-------|---------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 45835  | OINAM SURAJ SINGH                | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45836  | PRASHANT CHHETRI                 | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45837  | VIKAS LIKHITKAR                  | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45838  | MOHIT KATHURIA                   | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45839  | SAGGU RANBIRSINGH<br>MANJITSINGH | ENGRS | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45840  | RAJA MURAD                       | ARTY  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45841  | PUSHPENDRA YADAV                 | ARTY  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45844  | NAMIT PANDE                      | INF   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45845  | SUMIT KAPUR                      | ENGRS | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45849  | KETAN DEOGHARIA                  | AAD   | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45850  | GNANESH KUMAR                    | AC    | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45853  | JASKARAN SINGH                   | ARTY  | 15 Sep 12                 | SSC-94 (NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |

## SHORT SERVICE COMMISSION (SSCW)

Lt to be Capt

|       |                         |       |           |             |           |           |
|-------|-------------------------|-------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 45697 | POOJA CHAUHAN           | ENGRS | 15 Sep 12 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13 | 15 Apr 15 |
| 45701 | BHAVNA SYAL             | SIGS  | 15 Sep 12 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13 | 15 Apr 15 |
| 45706 | MEENU SHARMA            | ASC   | 15 Sep 12 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13 | 15 Apr 15 |
| 45710 | ANITA                   | AOC   | 15 Sep 12 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13 | 15 Apr 15 |
| 45713 | ANCHAL BHARDWAJ         | INT   | 15 Sep 12 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13 | 15 Apr 15 |
| 45718 | SHENDE RUJULA RAVINDRA  | SIGS  | 15 Sep 12 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13 | 15 Apr 15 |
| 45724 | KANIKA CB SINGH         | AOC   | 15 Sep 12 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13 | 15 Apr 15 |
| 45726 | BORSE PALLAVI BHAUSAHEB | AAD   | 15 Sep 12 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13 | 15 Apr 15 |
| 45731 | SONIA ARORA             | ASC   | 15 Sep 12 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13 | 15 Apr 15 |
| 45743 | PREETI CHAUHAN          | ASC   | 15 Sep 12 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13 | 15 Apr 15 |
| 45744 | JYOTSANA SINGH          | AAD   | 15 Sep 12 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13 | 15 Apr 15 |

| SS No | Name             | Arm   | Initial Date of Seniority | Course      | Adjusted Date of Seniority for Promotion | Date of grant of Subs rank of Capt |
|-------|------------------|-------|---------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 45745 | DIPEEKA SINGH    | AAD   | 15 Sep 12                 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45749 | NEHA BHARDWAJ    | AOC   | 15 Sep 12                 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45757 | APOORVA KAUSHIK  | EME   | 15 Sep 12                 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45762 | AAINA            | ENGRS | 15 Sep 12                 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45765 | ARCHANA CHAUHAN  | AAD   | 15 Sep 12                 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45779 | SHIKHA SHARMA    | AVN   | 15 Sep 12                 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45781 | SHILPI SINGH     | AOC   | 15 Sep 12                 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45787 | SADHANA BAWA     | ASC   | 15 Sep 12                 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45793 | JUHI SHARMA      | ASC   | 15 Sep 12                 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45803 | K PREETHI        | EME   | 15 Sep 12                 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45809 | SHAIFALI KAUSHIK | AAD   | 15 Sep 12                 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45812 | ANJALI TYAGI     | ENGRS | 15 Sep 12                 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45816 | NEHA SENGAR      | SIGS  | 15 Sep 12                 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45822 | MONIKA SALARIA   | AOC   | 15 Sep 12                 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45830 | AGNEYATA SAXENA  | AOC   | 15 Sep 12                 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45831 | MANDIRA SINGH    | ASC   | 15 Sep 12                 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45842 | HINA SETH        | INT   | 15 Sep 12                 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45843 | NGANTHOI OINAM   | AOC   | 15 Sep 12                 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45846 | SIMRAT DHILLON   | ASC   | 15 Sep 12                 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45847 | REETIKA MEHTA    | AAD   | 15 Sep 12                 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45848 | PRIYANKA SINGH   | ASC   | 15 Sep 12                 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45851 | ARUNIMA SEHGAL   | AOC   | 15 Sep 12                 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45852 | FARHAT HASSAN    | SIGS  | 15 Sep 12                 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |
| 45854 | SHIVANGI SHARMA  | ENGRS | 15 Sep 12                 | SSCW-08(NT) | 15 Apr 13                                | 15 Apr 15                          |

## SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)

## LT TO BE CAPT

| SS No | Name                | Arm   | Initial Date of Seniority | Course     | Adjusted Date of Seniority for Promotion | Date of grant of Subs rank of Capt |
|-------|---------------------|-------|---------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 46867 | ANKIT KUMAR NAIN    | AVN   | 16 Sep 12                 | SSC-39 (T) | 16 Oct 12                                | 16 Oct 14                          |
| 46896 | ABHISHEK YADAV      | ASC   | 16 Sep 12                 | SSC-39 (T) | 16 Oct 12                                | 16 Oct 14                          |
| 46952 | LIJU RAJAN          | EME   | 16 Sep 12                 | SSC-39 (T) | 16 Oct 12                                | 16 Oct 14                          |
| 47271 | ATUL PATHANIA       | INF   | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47275 | PRAKHAR SHARMA      | ENGRS | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47276 | RAHUL SHARMA        | SIGS  | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47278 | RAKESH KUMAR        | INF   | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47281 | RAJESH KUMAR R      | EME   | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47283 | CHIRAYU JOSHI       | AC    | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47284 | GIFFIN GEORGE       | AVN   | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47285 | MOHIT DHAWAN        | SIGS  | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47287 | DHAR ANURAG S       | SIGS  | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47288 | MUNJE SAGAR SUDHEER | ENGRS | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47289 | K NAGARJUN          | INF   | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47291 | ANOOP M             | ENGRS | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47293 | SHIVAKUMAR S N      | ENGRS | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47294 | RAVINDER SINGH      | ARTY  | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47298 | RATAN SINGH GURJAR  | INF   | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47299 | AMRIT PAL SINGH     | AC    | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47300 | MAZAHIR M KAPADIA   | AOC   | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47301 | VIVEK KANUNGO       | ENGRS | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47302 | CHITRANJAN PATHAK   | ENGRS | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47303 | VIPIN KUMAR RAWAT   | AVN   | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |

| SS No | Name                 | Arm      | Initial Date of Seniority | Course     | Adjusted Date of Seniority for Promotion | Date of grant of Subs rank of Capt |
|-------|----------------------|----------|---------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 47304 | ARUN KUMAR SHARMA    | EME      | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47305 | SHAILENDER           | SIGS     | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47307 | KIRAN A              | ENGRS    | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47309 | HARSHIT SHARMA       | AVN      | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47312 | AVINASH YADAV        | ARTY     | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47313 | RAHUL SINGH          | AAD      | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47314 | DEEP SINGH           | INF      | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47315 | VINNY K VARUGHESE    | SIGS     | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47316 | NITISH KUMAR         | AOC      | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47317 | ABHAY KUMAR          | ENGRS    | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47318 | VARUN GAUTAM         | EME      | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47320 | ASHISH RAWAT         | ENGRS    | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47321 | AVINASH KUMAR        | ARTY     | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47322 | GAURAV PHOGAT        | AAD      | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47323 | VISHAL KUMAR         | EME      | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47324 | ABHISHEK BANDHU      | INF      | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47326 | SHIVAM CHAKRAWARTI   | MECH INF | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47327 | SAMRAT ASHOK GHADI   | INF      | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47328 | SUNIL SINGH          | SIGS     | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47329 | SUJAN SINGH          | EME      | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47330 | LAXMIKANTHA S        | EME      | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47332 | ANOOP MOHAN          | EME      | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47333 | ANIRUDHA GHILDIYAL   | INF      | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47334 | NISHANT KUMAR SHARMA | ENGRS    | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |

| SS No | Name                               | Arm   | Initial Date of Seniority | Course     | Adjusted Date of Seniority for Promotion | Date of grant of Subs rank of Capt |
|-------|------------------------------------|-------|---------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 47335 | YUVRAJ SINGH                       | ARTY  | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47337 | APOORV CHITTORIA                   | EME   | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47338 | DINESH KUMAR                       | SIGS  | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47339 | ASHEESH RATHEE                     | SIGS  | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47340 | ANUP SINGH N R                     | SIGS  | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47341 | ABHISHEK SINGH                     | ARTY  | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47343 | SINAI TALWADKER<br>RAMKRISHNA UDAY | EME   | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47344 | MANPREET SINGH                     | ARTY  | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47345 | AVNESH RAJPUT                      | ENGRS | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47346 | ANUJ LAKHANI                       | SIGS  | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47347 | DINESH A                           | ENGRS | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47348 | SUJEET KUMAR SINGH                 | SIGS  | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47349 | ISHTPREET SINGH                    | SIGS  | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47351 | NAGENDER HOODA                     | ENGRS | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47354 | AKHIL DHAWAN                       | ASC   | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47355 | KISHORE K                          | ENGRS | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47357 | ARPIT AGGARWAL                     | ENGRS | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47358 | KAMLESH MAHTO                      | SIGS  | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47359 | GAURAV MISHRA                      | ENGRS | 17 Mar 13                 | SSC-40 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |

## SHORT SERVICE COMMISSION (SSCW)

LT to be Capt

|       |                 |      |           |             |           |           |
|-------|-----------------|------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 47272 | MEGHA THAKUR    | EME  | 17 Mar 13 | SSCW-11 (T) | 17 Apr 13 | 17 Apr 15 |
| 47274 | JASMINE KAUSHIK | SIGS | 17 Mar 13 | SSCW-11 (T) | 17 Apr 13 | 17 Apr 15 |
| 47277 | RITU MALIK      | SIGS | 17 Mar 13 | SSCW-11 (T) | 17 Apr 13 | 17 Apr 15 |
| 47279 | PREMLATA        | EME  | 17 Mar 13 | SSCW-11 (T) | 17 Apr 13 | 17 Apr 15 |

| SS No | Name                | Arm   | Initial Date of Seniority | Course      | Adjusted Date of Seniority for Promotion | Date of grant of Subs rank of Capt |
|-------|---------------------|-------|---------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 47280 | AMANDEEP KAUR       | ENGRS | 17 Mar 13                 | SSCW-11 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47282 | SHAKSHI TYAGI       | EME   | 17 Mar 13                 | SSCW-11 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47286 | SANJANA MITTAL      | EME   | 17 Mar 13                 | SSCW-11 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47290 | KAVITA BHATT        | ENGRS | 17 Mar 13                 | SSCW-11 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47292 | CHITRA PRATAP       | EME   | 17 Mar 13                 | SSCW-11 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47295 | ANANDITA VERMA      | SIGS  | 17 Mar 13                 | SSCW-11 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47296 | KHUSHBOO PATANI     | SIGS  | 17 Mar 13                 | SSCW-11 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47306 | NISHA               | ENGRS | 17 Mar 13                 | SSCW-11 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47308 | PILLAI GAURI SURESH | ENGRS | 17 Mar 13                 | SSCW-11 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47310 | VANGA BHARGAVI      | SIGS  | 17 Mar 13                 | SSCW-11 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47311 | IYER ANUPAMA GANESH | ENGRS | 17 Mar 13                 | SSCW-11 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47319 | SONAM DUBEY         | EME   | 17 Mar 13                 | SSCW-11 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47325 | SNEHA CHAUDHARY     | ENGRS | 17 Mar 13                 | SSCW-11 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47331 | MEGHA DIXIT         | EME   | 17 Mar 13                 | SSCW-11 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47342 | RASHMIL SANGWAN     | EME   | 17 Mar 13                 | SSCW-11 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47350 | NIDHI PAL           | ENGRS | 17 Mar 13                 | SSCW-11 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47352 | SNEHA RAWAT         | EME   | 17 Mar 13                 | SSCW-11 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |
| 47353 | KHUSHBU SHARMA      | EME   | 17 Mar 13                 | SSCW-11 (T) | 17 Apr 13                                | 17 Apr 15                          |

## SHORT SERVICE COMMISSION

Lt to be Quasi Substantive Capt

| SS No. | Name             | Arm  | Date of grant of quasi-Subs rank of Capt |
|--------|------------------|------|------------------------------------------|
| 42005  | ABHISHEK PARMAR  | INF  | 18 Mar 2015                              |
| 42863  | AMANDEEP PANJETE | MECH | 22 Mar 2015                              |
| 42864  | BALWINDER SINGH  | EME  | 22 Mar 2015                              |

SANKAR BOSE  
Dy Dir.  
MS-8C

## ARMY BRANCH

No. 216, dated 24<sup>th</sup> August 2015—The President is pleased to make the following promotions :-

## REGULAR ARMY

## The Mechanised Infantry Regiment

## To be Substantive Subedar Major (GD)

|                                                                                                                                |              |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| SUB CLK (SD) BHANWAR SINGH                                                                                                     | (JC-420879F) | 05 <sup>th</sup> May 2015* |
| *(Granted seniority in the rank of substantive Subedar Maj wef 01 <sup>st</sup> May 2015 without effect on pay and allowances) |              |                            |

|                     |              |                           |
|---------------------|--------------|---------------------------|
| SUB PARVINDER KUMAR | (JC-421157F) | 01 <sup>st</sup> May 2015 |
|---------------------|--------------|---------------------------|

|                     |              |                           |
|---------------------|--------------|---------------------------|
| SUB JAGDISH CHANDER | (JC-421042N) | 01 <sup>st</sup> May 2015 |
|---------------------|--------------|---------------------------|

## To be Substantive Subedar (GD)

|                 |              |                           |
|-----------------|--------------|---------------------------|
| NB SUB A THOPPU | (JC-421834N) | 01 <sup>st</sup> Apr 2015 |
|-----------------|--------------|---------------------------|

|                    |              |                           |
|--------------------|--------------|---------------------------|
| NB SUB T SATYA RAO | (JC-421835W) | 01 <sup>st</sup> Apr 2015 |
|--------------------|--------------|---------------------------|

|                       |              |                           |
|-----------------------|--------------|---------------------------|
| NB SUB JITENDRA KUMAR | (JC-422386Y) | 01 <sup>st</sup> Apr 2015 |
|-----------------------|--------------|---------------------------|

|                       |              |                           |
|-----------------------|--------------|---------------------------|
| NB SUB R MURUGANANDAM | (JC-422393P) | 01 <sup>st</sup> Apr 2015 |
|-----------------------|--------------|---------------------------|

|                  |              |                            |
|------------------|--------------|----------------------------|
| NB SUB MANGE RAM | (JC-422440F) | 17 <sup>th</sup> Apr 2015* |
|------------------|--------------|----------------------------|

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01<sup>st</sup> Apr 2015 without effect on pay and allowances)

|                   |              |                           |
|-------------------|--------------|---------------------------|
| NB SUB ABDUL ALIM | (JC-421725F) | 01 <sup>st</sup> May 2015 |
|-------------------|--------------|---------------------------|

## To be Naib Subedar

|                              |                            |                           |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| HAV KAKEKAR JAYARAM DASHRATH | (14920639H Now JC-422782P) | 01 <sup>st</sup> Feb 2015 |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

|                     |                            |                            |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| HAV DHIRENDRA SINGH | (14920017F Now JC-422783X) | 07 <sup>th</sup> May 2015* |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|

\*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 06 Mar 2015 without effect on pay and allowances)

|                  |                            |                            |
|------------------|----------------------------|----------------------------|
| HAV SUSHIL KUMAR | (14918054W Now JC-422784A) | 17 <sup>th</sup> Apr 2015* |
|------------------|----------------------------|----------------------------|

\*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allowances)

|                         |                            |                            |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| HAV KAUSHAL KUMAR SINGH | (14918919X Now JC-422785H) | 17 <sup>th</sup> Apr 2015* |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|

\*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allowances)

|              |                            |                            |
|--------------|----------------------------|----------------------------|
| HAV ANTONY J | (14919692F Now JC-422786L) | 04 <sup>th</sup> Apr 2015* |
|--------------|----------------------------|----------------------------|

\*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allowances)

|             |                            |                           |
|-------------|----------------------------|---------------------------|
| HAV RAJ PAL | (14921410W Now JC-422787N) | 01 <sup>st</sup> May 2015 |
|-------------|----------------------------|---------------------------|

|                 |                            |                            |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| HAV VIJAY KUMAR | (14921446P Now JC-422788W) | 30 <sup>th</sup> May 2015* |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|

\*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 20 May 2015 without effect on pay and allowances)

|                       |                            |                           |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| HAV VIVEK CHAND SAWAN | (14922864W Now JC-422789Y) | 01 <sup>st</sup> Jun 2015 |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------|

|                  |                            |                           |
|------------------|----------------------------|---------------------------|
| HAV BHAGAT SINGH | (14922907A Now JC-422790N) | 01 <sup>st</sup> Jun 2015 |
|------------------|----------------------------|---------------------------|

|              |                            |                            |
|--------------|----------------------------|----------------------------|
| HAV SATYAWAN | (14921425Y Now JC-422791W) | 04 <sup>th</sup> Jun 2015* |
|--------------|----------------------------|----------------------------|

\*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jun 2015 without effect on pay and allowances)

|                      |                            |                           |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| HAV RAMA SHANKAR ROY | (14921145L Now JC-422792Y) | 01 <sup>st</sup> Jun 2015 |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|

## INFANTRY

## BRIGADE OF THE GUARDS

## To be Naib Subedar

|     |              |           |     |            |             |
|-----|--------------|-----------|-----|------------|-------------|
| Hav | Mukesh Kumar | 13693487A | now | JC-405331Y | 01 Mar 2015 |
|-----|--------------|-----------|-----|------------|-------------|

|     |                |           |     |            |             |
|-----|----------------|-----------|-----|------------|-------------|
| Hav | Kishore Singha | 13693582M | now | JC-405343N | 01 Apr 2015 |
|-----|----------------|-----------|-----|------------|-------------|

|     |               |           |     |            |              |
|-----|---------------|-----------|-----|------------|--------------|
| Hav | Satya Narayan | 13694575H | now | JC-405333K | 04 Mar 2015* |
|-----|---------------|-----------|-----|------------|--------------|

\*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Mar 2015.

|                                                                                              |                                     |           |     |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----|------------|--------------|
| Hav                                                                                          | Krishna Kanta Sutradhar             | 13692510W | now | JC-405330W | 03 Mar 2015* |
| *Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Mar 2015. |                                     |           |     |            |              |
| Hav                                                                                          | Dharam Bir Singh                    | 13693560N | now | JC-405350K | 01 Apr 2015  |
| Hav                                                                                          | Pradeep Kumar                       | 13693606L | now | JC-405351M | 01 Apr 2015  |
| Hav                                                                                          | Jay Prakash Singh                   | 13695073M | now | JC-405334M | 02 Mar 2015* |
| *Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Mar 2015. |                                     |           |     |            |              |
| Hav                                                                                          | Chhote Bhaiya Mishra                | 13695117Y | now | JC-405335P | 02 Mar 2015* |
| *Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Mar 2015. |                                     |           |     |            |              |
| Hav                                                                                          | Gavhane Gajanan Narayan             | 13695715W | now | JC-405345Y | 01 Mar 2015  |
| Hav                                                                                          | Premvir Singh                       | 13693707Y | now | JC-405341H | 01 Apr 2015* |
| *Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jan 2015. |                                     |           |     |            |              |
| Hav                                                                                          | Desh Raj Singh                      | 13694584K | now | JC-405349P | 01 Apr 2015  |
| Hav                                                                                          | Papu Ram                            | 13694843F | now | JC-405360N | 01 May 2015  |
| Hav                                                                                          | Naresh Kumar                        | 13694036M | now | JC-405359Y | 01 May 2015  |
| Hav                                                                                          | Vinay Kumar Rai                     | 13693427L | now | JC-405347K | 01 Apr 2015  |
| Hav                                                                                          | Badiruzza Man Mandal                | 13694573X | now | JC-405344W | 01 Apr 2015  |
| Hav                                                                                          | Pramod Kumar                        | 13695881K | now | JC-405337A | 17 Mar 2015* |
| *Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 05 Mar 2015. |                                     |           |     |            |              |
| Hav                                                                                          | Rajiv Kumar Singh                   | 13695370A | now | JC-405358W | 01 May 2015  |
| Hav                                                                                          | Kumbhar Ravindra Narsinh            | 13696126M | now | JC-405336X | 01 Mar 2015  |
| Hav                                                                                          | Rajendra Prasad                     | 13693776P | now | JC-405332F | 23 Mar 2015* |
| *Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Mar 2015. |                                     |           |     |            |              |
| Hav                                                                                          | Surender Singh                      | 13694083K | now | JC-405348M | 01 Apr 2015  |
| Hav                                                                                          | Purna Bahadur Chhetri               | 13693243M | now | JC-405338H | 19 Mar 2015  |
| Hav                                                                                          | Yadav Harkesh Bahadur<br>Dudha Nath | 13692702N | now | JC-405339L | 04 Apr 2015* |
| *Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jan 2015. |                                     |           |     |            |              |
| Hav                                                                                          | Hari Kesh Chauhan                   | 13692947K | now | JC-405340A | 04 Apr 2015* |
| *Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jan 2015. |                                     |           |     |            |              |
| Hav                                                                                          | Sanjay                              | 13694771H | now | JC-405364K | 28 May 2015* |
| *Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Apr 2015. |                                     |           |     |            |              |
| Hav                                                                                          | Rajan Kumar Rai                     | 13696366K | now | JC-405365M | 03 May 2015* |
| *Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Apr 2015. |                                     |           |     |            |              |
| Hav                                                                                          | Raj Kumar                           | 13696438H | now | JC-405352P | 01 Apr 2015  |
| Hav                                                                                          | Choudhari Chandrakishor<br>Ramjiwan | 13693525L | now | JC-405362Y | 30 Apr 2015* |
| *Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Apr 2015. |                                     |           |     |            |              |

## To be Naib Subedar (Clerk SD)

|            |                       |           |     |            |              |
|------------|-----------------------|-----------|-----|------------|--------------|
| Hav(ClkSD) | Nikam Gopinath Vishnu | 13696325A | now | JC-405342L | 01 Apr 2015  |
| Hav(ClkSD) | Pratap Kumar Sahu     | 13696470X | now | JC-405346F | 01 Apr 2015  |
| Hav(ClkSD) | Rajeev Kumar          | 13696474N | now | JC-405353X | 01 May 2015  |
| Hav(ClkSD) | Sunil Kumar M         | 13695683Y | now | JC-405354A | 01 May 2015  |
| Hav(ClkSD) | Ashutosh Kumar Pandey | 13696157M | now | JC-405355H | 01 May 2015  |
| Hav(ClkSD) | Samarjeet Singh       | 13696349K | now | JC-405356L | 01 May 2015  |
| Hav(ClkSD) | Putha Konda Reddy     | 13696486H | now | JC-405357N | 01 May 2015  |
| Hav(ClkSD) | Rajesh Negi           | 13694354W | now | JC-405368A | 12 May 2015* |

\*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar (ClkSD) without effect on pay and allces wef 01 May 2015.

|            |             |           |     |            |             |
|------------|-------------|-----------|-----|------------|-------------|
| Hav(ClkSD) | Manoj Kumar | 13696518A | now | JC-405371A | 01 Jun 2015 |
|------------|-------------|-----------|-----|------------|-------------|

## ARMED CORPS

## To be substantive Ris Maj

|                                                                                                    |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| RISALDAR ASHOK KUMAR                                                                               | ( JC243505N) | *14 Aug 2014 |
| *(Granted Seniority in the Rank of Ris Maj wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances)   |              |              |
| RISALDAR RAJESH SINGH                                                                              | ( JC243378K) | *02 Oct 2014 |
| *(Granted Seniority in the Rank of Ris Maj J wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances) |              |              |
| RISALDAR INDER SINGH                                                                               | ( JC242896X) | *01 Nov 2014 |
| *(Granted Seniority in the Rank of Ris Maj wef 25 Oct 2014 without effect on pay and allowances)   |              |              |
| RISALDAR VIJAY KUMAR                                                                               | ( JC244162P) | *18 Dec 2014 |
| *(Granted Seniority in the Rank of Ris Maj wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances)   |              |              |
| RISALDAR SATAR KHAN                                                                                | ( JC242206H) | *06 Jan 2015 |
| *(Granted Seniority in the Rank of Ris Maj J wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances) |              |              |
| RISALDAR RAMOUTAR                                                                                  | ( JC243541Y) | 01 Feb 2015  |
| RISALDAR PARWAT SINGH RAJAWAT                                                                      | ( JC245030N) | *03 Feb 2015 |
| *(Granted Seniority in the Rank of Ris Maj wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances)   |              |              |
| RISALDAR SURESH                                                                                    | ( JC243012M) | *02 Mar 2015 |
| *(Granted Seniority in the Rank of Ris Maj wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances)   |              |              |
| RISALDAR RAM NARAYAN YADAV                                                                         | ( JC243598N) | *02 Mar 2015 |
| *(Granted Seniority in the Rank of Ris Maj wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances)   |              |              |
| RISALDAR PAWAN KUMAR                                                                               | ( JC244086N) | *02 Mar 2015 |
| *(Granted Seniority in the Rank of Ris Maj wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances)   |              |              |
| RISALDAR CG MURUGAIYAN                                                                             | ( JC243387L) | 01 Apr 2015  |
| RISALDAR JAIN JOSE                                                                                 | ( JC243788A) | 01 Apr 2015  |
| RISALDAR SRI RAM PRATAP SINGH                                                                      | ( JC243893W) | 01 Apr 2015  |
| RISALDAR RAJBIR                                                                                    | ( JC243385A) | 01 May 2015  |
| RISALDAR SURESH SINGH                                                                              | ( JC243715N) | 01 May 2015  |
| RISALDAR SUKHWINDER SINGH                                                                          | ( JC243257H) | 01 Jun 2015  |
| RISALDAR RAJENDRA KUMAR                                                                            | ( JC244376L) | 03 Jun 2015  |

## CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERING

## To be Sub Maj RT (Pandit)

|               |              |                          |
|---------------|--------------|--------------------------|
| Krishan Kumar | (JC-164248A) | 15 Jan 2014/01 Jan 2014* |
|---------------|--------------|--------------------------|

## To be Sub Maj SKT

|             |              |                          |
|-------------|--------------|--------------------------|
| Rakesh Babu | (JC-763800A) | 09 Jan 2014/01 Jan 2014* |
|-------------|--------------|--------------------------|

## To be Sub Maj Master Tech (A Veh)

|         |              |                          |
|---------|--------------|--------------------------|
| Raj Bir | (JC-757489P) | 06 Jan 2014/01 Jan 2014* |
|---------|--------------|--------------------------|

|                         |                                   |                          |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                         | To be Sub Maj Auto Tech (A Veh)   |                          |
| Jhabarmal               | (JC-758513M)                      | 10 Jan 2014/01 Jan 2014* |
|                         | To be Sub Maj Master Tech (Elect) |                          |
| Ranjeet Singh Choudhary | (JC-757582W)                      | 11 Jan 2014/01 Jan 2014* |
|                         | To be Sub Maj Tech Comn           |                          |
| Wilson George           | (JC-762821K)                      | 07 Jan 2014/01 Jan 2014* |
|                         | To be Sub Maj Dvr (MT)            |                          |
| Rajendra Yadav          | (JC-762607F)                      | 01 Jan 2014              |
| Hari Chand              | (JC-761625X)                      | 01 Jan 2014              |
|                         | To be Sub Maj Master Tech (C Veh) |                          |
| Surender Kumar          | (JC-757507M)                      | 01 Feb 2014              |
|                         | To be Sub Maj Master Tech (AVNCS) |                          |
| Prakash Chandra         | (JC-756510A)                      | 01 Feb 2014              |
|                         | To be Sub Maj Dvr (MT)            |                          |
| Gopal Singh Mehta       | (JC-762773P)                      | 08 Jan 2014/01 Jan 2014* |
| Manoj Kumar Singh       | (JC-762786M)                      | 01 Feb 2014              |
|                         | To be Sub Maj SKT                 |                          |
| Anil Kumar              | (JC-764164K)                      | 01 Feb 2014              |
|                         | To be Sub Maj Tech SA             |                          |
| Tirashpal Singh         | (JC-763482F)                      | 01 Jan 2014              |
| Satenderpal Singh       | (JC-763902W)                      | 08 Mar 2014/01 Jan 2014* |
|                         | To e Sub Maj SKT                  |                          |
| Lal Mohan Konar         | (JC-764133K)                      | 01 Feb 2014              |
|                         | To be Sub Maj Dvr (MT)            |                          |
| Nirmal Singh            | (JC-762941H)                      | 01 Mar 2014              |
|                         | To be Sub Maj Master Tech (A Veh) |                          |
| Swapan Kumar Khatua     | (JC-757816P)                      | 01 Mar 2014              |
| Ajit Singh              | (JC-757791N)                      | 01 Mar 2014              |
|                         | To be Sub Maj Auto Tech (B Veh)   |                          |
| Meba Ram                | (JC-757674H)                      | 04 Mar 2014/01 Mar 2014* |
|                         | To be Sub Maj Clk (SD)            |                          |
| Shishupal Singh         | (JC-761608X)                      | 06 Mar 2014/01 Mar 2014* |
| Ashok Kumar Kaura       | (JC-761592X)                      | 03 Mar 2014/01 Mar 2014* |
|                         | To be Sub Maj Master Tech (AVNCS) |                          |
| Dilip Kumar Singh       | (JC-757430P)                      | 01 Mar 2014              |
|                         | To be Sub Maj Tech GCE            |                          |
| Baldev Yadav            | (JC-762700H)                      | 29 Mar 2014              |
|                         | To be Sub Maj Master Tech SA      |                          |
| Krushna Chandra Tarai   | (JC-757889F)                      | 01 Apr 2014              |
|                         | To be Sub Maj Tech SA             |                          |
| Hem Chandra Maindola    | (JC-764186H)                      | 01 Apr 2014              |

|                           |                                       |                           |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|                           | To be Sub Maj Master Tech (AVNCS)     |                           |
| Panchannana Samal         | (JC-757850P)                          | 01 Apr 2014               |
|                           | To be Sub Maj Master Tech (Gun)       |                           |
| Vinod Kumar               | (JC-757721P)                          | 01 Apr 2014               |
|                           | To be Sub Maj Clk (SD)                |                           |
| Ishwar Singh              | (JC-756262P)                          | 17 Jan 2014/01 Jan 2014*  |
| Eftkhar Ahamed Ansari     | (JC-761681W)                          | 01 Apr 2014               |
|                           | To be Sub Maj Master Tech AVN (Elect) |                           |
| Ranjeet Singh             | (JC-756906K)                          | 04 Feb 2014/01 Feb 2014*  |
| Nahar Singh               | (JC-757576H)                          | 03 Mar 2014/01 Mar 2014*  |
|                           | To be Sub Maj SKT                     |                           |
| Uttam Kumar Dey           | (JC-763470M)                          | 13 Jan 2014/01 Jan 2014*  |
|                           | To be Sub Maj Master Tech B Veh       |                           |
| Raj Kumar Sah             | (JC-757681Y)                          | 04 Mar 2014/01 Mar 2014*  |
|                           | To be Sub Maj Master Tech Gun         |                           |
| Seenivasan V              | (JC-757832M)                          | 01 Apr 2014               |
|                           | To be Sub Maj Tech SA                 |                           |
| Narendra Singh Nagarkotia | (JC-757893K)                          | 01 Apr 2014               |
| Achche Lal Choudhary      | (JC-764187L)                          | 04 Apr 2014/01 Apr 2014*  |
|                           | To be Sub Maj Master Tech Rdr         |                           |
| Kakde Suresh Dinkar       | (JC-757902A)                          | 01 May 2014               |
| Mahaveer Singh            | (JC-757901X)                          | 01 May 2014               |
|                           | To be Sub Maj Master Tech B Veh       |                           |
| Tungala Niranjana Rao     | (JC-757694W)                          | 01 May 2014               |
|                           | To be Sub Maj RT Pandit               |                           |
| Bed Prakash Mishra        | (JC-758093X)                          | 01 Mar 2014               |
|                           | To be Sub Maj Master Tech Comn        |                           |
| C Shekhar Prasad Singh    | (JC-757483N)                          | 03 Apr 2014/ 01 Apr 2014* |
|                           | To be Sub Maj Master Tech Gun         |                           |
| Ram Mani Varma            | (JC-757708L)                          | 03 Apr 2014/01 Apr 2014*  |
|                           | To be Sub Maj Clk (Sd)                |                           |
| Piar Chand Singh Rana     | (JC-762451P)                          | 01 May 2014               |
| Sulinder Singh Mowall     | (JC-762546P)                          | 01 May 2014               |
|                           | To be Sub Maj RT (Pandit)             |                           |
| Sriniwas Pathak           | (JC-758787X)                          | 01 May 2014               |
|                           | To be Sub Maj Refrmeh                 |                           |
| Dayalan K                 | (JC-761273L)                          | 01 Jan 2014               |
|                           | To be Sub Maj Master Tech (AVNCS)     |                           |
| Hem Raj                   | (JC-757851X)                          | 01 Apr 2014               |
|                           | To be Sub Maj Master Tech (Comn)      |                           |
| James MM                  | (JC-758222M)                          | 01 May 2014               |

|                           |                                   |                           |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|                           | To be Sub Maj Dvr (MT)            |                           |
| Dev Karan Jat             | (JC-762949P)                      | 01 Jun 2014               |
|                           | To be Sub Maj Tech SA             |                           |
| Prawin Kumar Choudhary    | (JC-764583F)                      | 01 Jun 2014               |
| Ram Avtar Singh           | (JC-758173P)                      | 01 Jun 2014               |
|                           | To be Sub Maj Master Tech (C Veh) |                           |
| Mahalingam R              | (JC-757916A)                      | 03 Jun 2014/01 Jun 2014*  |
|                           | To be Sub Maj Master Tech (Rdr)   |                           |
| Jasvinder Singh           | (JC-758016H)                      | 01 Jul 2014               |
|                           | To be Sub Maj Master Tech (A Veh) |                           |
| Shyam Singh               | (JC-757933A)                      | 01 Jul 2014               |
|                           | To be Sub Maj Master Tech (C Veh) |                           |
| Nand Kishor               | (JC-757909K)                      | 03 Jun 2014/01 Jun 2014*  |
|                           | To be Sub Maj Master Tech (A Veh) |                           |
| Rama Raj A                | (JC-757979H)                      | 01 Jun 2014               |
|                           | To be Sub Maj Master Tech (Rdr)   |                           |
| Randhir Singh             | (JC-757937W)                      | 01 Jul 2014               |
|                           | To be Sub Maj Tech (SA)           |                           |
| Nar Singh                 | (JC-758176H)                      | 02 Jul 2014/ 01 Jul 2014* |
| * Gtd ante date seniority |                                   |                           |

RAJIV JAUHARI  
Under Secy

#### ARMY BRANCH

No. 217, dated 25th August 2015

#### CORRIGENDUM REGULAR ARMY Maj to be Lt Col

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification Part I Section IV published on 15 Oct 2005 under the heading “Regular Army, Permanent Commission (SL)”, and sub heading “Maj to be Lt Col” the following amendment is made:—

FOR : IC-41859 S Radhakrishna, Engrs  
READ : IC-41859 S Radhakrishnan, Engrs

SANKAR BOSE  
Dy Dir  
MS-8C

#### ARMY BRANCH

No. 218, Dated 25th August 2015—The president is pleased to make the following promotions:-

#### CORRIGENDA REGULAR ARMY

#### The Mechanised Infantry Regiment

In the Ministry of Defence Notification No 143 dated 15<sup>th</sup> Mar 2013 published in the Gazette of India serial No 14 dated 06 Apr 2013 under heading “Regular Army” Sub heading “The Mechanised Infantry Regiment” below :—

## To be Naib Subedar

|      |                                                                                                   |                               |                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| For  | Hav Jagdale Prakash<br>Madhav                                                                     | (No 14918700H now JC-422026H) | 14 <sup>th</sup> Jul 2011* |
|      | * (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances). |                               |                            |
| Read | Hav Jagdale Prakash<br>Madhav                                                                     | (No 14918700H now JC-422026H) | 14 <sup>th</sup> Jul 2011* |
|      | * (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Jun 2011 without effect on pay and allowances). |                               |                            |

## REGULAR ARMY

## The Mechanised Infantry Regiment

In the Ministry of Defence Notification No 190 dated 24<sup>th</sup> Apr 2012 published in the Gazette of India serial No 21 dated 26 May 2012 under heading “Regular Army” Sub heading “The Mechanised Infantry Regiment” below :—

## To be Naib Subedar

|      |                                                                                                   |                               |                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| For  | Hav Mohit Kumar Sahu                                                                              | (No 14918860H now JC-422080W) | 01st Jan 2012* |
|      | * (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2011 without effect on pay and allowances). |                               |                |
| Read | Hav Mohit Kumar Sahu                                                                              | (No 14918860H now JC-422080W) | 01st Jan 2012  |

## REGULAR ARMY

## The Mechanised Infantry Regiment

In the Ministry of Defence Notification No 267 dated 12<sup>th</sup> Jun 2012 published in the Gazette of India serial No 27 dated 07 Jul 2012 under heading “Regular Army” Sub heading “The Mechanised Infantry Regiment” below :—

## To be Naib Subedar

|      |                                                                                                   |                               |                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| For  | Hav Jaswant                                                                                       | (No 14918861L now JC-422112N) | 01st Feb 2012*            |
|      | * (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2011 without effect on pay and allowances). |                               |                           |
| Read | Hav Jaswant                                                                                       | (No 14918861L now JC-422112N) | 01 <sup>st</sup> Feb 2012 |

## REGULAR ARMY

## The Mechanised Infantry Regiment

In the Ministry of Defence Notification No 342 dated 17th Oct 2013 published in the Gazette of India serial No 51 dated 21 Dec 2013 under heading “Regular Army” Sub heading “The Mechanised Infantry Regiment” below :—

## To be Naib Subedar

|      |                                                                                                   |                               |                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| For  | Hav Prasanta Samui                                                                                | (No 14918657M now JC-422228K) | 09th Dec 2012* |
|      | * (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2011 without effect on pay and allowances). |                               |                |
|      | Hav Shiv Bahadur Singh                                                                            | (No 14918840P now JC-422229M) | 02nd Jan 2013* |
|      | * (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2011 without effect on pay and allowances). |                               |                |
| Read | Hav Prasanta Samui                                                                                | (No 14918657M now JC-422228K) | 09th Dec 2012* |
|      | * (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allowances). |                               |                |
|      | Hav Shiv Bahadur Singh                                                                            | (No 14918840P now JC-422229M) | 02nd Jan 2013* |
|      | * (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Nov 2012 without effect on pay and allowances). |                               |                |

RAJIV JAUHARI  
Under Secy

## ARMY BRANCH

No. 219, dated 26th August 2015—The President is pleased to make the following appointments under AI 15/79 as amended:-

REGULAR ARMY  
ARMY DENTAL CORPS  
(SHORT SERVICE COMMISSION)

To Be Captain (On Probation)  
(Antedate of Commission)

DS-12482M Capt Praneet K Rana - 05-02-2013

with seniority for pay and promotion from 05-08-2012 (includes addl 06 months Antedate for holding Hospital appointment as a BDS-Tutor in I.T.S. Dental College, Hospital and Research Centre, Greater Noida (UP) from 03 Jul 2012 to 30 Jan 2013, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12520X Capt Varun Jain - 27-12-2013

with seniority for pay and promotion from 27-06-2013 (includes addl 06 months Antedate for holding Hospital appointment as a House Surgeon in Dr R Ahmed Dental College & Hospital, Kolkata from 01 Nov 2012 to 30 Apr 2013, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 16 Aug 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12529M Capt Vikas Kumar - 27-12-2013

with seniority for pay and promotion from 27-06-2013 (includes addl 06 months Antedate for holding Hospital appointment as a Lecturer in Mithila Minority Dental College & Hospital, Samastipur Road, Mansukh Nagar (Ekmighat), Laheriasarai, Darbhanga (Bihar) from 05 Nov 2012 to 30 Sep 2013, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 16 Aug 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12544F Capt Deepak Shukla - 06-03-2014

with seniority for pay and promotion from 06-09-2013 (includes addl 06 months Antedate for holding Hospital appointment as BDS Tutor in ITS Dental College, Hospital & Research Centre, 47, Knowledge Park-III, Greater Noida (UP) from 12 Apr 2013 to 21 Feb 2014, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 09 Aug 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

The President is pleased to make the following appointment for a period of 05 years under 15/79, as amended and GOI MOD letter Nos.10(3)(1)/05/D(Med) dated 28 Oct 05 as amended:-

REGULAR ARMY  
ARMY DENTAL CORPS  
SHORT SERVICE COMMISSION

To Be Captain (On Probation)

| Pers No   | Rank & Name        | Dt of commission |
|-----------|--------------------|------------------|
| DS-12379F | Capt Rohin Takkiar | 30-08-2010       |
| DS-12381Y | Capt Devbrat Singh | 30-08-2010       |
| DS-12383K | Capt (Ms) Payal    | 01-09-2010       |
| DS-12386X | Capt CBS Patel     | 04-09-2010       |

| Pers No   | Rank & Name                    | Dt of commission |
|-----------|--------------------------------|------------------|
| DS-12388H | Capt (Ms) Sukhmani Dillon      | 06-09-2010       |
| DS-12389L | Capt George Kutty M Thomas     | 09-09-2010       |
| DS-12390A | Capt Hrishikesh HK             | 10-09-2010       |
| DS-12394W | Capt Munish Joshi              | 14-10-2010       |
| DS-12399P | Capt Satyam Kumar Singh        | 16-12-2010       |
| DS-12554L | Capt Ranjoy Hazra              | 13 Jan 2015      |
| DS-12555N | Capt Ayush Srivastava          | 13 Jan 2015      |
| DS-12556W | Capt Anson Jose                | 13 Jan 2015      |
| DS-12557Y | Capt Lakinepally Abishek       | 13 Jan 2015      |
| DS-12558F | Capt Prateek Mathur            | 13 Jan 2015      |
| DS-12559K | Capt Sabareesh Jakka           | 13 Jan 2015      |
| DS-12560Y | Capt Surendra Kumar Sewda      | 13 Jan 2015      |
| DS-12561F | Capt Aakash Sethi              | 13 Jan 2015      |
| DS-12562K | Capt Gaurav Singh Rathi        | 13 Jan 2015      |
| DS-12563M | Capt Kishor Singh Bhandari     | 13 Jan 2015      |
| DS-12564P | Capt (Ms) Richa Gupta          | 13 Jan 2015      |
| DS-12565X | Capt Gaurav Solanki            | 13 Jan 2015      |
| DS-12566A | Capt Sachin Gupta              | 13 Jan 2015      |
| DS-12567H | Capt Prabhav Jain              | 13 Jan 2015      |
| DS-12568L | Capt Suman Anand               | 13 Jan 2015      |
| DS-12569N | Capt Amit Shekhar Nema         | 13 Jan 2015      |
| DS-12570H | Capt Malkeet Singh             | 13 Jan 2015      |
| DS-12571L | Capt Rajinder Pal Singh        | 13 Jan 2015      |
| DS-12572N | Capt (Ms) Manvi Seth           | 13 Jan 2015      |
| DS-12573W | Capt Shubham Goyal             | 13 Jan 2015      |
| DS-12574Y | Capt Neelesh Singh             | 13 Jan 2015      |
| DS-12575F | Capt Kunal Ashok Nimbalkar     | 13 Jan 2015      |
| DS-12576K | Capt S Gopi Pavan Sudhir       | 13 Jan 2015      |
| DS-12577M | Capt Anup Kumar Singh          | 13 Jan 2015      |
| DS-12578P | Capt Vikas Singh               | 13 Jan 2015      |
| DS-12579X | Capt Ajay Pratap Singh Chauhan | 13 Jan 2015      |

HS SANDHU  
Brig  
DDGDS (P)

## ARMY BRANCH

No. 220, dated 26th August 2015—The President is to make the following promotion (PC) under AI 37/78 as amended :-

REGULAR ARMY  
ARMY DENTAL CORPS  
(PERMANENT COMMISSION)

## Brig (&amp; Equiv) To Be Maj Gen

| Pers No   | Rank & Name        | Remarks                                                                            |
|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| DR-10335L | Brig SH Gupta, VSM | 01-03-2015 (with notional seniority 30-04-2012 without effect on pay & allowances) |
| DR-10339F | Brig NK Sahoo      | 08-05-2015 (with notional seniority 23-03-2015 without effect on pay & allowances) |

The President is pleased to make the following promotion under AI 37/78 as amended :-

## Promotion From Sqn Ldr To Wg Cdr

|                        |         |               |            |
|------------------------|---------|---------------|------------|
| DR-10555P<br>(26942-L) | Sqn Ldr | Shaleen Airon | 17-11-2014 |
|------------------------|---------|---------------|------------|

## PROMOTION FROM MAJ TO LT COL

|           |     |                     |            |
|-----------|-----|---------------------|------------|
| DR-10632Y | Maj | Kadu Abhijeet Ashok | 05-12-2014 |
|-----------|-----|---------------------|------------|

The President is pleased to make the following promotion under AI 15/79 as amended :-

## SHORT SERVICE COMMISSION

## Promotion From Surg Lt Cdr To Surg Cdr

|                       |                       |            |
|-----------------------|-----------------------|------------|
| DS-12091F<br>(79059B) | Surg Lt Cdr CMZ Ahmed | 03-09-2014 |
|-----------------------|-----------------------|------------|

## Capt To Be Major

|           |      |                           |          |
|-----------|------|---------------------------|----------|
| DS-12489W | Capt | Tapan Singh               | 12-02-14 |
| DS-12511W | Capt | Saleem Akhtar             | 14-03-14 |
| DS-12485A | Capt | Varun Rana                | 07-08-14 |
| DS-12487L | Capt | Sampann Chowdhry          | 09-08-14 |
| DS-12494F | Capt | Desai Jimish Bhavik Kumar | 16-08-14 |
| DS-12499A | Capt | Sonawane Devendra Lotesb  | 19-08-14 |
| DS-12500K | Capt | Nookala Aniket Ramamurthy | 20-08-14 |
| DS-12504A | Capt | Himanshu Thukral          | 22-08-14 |
| DS-12505H | Capt | Aditi Rawat               | 02-09-14 |
| DS-12508W | Capt | Sushmita Debnath          | 10-09-14 |
| DS-12510N | Capt | Jasmeet Gill              | 14-09-14 |
| DS-12540L | Capt | (Ms) Lakhveer Kaur        | 27-12-14 |

|           |      |                   |          |
|-----------|------|-------------------|----------|
| DS-12415F | Capt | Bhushan Kumar     | 17-03-12 |
| DS-12469H | Capt | Ankur Thakral     | 18-05-13 |
| DS-12493Y | Capt | Kritant Bhushan   | 16-02-14 |
| DS-12395Y | Capt | Mohd Kasif Usmani | 16-04-15 |
| DS-12396F | Capt | Ajit Kumar Gupta  | 18-04-15 |
| DS-12375L | Capt | Divya             | 16-10-14 |

HS SANDHU  
Brig  
DDGDS(P)

#### ARMY BRANCH

No. 221, dated 26th August 2015—The President is pleased to make the following promotion: -

#### TERRITORIAL ARMY TERRITORIAL COMMISSION

##### To Be Maj

|                          |          |             |              |
|--------------------------|----------|-------------|--------------|
| Capt Janeshwar Prasad    | TA-42686 | Engineer TA | 08 Mar 2015  |
| Capt Nongmeikapam Danish | TA-42681 | (Infantry)  | 14 May 2015. |

##### TO BE CAPT

|                          |          |            |              |
|--------------------------|----------|------------|--------------|
| Lt Patil Vinay Suresh    | TA-42804 | (Infantry) | 01 May 2015. |
| Lt Marcus Gabriel Robert | TA-42805 | (Infantry) | 02 May 2015. |
| Lt Omveer Singh          | TA-42806 | (Infantry) | 02 May 2015. |
| Lt Vivek Pathania        | TA-42808 | (Infantry) | 18 May 2015. |
| Lt Jitendra Singh        | TA-42809 | (Infantry) | 21 May 2015. |

B. B. JOSHI  
Under Secretary

#### ARMY BRANCH

No. 222, dated 27th August 2015—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY INFANTRY JAK LI

##### To Be Subedar Major

|                                                                                              |              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Sub (RT) Mohd Ahmad Siddiqui<br>(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (RT) wef 01 Nov 2014). | JC-220858F   | 01 Nov 2014 |
| Sub Mohd Nawaz Hajam, SM<br>(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Dec 2014).     | (JC-593227A) | 05 Dec 2014 |
| Sub Raj Kumar<br>(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Jan 2015).                | (JC-593211P) | 02 Jan 2015 |
| Sub Ram Dass<br>(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Feb 2015).                 | (JC-593386X) | 10 Feb 2015 |
| Sub Parmodh Singh<br>(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Jun 2015).            | (JC-593415F) | 01 Jun 2015 |
| Sub (Musn) Ashwani Kumar<br>(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (Musn) wef 01 Jun 2015).   | (JC-593951K) | 12 Jun 2015 |

## To Be Naib Subedar

|                                                                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 9095822N Hav Vijay Kumar (Now JC-594663K) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Dec 2014)      | 01 Dec 2014 |
| 9096302P Hav Tilak Raj (Now JC-594664M) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 15 Dec 2014)        | 12 Jan 2015 |
| 9095486M Hav Balraj Kumar (Now JC-594665P) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 19 Dec 2014)     | 31 Jan 2015 |
| 9095604P Hav Tarseem Raj (Now JC-594666X) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 04 Feb 2015)      | 23 Feb 2015 |
| 9096193N Hav Manzoor Hussain (Now JC-594667A) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 04 Feb 2015)  | 09 Mar 2015 |
| 9095610H Hav Jeet Singh (Now JC-594668H) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 07 Feb 2015)       | 23 Feb 2015 |
| 9094893H Hav Manohar Lal (Now JC-594669L) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Mar 2015)      | 02 Mar 2015 |
| 9094935K Hav Jagbir Singh (Now JC-594670A) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Mar 2015)     | 02 Mar 2015 |
| 9094950Y Hav Mohd Kabir (Now JC-594671H) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Mar 2015)       | 02 Mar 2015 |
| 9096072M Hav Farooq Ahmad Mir (Now JC-594672L) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 26 Dec 2014) | 13 Feb 2015 |
| 9096507K Hav Bihari Lal (Now JC-594673N) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 05 Feb 2015)       | 26 Mar 2015 |
| 9096517N Hav Mushtaq Ahmed (Now JC-594674W) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 23 Feb 2015)    | 28 Mar 2015 |
| 9096125A Hav Manohar Lal (Now JC-594675Y) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Mar 2015)      | 09 Mar 2015 |
| 9097777L Hav Nazir Ahmad Lone (Now JC-594676F) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 20 Jan 2015) | 02 Mar 2015 |
| 9094211M Hav Zemdhi (Now JC-594677K) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 07 Feb 2015)           | 14 Apr 2015 |
| 9096086M Hav Jagir Singh (Now JC-594678M) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 09 Feb 2015)      | 04 Mar 2015 |
| 9096332M Hav Bachiter Singh (Now JC-594679P) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 22 Feb 2015)   | 11 Apr 2015 |
| 9096453N Hav Trubh Singh (Now JC-594680K) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 21 Mar 2015)      | 29 Mar 2015 |
| 9094955X Hav Mohd Shokeen (Now JC-594681M) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Apr 2015)     | 02 Apr 2015 |
| 9094695X Hav Mohd Iqbal (Now JC-594682P) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 03 Apr 2015)       | 17 Apr 2015 |
| 9096046L Hav Zakir Hussain (Now JC-594683X) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Apr 2015)    | 03 May 2015 |
| 9094387X Hav Sat Pal Singh (Now JC-594684A) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 08 Apr 2015)    | 27 Apr 2015 |
| 9095526H Hav Daya Ram (Now JC-594685H) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 08 Apr 2015)         | 27 Apr 2015 |

|                                                                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 9096998L Hav Kikar Singh (Now JC-594686L) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 May 2015)     | 02 May 2015 |
| 9095934N Hav Rakesh Kumar (Now JC-594687N) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 May 2015)    | 07 May 2015 |
| 9096259Y Hav Mohd Imran (Now JC-594688W) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Apr 2015)      | 20 May 2015 |
| 9094710F Hav Ramesh Chander (Now JC-594689Y) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 05 Apr 2015)  | 16 May 2015 |
| 9096112H Hav Kewal Kumar (Now JC-594690N) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 05 Apr 2015)     | 21 May 2015 |
| 9089968L Hav Riaz Ahmed (Now JC-594691W) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 07 Apr 2015)      | 30 May 2015 |
| 9096776W Hav Farooq Mahmood (Now JC-594692Y) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 07 Apr 2015)  | 30 May 2015 |
| 9097369A Hav Parshotam Lal (Now JC-594693F) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 07 Apr 2015)   | 30 May 2015 |
| 9096331K Hav Bagh Hussain (Now JC-594694K) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 14 Apr 2015)    | 28 May 2015 |
| 9094590N Hav Mohd Tufail (Now JC-594695M) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 20 Apr 2015)     | 29 May 2015 |
| 9095518K Hav Blait Singh (Now JC-594696P) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 20 Apr 2015)     | 05 Jun 2015 |
| 9095551F Hav Bhopinder Singh (Now JC-594697X) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 20 Apr 2015) | 29 May 2015 |
| 9095731K Hav Bashir Ahmed (Now JC-594698A) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 20 Apr 2015)    | 29 May 2015 |
| 9096236X Hav Kamal Kishor (Now JC-594699H) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 20 Apr 2015)    | 29 May 2015 |
| 9095745K Hav Manroth Sharma (Now JC-594700W) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 May 2015)  | 29 May 2015 |
| 9095643N Hav Manzoor Hussain (Now JC-594701P) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 05 Apr 2015) | 16 May 2015 |
| 9096115W Hav Sat Pal (Now JC-594702X) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 05 Apr 2015)         | 22 May 2015 |
| 9096157H Hav Kulwant Singh (Now JC-594703A) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 05 Apr 2015)   | 16 May 2015 |
| 9096105M Hav Mohd Shafeeq (Now JC-594704H) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 05 Apr 2015)    | 16 May 2015 |
| 9096198M Hav Prem Paul (Now JC-594705L) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 05 Apr 2015)       | 16 May 2015 |
| 9095930X Hav Kasturi Lal (Now JC-594706N) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 05 Apr 2015)     | 16 May 2015 |
| 9096314K Hav Surinder Singh (Now JC-594707W) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 05 Apr 2015)  | 16 May 2015 |
| 9096359K Hav Dwarka Nath (Now JC-594708Y) Nb Sub<br>(Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 05 Apr 2015)     | 19 May 2015 |

## THE DOGRA REGIMENT

## To be Sub Maj

|                                                                                                                          |            |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| Sub Lakhbir Singh                                                                                                        | JC-520556N | 1 <sup>st</sup> Jun 2015  |
| Sub Vijay Kumar                                                                                                          | JC-520526W | 2 <sup>nd</sup> Jun 2015* |
| *(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1 <sup>st</sup> Jun 2015 without effect on Pay & Allowances) |            |                           |

## To be Sub Maj Clerk (SD)

|                                   |            |                          |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|
| Sub (Clk (SD)) Hoshiar Ali Khan   | JC-520670L | 1 <sup>st</sup> Apr 2015 |
| Sub (Clk (SD)) Sunil Kumar Tiwari | JC-520837K | 1 <sup>st</sup> May 2015 |

## To be Sub

|                                                                                                                      |            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| Nb Sub Ranjeet Singh                                                                                                 | JC-521799L | 27 <sup>th</sup> Apr 2015*  |
| *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 <sup>st</sup> Jul 2014 without effect on Pay & Allowances) |            |                             |
| Nb Sub Satish Kumar                                                                                                  | JC-521861M | 27 <sup>th</sup> Apr 2015*  |
| *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 <sup>st</sup> Sep 2014 without effect on Pay & Allowances) |            |                             |
| Nb Sub Subhash Chand                                                                                                 | JC-521762K | 8 <sup>th</sup> May 2015*   |
| *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 <sup>st</sup> Nov 2014 without effect on Pay & Allowances) |            |                             |
| Nb Sub Mahinder Lal Verma                                                                                            | JC-521534F | 10 <sup>th</sup> Apr 2015*  |
| *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 5 <sup>th</sup> Dec 2014 without effect on Pay & Allowances) |            |                             |
| Nb Sub Joginder Singh                                                                                                | JC-521505M | 6 <sup>th</sup> Apr 2015*   |
| *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 <sup>st</sup> Feb 2015 without effect on Pay & Allowances) |            |                             |
| Nb Sub Balvir Singh                                                                                                  | JC-521514N | 6 <sup>th</sup> Apr 2015*   |
| *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 <sup>st</sup> Feb 2015 without effect on Pay & Allowances) |            |                             |
| Nb Sub Kumer Chand                                                                                                   | JC-521763M | 21 <sup>st</sup> Apr 2015*  |
| *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 <sup>st</sup> Feb 2015 without effect on Pay & Allowances) |            |                             |
| Nb Sub Bhupinder Singh                                                                                               | JC-521576N | 8 <sup>th</sup> Apr 2015*   |
| *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 <sup>st</sup> Mar 2015 without effect on Pay & Allowances) |            |                             |
| Nb Sub Manohar Lal Dogra                                                                                             | JC-521579F | 5 <sup>th</sup> Apr 2015*   |
| *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 <sup>st</sup> Mar 2015 without effect on Pay & Allowances) |            |                             |
| Nb Sub Sher Singh Chandel                                                                                            | JC-521753H | 17 <sup>th</sup> Apr 2015*  |
| *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 <sup>st</sup> Apr 2015 without effect on Pay & Allowances) |            |                             |
| Nb Sub Parveen Singh                                                                                                 | JC-521754L | 15 <sup>th</sup> Apr 2015*  |
| *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 <sup>st</sup> Apr 2015 without effect on Pay & Allowances) |            |                             |
| Nb Sub Vinod Kumar                                                                                                   | JC-521789F | 18 <sup>th</sup> Apr 2015*  |
| *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 <sup>st</sup> Apr 2015 without effect on Pay & Allowances) |            |                             |
| Nb Sub Ram Paul                                                                                                      | JC-521574H | 2 <sup>nd</sup> May 2015*   |
| *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 <sup>st</sup> May 2015 without effect on Pay & Allowances) |            |                             |
| Nb Sub Jaggatter Singh                                                                                               | JC-521575L | 8 <sup>th</sup> May 2015*   |
| *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 <sup>st</sup> May 2015 without effect on Pay & Allowances) |            |                             |
| Nb Sub Mohinder Singh                                                                                                | JC-521572X | 27 <sup>th</sup> May 2015 * |
| *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 <sup>st</sup> May 2015 without effect on Pay & Allowances) |            |                             |
| Nb Sub Jaggo Ram                                                                                                     | JC-521599P | 15 <sup>th</sup> May 2015*  |
| *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 <sup>st</sup> May 2015 without effect on Pay & Allowances) |            |                             |
| Nb Sub Sunil Singh                                                                                                   | JC-521615F | 1 <sup>st</sup> May 2015    |

|                     |            |                          |
|---------------------|------------|--------------------------|
| Nb Sub Sanjay Kumar | JC-521617M | 1 <sup>st</sup> May 2015 |
| Nb Sub Tarsam Jab   | JC-521661W | 1 <sup>st</sup> May 2015 |
| Nb Sub Manjit Singh | JC-521715M | 1 <sup>st</sup> May 2015 |

## To be Sub Clerk (SD)

|                                     |            |                           |
|-------------------------------------|------------|---------------------------|
| Nb Sub(Clk SD) Hari Prakash         | JC-521449Y | 1 <sup>st</sup> Apr 2015  |
| Nb Sub(Clk SD) Sawant Hemant Lahu   | JC-521323Y | 1 <sup>st</sup> Apr 2015  |
| Nb Sub(Clk SD) Aginder Paul         | JC-521324F | 1 <sup>st</sup> Apr 2015  |
| Nb Sub(Clk SD) Dhan Pal Singh       | JC-521325K | 1 <sup>st</sup> Apr 2015  |
| Nb Sub (Clk SD) Satya Narayan Singh | JC-521462H | 1 <sup>st</sup> Apr 2015  |
| Nb Sub (Clk SD) Dinesh Kumar G      | JC-521495N | 5 <sup>th</sup> May 2015* |

\*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1<sup>st</sup> May 2015 without effect on Pay & Allowances)

## To be Nb Sub

|                                                                                                                                |                           |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Hav Ashok Kumar                                                                                                                | (3992644W Now JC-522136M) | 27 <sup>th</sup> Apr 15* |
| *(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 <sup>st</sup> Nov 14 without effect on pay and allowances)  |                           |                          |
| Hav Piar Chand                                                                                                                 | (3992649P Now JC-522137P) | 25 <sup>th</sup> Apr 15* |
| *(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 <sup>st</sup> Nov 14 without effect on pay and allowances)  |                           |                          |
| Hav Devi Dass                                                                                                                  | (3992773W Now JC-522138X) | 21 <sup>st</sup> Apr 15* |
| *(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 <sup>st</sup> Nov 14 without effect on pay and allowances)  |                           |                          |
| Hav Jagdish Chand                                                                                                              | (3996855W Now JC-522139A) | 13 <sup>th</sup> May 15* |
| *(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 13 <sup>th</sup> Nov 14 without effect on pay and allowances) |                           |                          |
| Hav Raj Kumar                                                                                                                  | (3991647X Now JC-522140P) | 10 <sup>th</sup> Apr 15* |
| *(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 5 <sup>th</sup> Dec 14 without effect on pay and allowances)  |                           |                          |
| Hav Rakesh Kumar                                                                                                               | (3991667L Now JC-522141X) | 15 <sup>th</sup> Apr 15* |
| *(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 14 <sup>th</sup> Dec 14 without effect on pay and allowances) |                           |                          |
| Hav Jashbir Singh                                                                                                              | (3991996F Now JC-522142A) | 27 <sup>th</sup> Apr 15* |
| *(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 7 <sup>th</sup> Jan 15 without effect on pay and allowances)  |                           |                          |
| Hav Ganesh Raj                                                                                                                 | (3992820H Now JC-522143H) | 27 <sup>th</sup> Apr 15* |
| *(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 7 <sup>th</sup> Jan 15 without effect on pay and allowances)  |                           |                          |
| Hav Surinder Kumar                                                                                                             | (3992995L Now JC-522144L) | 29 <sup>th</sup> Apr 15* |
| *(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 <sup>st</sup> Feb 15 without effect on pay and allowances)  |                           |                          |
| Hav Deepak Kumar Thakur                                                                                                        | (3993121K Now JC-522145N) | 21 <sup>st</sup> Apr 15* |
| *(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 <sup>st</sup> Feb 15 without effect on pay and allowances)  |                           |                          |
| Hav Lekh Raj Thakur                                                                                                            | (3992636X Now JC-522146W) | 13 <sup>th</sup> Apr 15* |
| *(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 3 <sup>rd</sup> Feb 15 without effect on pay and allowances)  |                           |                          |
| Hav Surender Kumar Thakur                                                                                                      | (3992847A Now JC-522147Y) | 27 <sup>th</sup> Apr 15* |
| *(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 <sup>st</sup> Mar 15 without effect on pay and allowances)  |                           |                          |
| Hav Rajender Singh                                                                                                             | (3993031H Now JC-522148F) | 30 <sup>th</sup> May 15* |
| *(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 4 <sup>th</sup> Mar 15 without effect on pay and allowances)  |                           |                          |
| Hav Yadopati Verma                                                                                                             | (3993131N Now JC-522149K) | 30 <sup>th</sup> May 15* |
| *(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 4 <sup>th</sup> Mar 15 without effect on pay and allowances)  |                           |                          |
| Hav Desh Raj                                                                                                                   | (3992037X Now JC-522150Y) | 21 <sup>st</sup> Apr 15* |
| *(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 22 <sup>nd</sup> Mar 15 without effect on pay and allowances) |                           |                          |

|                                                                                                                                |                           |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Hav Jai Lal                                                                                                                    | (3991883Y Now JC-522151F) | 21 <sup>st</sup> May 15* |
| *(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 12 <sup>th</sup> Apr 15 without effect on pay and allowances) |                           |                          |
| Hav Parveen Kumar Soharu                                                                                                       | (3991909H Now JC-522152K) | 21 <sup>st</sup> May 15* |
| *(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 19 <sup>th</sup> Apr 15 without effect on pay and allowances) |                           |                          |
| Hav Hemant Kumar                                                                                                               | (4006819M Now JC-522153M) | 1 <sup>st</sup> May 15   |
| Hav Sudhir Kumar Koundal                                                                                                       | (3991763A Now JC-522154P) | 1 <sup>st</sup> May 15   |
| Hav Bias Singh                                                                                                                 | (3991784W Now JC-522155X) | 1 <sup>st</sup> May 15   |
| Hav Manohar Singh                                                                                                              | (3991802N Now JC-522156A) | 1 <sup>st</sup> May 15   |
| Hav Rajinder Dev Singh                                                                                                         | (3991343A Now JC-522157H) | 1 <sup>st</sup> May 15   |
| To be Nb Sub (Clerk SD)                                                                                                        |                           |                          |
| Hav(Clk SD) Khokan Chandra Bhowal                                                                                              | (3994344N Now JC-522158L) | 1 <sup>st</sup> Apr 15   |
| Hav(Clk SD) Zite Balshiram Bhikaji                                                                                             | (3994691M Now JC-522159N) | 1 <sup>st</sup> Apr 15   |
| Hav(Clk SD) Dev Raj                                                                                                            | (3991302W Now JC-522160H) | 1 <sup>st</sup> Apr 15   |
| Hav(Clk SD) Pullagura Venkatesu                                                                                                | (3994751W Now JC-522161L) | 1 <sup>st</sup> Apr 15   |
| Hav(Clk SD) Ajay Singh Bisht                                                                                                   | (3993818X Now JC-522162N) | 18 <sup>th</sup> Apr 15* |
| *(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 <sup>st</sup> Apr 15 without effect on pay and allowances)  |                           |                          |
| Hav (Clk SD) Mohinder Singh                                                                                                    | (3991380N Now JC-522163W) | 1 <sup>st</sup> May 15   |

## LADAKH SCOUTS

## To Be Subedar Major (GD)

|                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| JC-588330F Sub Tashi Giapo                                              | 01 Aug 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Aug 2014. |              |
| JC-588349A Sub Phunchok Rafstan                                         | 01 Oct 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Oct 2014. |              |
| JC-588351X Sub Tashi Gonbo                                              | 01 Oct 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Oct 2014. |              |
| JC-588375F Sub Chhering Stobdan, SM                                     | 01 Nov 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Nov 2014. |              |
| JC-588394X Sub Phunchok Namgail                                         | 01 Dec 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Dec 2014. |              |
| JC-588377M Sub Chhering Dorje                                           | 01 Feb 2015* |
| *Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Feb 2015. |              |
| JC-588321A Sub Skarma Chenba Chhosing                                   | 01 Mar 2015* |
| *Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Mar 2015. |              |
| JC-588466L Sub Tsering Angchok, SM                                      | 01 Jun 2015* |
| *Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Jun 2015. |              |

## To Be Subedar Major Clerk (SD)

JC-588414P Sub Clk Tsetan Thinles 01 Feb 2015\*  
 \*Granted seniority in the rank of Sub Maj Clk with effect from 01 Feb 2015.

## To Be Subedar (GD)

JC-588614L Nb Sub Stanzin Chosphal 16 Jul 2014\*  
 \*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 16 Jul 2014.  
 JC-588543P Nb Sub Gyaltsen Nima 01 Sep 2014\*  
 \*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Sep 2014.  
 JC-588589X Nb Sub Phunchok Angchok 07 Sep 2014\*  
 \*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 07 Sep 2014.  
 JC-588574P Nb Sub Rigzin Otsal 01 Oct 2014\*  
 \*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Oct 2014.  
 JC-588576A Nb Sub Mohd Din 01 Oct 2014\*  
 \*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Oct 2014.  
 JC-588611X Nb Sub Tsewang Rinchen 01 Oct 2014\*  
 \*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Oct 2014.  
 JC-588623M Nb Sub Gurmat Phuntsog 01 Oct 2014\*  
 \*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Oct 2014.  
 JC-588588P Nb Sub Sonam Paljor, VSM 01 Oct 2014\*  
 \*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Oct 2014.  
 JC-588598Y Nb Sub Tsewang Dorjey 01 Oct 2014\*  
 \*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Oct 2014.  
 JC-588609A Nb Sub Tsewang Norboo 01 Oct 2014\*  
 \*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Oct 2014.  
 JC-588618F Nb Sub Thupstan Tsewang 01 Oct 2014\*  
 \*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Oct 2014.  
 JC-588626A Nb Sub Mohd Abdullah 01 Nov 2014\*  
 \*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2014.  
 JC-588628L Nb Sub Pawan Kumar 01 Nov 2014\*  
 \*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2014.  
 JC-588631L Nb Sub Tashi Angchok 01 Nov 2014\*  
 \*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2014.  
 JC-588536Y Nb Sub Tsewang Stobgais 01 Nov 2014\*  
 \*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2014.  
 JC-588639X Nb Sub Narboo Gailson 01 Nov 2014\*  
 \*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2014.  
 JC-588640M Nb Sub Tsering Morup 01 Nov 2014\*  
 \*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2014.

|                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| JC-588635F Nb Sub Sonam Chosdan                                         | 01 Dec 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Dec 2014.     |              |
| JC-588575X Nb Sub Thujay Namgail                                        | 01 Feb 2015* |
| *Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Feb 2015.     |              |
| JC-588532H Nb Sub Rigzin Namgial                                        | 01 Mar 2015* |
| *Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2015.     |              |
| To Be Subedar Clerk (SD)                                                |              |
| JC-588621F Nb Sub (Clk) Janak Raj                                       | 01 Aug 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Aug 2014.     |              |
| JC-588622K Nb Sub (Clk) Parveen Singh Guleria                           | 01 Feb 2015* |
| *Granted seniority in the rank of Sub Clk with effect from 01 Feb 2015. |              |
| To Be Naib Subedar (GD)                                                 |              |
| Hav Arivalagan G (2596381W Now JC-588726L)                              | 06 Jun 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 06 Jun 2014.  |              |
| Hav Tashi Phuntsog (9924269H Now JC-588727N)                            | 01 Jul 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2014.  |              |
| Hav Sonam Angchok (9924311W Now JC-588728W)                             | 01 Jul 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2014.  |              |
| Hav Gulzar Hassain (9924257N Now JC-588729Y)                            | 01 Aug 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2014.  |              |
| Hav Chhering Targes (9924110X Now JC-588732Y)                           | 01 Sep 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Sep 2014.  |              |
| Hav Nawang Dorje (9924005F Now JC-588733F)                              | 07 Sep 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 07 Sep 2014.  |              |
| Hav Padma Sonam (9924073P Now JC-588734K)                               | 01 Oct 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2014.  |              |
| Hav Dorje Tsetan (9924127L Now JC-588735M)                              | 01 Oct 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2014.  |              |
| Hav Skalzang Galtsion (9924195Y Now JC-588736P)                         | 01 Oct 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2014.  |              |
| Hav Tsetan Namgail (9924325W Now JC-588737X)                            | 01 Oct 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2014.  |              |
| Hav Padma Dorjee (9924336H Now JC-588738A)                              | 01 Oct 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2014.  |              |
| Hav Padma Dorjay (9924190A Now JC-588739H)                              | 01 Oct 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2014.  |              |
| Hav Ghulam Hassan (9924562A Now JC-588740X)                             | 01 Oct 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2014.  |              |

|                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Hav Nawang Norboo (9924318A Now JC-588742H)                                 | 01 Oct 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2014.      |              |
| Hav Malkiat Singh (13692100A Now JC-588743L)                                | 08 Oct 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 08 Oct 2014.      |              |
| Hav Mohd Hussan (9924596N Now JC-588744N)                                   | 01 Nov 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2014.      |              |
| Hav Tsering Punchok (9925420P Now JC-588745W)                               | 01 Nov 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2014.      |              |
| Hav Tashi Stobdan (9924418L Now JC-588746Y)                                 | 01 Nov 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2014.      |              |
| Hav Tashi Paldan (9924507K Now JC-588747F)                                  | 01 Nov 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2014.      |              |
| Hav Tsering Tashi (9924349A Now JC-588748K)                                 | 10 Nov 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 10 Nov 2014.      |              |
| Hav Stanzin Thinles (9924354L Now JC-588749M)                               | 10 Nov 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 10 Nov 2014.      |              |
| Hav Thinles Angdu (9924339W Now JC-588750F)                                 | 01 Dec 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2014.      |              |
| Hav Lobzang Rigzin (9924753P Now JC-588751K)                                | 01 Dec 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2014.      |              |
| Hav Nawang Tundup (9924156A Now JC-588752M)                                 | 01 Feb 2015* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2015.      |              |
| Hav Tsering Paldan (9924198M Now JC-588753P)                                | 01 Feb 2015* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2015.      |              |
| Hav Phunchok Angchok (9924321A Now JC-588754X)                              | 01 Feb 2015* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2015.      |              |
| Hav Mohd Faroze (9924260N Now JC-588756H)                                   | 01 Mar 2015* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2015.      |              |
| Hav Stanzin Jamyang (9924171P Now JC-588757L)                               | 01 Mar 2015* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2015.      |              |
| To Be Naib Subedar Clerk (GD)                                               |              |
| Hav/Clk Tundop Dorjee (9924914M Now JC-588730N)                             | 01 Aug 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk with effect from 01 Aug 2014.  |              |
| Hav/Clk Arvind Kumar Dixit (9924917A Now JC-588755A)                        | 01 Feb 2015* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk with effect from 01 Feb 2015.  |              |
| To Be Naib Subedar (Religious Teacher)                                      |              |
| Rfn Md Nasiruddin (14653572W Now JC-588731W)                                | 28 Jun 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub (RT) with effect from 28 Jun 2014. |              |

Nb Sub (RT) Shaikh Asad Shaikh Abdul Samad (588741A Now JC-588741A)

02 Oct 2014\*

\*Granted seniority in the rank of Nb Sub (RT) with effect from 02 Oct 2014.

JAK RIF

To be Substantive Sub Maj (GD)

|                         |            |         |                           |
|-------------------------|------------|---------|---------------------------|
| Sub Shamsher Singh      | JC-580592H | JAK RIF | 03 <sup>rd</sup> Jul 2014 |
| Sub Milap Chand         | JC-580602F | JAK RIF | 14 <sup>th</sup> Jul 2014 |
| Sub Chet Ram            | JC-580649M | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Aug 2014 |
| Sub Krishan Chand       | JC-580867L | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Aug 2014 |
| Sub Gurcharan Singh     | JC-580327M | JAK RIF | 03 <sup>rd</sup> Sep 2014 |
| Sub Ganesh Bahadur Mall | JC-580617K | JAK RIF | 08 <sup>th</sup> Sep 2014 |
| Sub Rajinder Singh      | JC-580839Y | JAK RIF | 03 <sup>rd</sup> Oct 2014 |
| Sub Vinod Kumar         | JC-580849H | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Nov 2014 |

To be Substantive Sub Maj Clk (SD)

|                                           |            |         |                           |
|-------------------------------------------|------------|---------|---------------------------|
| Sub Clk (SD) Ashwani Kumar<br>Vishwakarma | JC-580296X | JAK RIF | 02 <sup>nd</sup> Mar 2015 |
|-------------------------------------------|------------|---------|---------------------------|

To be Substantive Sub Maj (Musn)

|                      |            |         |                           |
|----------------------|------------|---------|---------------------------|
| Sub (Musn) Paras Ram | JC-580642H | JAK RIF | 10 <sup>th</sup> Apr 2015 |
|----------------------|------------|---------|---------------------------|

To be Substantive Sub (GD)

|                           |            |         |                           |
|---------------------------|------------|---------|---------------------------|
| Nb Sub Bagh Hussain       | JC-581215Y | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Mar 2014 |
| Nb Sub Suman Kalyan Singh | JC-581250F | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Jun 2014 |
| Nb Sub Jagdeep Singh      | JC-581294Y | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Jun 2014 |
| Nb Sub Bakshi Chand       | JC-581304X | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Jun 2014 |
| Nb Sub Malkit Singh       | JC-581316M | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Jun 2014 |
| Nb Sub Kishan Lal Thakur  | JC-581410W | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Jun 2014 |
| Nb Sub Harinder Singh     | JC-581203K | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Jul 2014 |
| Nb Sub Ram Singh          | JC-581244N | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Jul 2014 |
| Nb Sub Attar Singh        | JC-581305A | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Jul 2014 |
| Nb Sub Gurmeet Singh      | JC-581317P | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Jul 2014 |
| Nb Sub Vikramjeet Sharma  | JC-581341L | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Jul 2014 |
| Nb Sub Vijay Kumar        | JC-581342N | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Jul 2014 |
| Nb Sub Hem Raj            | JC-581344Y | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Jul 2014 |
| Nb Sub Puran Chand        | JC-581369H | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Jul 2014 |
| Nb Sub Ved Parkash        | JC-581375Y | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Jul 2014 |
| Nb Sub Satwinder Kumar    | JC-581416X | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Jul 2014 |
| Nb Sub Manohar Lal        | JC-581449H | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Jul 2014 |
| Nb Sub Varinder Singh     | JC-581477P | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Jul 2014 |
| Nb Sub Kuldip Singh       | JC-581385H | JAK RIF | 04 <sup>th</sup> Jul 2014 |

|                            |            |         |                           |
|----------------------------|------------|---------|---------------------------|
| Nb Sub Sat Pal             | JC-581223X | JAK RIF | 08 <sup>th</sup> Jul 2014 |
| Nb Sub Yash Pal            | JC-581419L | JAK RIF | 10 <sup>th</sup> Jul 2014 |
| Nb Sub Rashid Khan         | JC-581208H | JAK RIF | 11 <sup>th</sup> Jul 2014 |
| Nb Sub Bijender Thapa      | JC-581209L | JAK RIF | 11 <sup>th</sup> Jul 2014 |
| Nb Sub Gурpal Singh        | JC-581308N | JAK RIF | 12 <sup>th</sup> Jul 2014 |
| Nb Sub Krishan Kumar       | JC-581370A | JAK RIF | 14 <sup>th</sup> Jul 2014 |
| Nb Sub Satish Kumar        | JC-581431M | JAK RIF | 15 <sup>th</sup> Jul 2014 |
| Nb Sub Biri Singh          | JC-581407W | JAK RIF | 22 <sup>nd</sup> Jul 2014 |
| Nb Sub Bhikham Ram         | JC-581326W | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Aug 2014 |
| Nb Sub Gurbax Singh        | JC-581343W | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Aug 2014 |
| Nb Sub Satish Kumar        | JC-581346K | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Aug 2014 |
| Nb Sub Hoshiyar Chand      | JC-581358Y | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Aug 2014 |
| Nb Sub Devendra Thapa      | JC-581371H | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Aug 2014 |
| Nb Sub Mohan Lal           | JC-581408Y | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Aug 2014 |
| Nb Sub Pawan Kumar         | JC-581500K | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Aug 2014 |
| Nb Sub Ashni Kumar         | JC-581501Y | JAK RIF | 20 <sup>th</sup> Aug 2014 |
| Nb Sub Chandra Bahadur     | JC-581399H | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Sep 2014 |
| Nb Sub Nirmal Singh        | JC-581465A | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Sep 2014 |
| Nb Sub Bansi Lal           | JC-581509M | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Sep 2014 |
| Nb Sub Mahander Pal        | JC-581592P | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Sep 2014 |
| Nb Sub Suraj Gurung        | JC-581602N | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Sep 2014 |
| Nb Sub Bhajan Singh        | JC-581231W | JAK RIF | 07 <sup>th</sup> Sep 2014 |
| Nb Sub Pawan Kumar         | JC-581409F | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Oct 2014 |
| Nb Sub Bhola Ram           | JC-581426F | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Oct 2014 |
| Nb Sub Balkar Singh        | JC-581480P | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Oct 2014 |
| Nb Sub Ashwani Kumar       | JC-581513P | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Oct 2014 |
| Nb Sub Ramesh Lal Malhotra | JC-581556K | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Oct 2014 |
| Nb Sub Shiv Kumar          | JC-581446P | JAK RIF | 07 <sup>th</sup> Oct 2014 |
| Nb Sub Rachhpal Singh      | JC-581388W | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Nov 2014 |
| Nb Sub Subhash Chand       | JC-581432P | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Nov 2014 |
| Nb Sub Lok Nath Chhetry    | JC-581454N | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Nov 2014 |
| Nb Sub Gurvindra Singh     | JC-581497H | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Nov 2014 |
| Nb Sub Arjun Singh         | JC-581498L | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Nov 2014 |
| Nb Sub Yash Paul           | JC-581546A | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Nov 2014 |
| Nb Sub Padam Nabh          | JC-581578H | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Nov 2014 |
| Nb Sub Vijay Kumar         | JC-581514X | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Nov 2014 |
| Nb Sub Jagdish Raj         | JC-581291L | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Dec 2014 |
| Nb Sub Madan Kumar         | JC-581376F | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Dec 2014 |

|                            |            |         |                           |
|----------------------------|------------|---------|---------------------------|
| Nb Sub Joginder Singh      | JC-581482A | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Dec 2014 |
| Nb Sub Rabdeen Shah        | JC-581257L | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Jan 2015 |
| Nb Sub Avtar Singh         | JC-581552N | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Jan 2015 |
| Nb Sub Raj Singh           | JC-581579L | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Jan 2015 |
| Nb Sub Pawan Kumar         | JC-581377K | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Feb 2015 |
| Nb Sub Harbans Singh       | JC-581551L | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Feb 2015 |
| Nb Sub Sukhwinder Singh    | JC-581229Y | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Feb 2015 |
| Nb Sub Kulbinder Singh     | JC-581379P | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Mar 2015 |
| Nb Sub Ashok Kumar         | JC-581393F | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Mar 2015 |
| Nb Sub Islam Khan          | JC-581272A | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Apr 2015 |
| Nb Sub Kartar Singh Thakur | JC-581331F | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Apr 2015 |
| Nb Sub Hari Singh          | JC-581487Y | JAK RIF | 01 <sup>st</sup> Apr 2015 |

## To be Substantive Nb Sub

Hav Puran Singh, SM (13756029F now JC-581862Y) 21<sup>st</sup> Jun 2014\*

\* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 16<sup>th</sup> May 2014.

Hav Desh Raj (13755929Y now JC-581863F) 28<sup>th</sup> Jul 2014\*

\* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 24<sup>th</sup> May 2014.

Hav Yog Raj (13754159L now JC-581864K) 09<sup>th</sup> Jun 2014\*

\* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01<sup>st</sup> Jun 2014.

Hav Subhash Singh (13756427H now JC-581865M) 20<sup>th</sup> Jun 2014\*

\* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01<sup>st</sup> Jun 2014.

Hav Raman Singh (13756599X now JC-581866P) 02<sup>nd</sup> Jun 2014\*

\* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01<sup>st</sup> Jun 2014.

Hav Ram Datt (13756653A now JC-581867X) 01<sup>st</sup> Jun 2014

Hav Ashok Kumar (13754725A now JC-581868A) 01<sup>st</sup> Jun 2014

Hav Rakesh Agnihotri (13754736M now JC-581869H) 01<sup>st</sup> Jun 2014

Hav Surinder Singh (13754889W now JC-581870X) 30<sup>th</sup> Jun 2014\*

\* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 10<sup>th</sup> Jun 2014.

Hav Sanjay Kumar, PVC (13760533Y now JC-581871A) 02<sup>nd</sup> Jul 2014\*

\* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 28<sup>th</sup> Jun 2014.

Hav Jaswant Singh (13754163N now JC-581872H) 09<sup>th</sup> Jul 2014\*

\* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01<sup>st</sup> Jul 2014.

Hav Mohd Rashid (13755473L now JC-581873L) 07<sup>th</sup> Jul 2014\*

\* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01<sup>st</sup> Jul 2014.

Hav Harnam Singh (4362400M now JC-581874N) 07<sup>th</sup> Jul 2014\*

\* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01<sup>st</sup> Jul 2014.

Hav Raghubir Singh (13755030K now JC-581875W) 14<sup>th</sup> Jul 2014\*

\* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01<sup>st</sup> Jul 2014.

|                                                                                                               |                            |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Hav Anil Kumar                                                                                                | (13756583M now JC-581876Y) | 06 <sup>th</sup> Jul 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Jul 2014.  |                            |                            |
| Hav Rakesh Kumar                                                                                              | (13754586F now JC-581877F) | 10 <sup>th</sup> Jul 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Jul 2014.  |                            |                            |
| Hav Ram Pal                                                                                                   | (13756058W now JC-581878K) | 02 <sup>nd</sup> Jul 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Jul 2014.  |                            |                            |
| Hav Jitendra Kumar Rai                                                                                        | (13753564W now JC-581879M) | 01 <sup>st</sup> Jul 2014  |
| Hav Krishan Thakur                                                                                            | (13754543M now JC-581880F) | 01 <sup>st</sup> Jul 2014  |
| Hav Sushil Kumar Katoch                                                                                       | (13754557M now JC-581881K) | 01 <sup>st</sup> Jul 2014  |
| Hav Pritam Singh                                                                                              | (13754609X now JC-581882M) | 18 <sup>th</sup> Jul 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Jul 2014.  |                            |                            |
| Hav Santosh Kumar                                                                                             | (13620446N now JC-581883P) | 01 <sup>st</sup> Jul 2014  |
| Hav Subhash Chand                                                                                             | (13756657W now JC-581884X) | 19 <sup>th</sup> Jul 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Jul 2014.  |                            |                            |
| Hav Kulwant Singh Bandral, SM                                                                                 | (13758080A now JC-581885A) | 17 <sup>th</sup> Jul 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Jul 2014.  |                            |                            |
| Hav Joginder Singh                                                                                            | (4072982M now JC-581886H)  | 05 <sup>th</sup> Jul 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Jul 2014. |                            |                            |
| Hav Sampuran Singh                                                                                            | (13755146A now JC-581887L) | 05 <sup>th</sup> Jul 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Jul 2014. |                            |                            |
| Hav Baldev Raj                                                                                                | (13754901M now JC-581888N) | 01 <sup>st</sup> Jul 2014  |
| Hav Rajinder Singh                                                                                            | (13755152N now JC-581889W) | 05 <sup>th</sup> Jul 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Jul 2014. |                            |                            |
| Hav Sudhir Singh                                                                                              | (13758851K now JC-581894F) | 01 <sup>st</sup> May 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 20 <sup>th</sup> May 2013.  |                            |                            |
| Hav Suresh Kumar                                                                                              | (13755281N now JC-581895K) | 09 <sup>th</sup> Aug 2014  |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Jul 2014.  |                            |                            |
| Hav Satish Kumar                                                                                              | (13756054A now JC-581896M) | 01 <sup>st</sup> Aug 2014  |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Jul 2014.  |                            |                            |
| Hav Tajinder Kumar                                                                                            | (13756070X now JC-581897P) | 01 <sup>st</sup> Aug 2014  |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Jul 2014.  |                            |                            |
| Hav Rakesh Kumar                                                                                              | (13756072H now JC-581898X) | 09 <sup>th</sup> Aug 2014* |
| *Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Jul 2014.  |                            |                            |
| Hav Sanjeev Kumar                                                                                             | (13756075W now JC-581899A) | 09 <sup>th</sup> Aug 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Jul 2014  |                            |                            |
| Hav Subash Singh                                                                                              | (13755701H now JC-581900K) | 21 <sup>st</sup> Aug 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Jul 2014  |                            |                            |

|                                                                                                               |                            |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Hav Ranjit Singh                                                                                              | (13755931W now JC-581901M) | 28 <sup>th</sup> Jul 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Jul 2014. |                            |                            |
| Hav Kishan Singh                                                                                              | (13756752H now JC-581902P) | 14 <sup>th</sup> Aug 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Jul 2014. |                            |                            |
| Hav Rakesh Kumar                                                                                              | (13754912Y now JC-581903X) | 01 <sup>st</sup> Aug 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Jul 2014. |                            |                            |
| Hav Parwinder Kumar                                                                                           | (13755243X now JC-581904A) | 09 <sup>th</sup> Aug 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 08 <sup>th</sup> Jul 2014. |                            |                            |
| Hav Rajender Singh Rautela                                                                                    | (13755958N now JC-581905H) | 09 <sup>th</sup> Aug 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 10 <sup>th</sup> Jul 2014. |                            |                            |
| Hav Janak Raj                                                                                                 | (13756312P now JC-581906L) | 09 <sup>th</sup> Aug 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 10 <sup>th</sup> Jul 2014. |                            |                            |
| Hav Anrudh Singh                                                                                              | (13755055W now JC-581907N) | 09 <sup>th</sup> Aug 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 11 <sup>th</sup> Jul 2014. |                            |                            |
| Hav Kesar Singh                                                                                               | (13754441W now JC-581908W) | 09 <sup>th</sup> Aug 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 12 <sup>th</sup> Jul 2014. |                            |                            |
| Hav Deepak Sahi                                                                                               | (13754966A now JC-581909X) | 09 <sup>th</sup> Aug 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 14 <sup>th</sup> Jul 2014. |                            |                            |
| Hav Narotam Chand                                                                                             | (13754968L now JC-581910N) | 11 <sup>th</sup> Aug 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 15 <sup>th</sup> Jul 2014. |                            |                            |
| Hav Kulbir Singh                                                                                              | (13754625P now JC-581911W) | 11 <sup>th</sup> Aug 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 17 <sup>th</sup> Jul 2014. |                            |                            |
| Hav Vinay Thakur                                                                                              | (13756922F now JC-581912Y) | 14 <sup>th</sup> Aug 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 17 <sup>th</sup> Jul 2014. |                            |                            |
| Hav Prabhu Dyal                                                                                               | (13756658Y now JC-581913F) | 13 <sup>th</sup> Aug 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 22 <sup>nd</sup> Jul 2014. |                            |                            |
| Hav Avtar Singh                                                                                               | (13755283Y now JC-581914K) | 09 <sup>th</sup> Aug 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Aug 2014. |                            |                            |
| Hav Mohan Khadka                                                                                              | (13619495K now JC-581915M) | 01 <sup>st</sup> Aug 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Jul 2014. |                            |                            |
| Hav Amar Sharma                                                                                               | (13756094F now JC-581916P) | 01 <sup>st</sup> Aug 2014  |
| Hav Rupesh Sharma                                                                                             | (13756097P now JC-581917X) | 09 <sup>th</sup> Aug 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Aug 2014. |                            |                            |
| Hav Rashpaul Singh                                                                                            | (13758167F now JC-581918A) | 13 <sup>th</sup> Aug 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Aug 2014. |                            |                            |
| Hav Vijay Kumar                                                                                               | (13758185K now JC-581919H) | 13 <sup>th</sup> Aug 2014  |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Aug 2014. |                            |                            |

|                                                                                                               |                            |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Hav Gurcharan Singh                                                                                           | (13756959H now JC-581922H) | 01 <sup>st</sup> Sep 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 02 <sup>nd</sup> Jul 2014. |                            |                            |
| Hav Sanjiv Kumar                                                                                              | (13753404W now JC-581923L) | 25 <sup>th</sup> Aug 2014* |
| Hav Narotam Singh                                                                                             | (13753692N now JC-581924N) | 25 <sup>th</sup> Aug 2014* |
| Hav Ravinder Singh Palial                                                                                     | (13754364M now JC-581925W) | 25 <sup>th</sup> Aug 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 07 <sup>th</sup> Jul 2014. |                            |                            |
| Hav Anil Sharma                                                                                               | (13754813W now JC-581926Y) | 28 <sup>th</sup> Aug 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 31 <sup>st</sup> Jul 2014. |                            |                            |
| Hav Sukh Dev                                                                                                  | (13754165Y now JC-581927F) | 13 <sup>th</sup> Aug 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Aug 2014. |                            |                            |
| Hav Sher Singh                                                                                                | (13756079M now JC-581928K) | 14 <sup>th</sup> Aug 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Aug 2014. |                            |                            |
| Hav Jai Ram                                                                                                   | (13756082M now JC-581929M) | 16 <sup>th</sup> Aug 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Aug 2014. |                            |                            |
| Hav Prem Prasad Paudel                                                                                        | (13755077P now JC-581930F) | 05 <sup>th</sup> Sep 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Aug 2014. |                            |                            |
| Hav Roop Lal                                                                                                  | (13754626X now JC-581931K) | 01 <sup>st</sup> Sep 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 07 <sup>th</sup> Aug 2014. |                            |                            |
| Hav Surjit Singh                                                                                              | (13754750Y now JC-581932M) | 02 <sup>nd</sup> Sep 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 07 <sup>th</sup> Aug 2014. |                            |                            |
| Hav Dharam Pal                                                                                                | (13754751F now JC-581933P) | 02 <sup>nd</sup> Sep 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 07 <sup>th</sup> Aug 2014. |                            |                            |
| Hav Gurdev Singh                                                                                              | (13756970F now JC-581934X) | 01 <sup>st</sup> Sep 2014  |
| Hav Tehal Singh                                                                                               | (13756428L now JC-581935A) | 18 <sup>th</sup> Sep 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Sep 2014. |                            |                            |
| Hav Umesh Tamang                                                                                              | (13756103X now JC-581936H) | 18 <sup>th</sup> Sep 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Sep 2014. |                            |                            |
| Hav Manjeet Singh                                                                                             | (13758225A now JC-581937L) | 01 <sup>st</sup> Sep 2014  |
| Hav Mohinder Chand                                                                                            | (13757062L now JC-581938N) | 18 <sup>th</sup> Sep 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 07 <sup>th</sup> Sep 2014. |                            |                            |
| Hav Susheel Kumar                                                                                             | (13755042Y now JC-581939W) | 13 <sup>th</sup> Sep 2014  |
| Hav Devi Dass                                                                                                 | (1375524A now JC-581940L)  | 11 <sup>th</sup> Jul 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 <sup>st</sup> Jul 2014. |                            |                            |
| Hav Balvir Singh                                                                                              | (13755513F now JC-581941N) | 15 <sup>th</sup> Oct 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 03 <sup>rd</sup> Jul 2014. |                            |                            |
| Hav Jagjit Singh                                                                                              | (13755433K now JC-581942W) | 03 <sup>rd</sup> Oct 2014* |
| * Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 12 <sup>th</sup> Jul 2014. |                            |                            |

Hav Subhash Chand (13754464Y now JC-581943Y) 22<sup>nd</sup> Aug 2014\*

\* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01<sup>st</sup> Aug 2014.

Hav Kamlesh Kumar (13754548L now JC-581944F) 07<sup>th</sup> Oct 2014\*

\* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 21<sup>st</sup> Aug 2014.

Hav Kishore Kumar (13755601X now JC-581945K) 13<sup>th</sup> Oct 2014\*

\* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 21<sup>st</sup> Sep 2014.

Hav Surinder Singh (13755702L now JC-581946M) 29<sup>th</sup> Oct 2014\*

\* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 27<sup>th</sup> Sep 2014.

Hav Magal Singh (13755553H now JC-581947P) 07<sup>th</sup> Oct 2014\*

\* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01<sup>st</sup> Oct 2014.

Hav Raj Kumar (13756192F now JC-581948X) 04<sup>th</sup> Oct 2014\*

\* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01<sup>st</sup> Oct 2014.

Hav Kuljit Singh (13756077F now JC-581949A) 23<sup>rd</sup> Oct 2014\*

\* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01<sup>st</sup> Oct 2014.

Hav Naresh Kumar (13758227L now JC-581950P) 24<sup>th</sup> Oct 2014\*

\* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01<sup>st</sup> Oct 2014.

Hav Khem Chand (13758248F now JC-581951X) 03<sup>rd</sup> Nov 2014\*

\* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01<sup>st</sup> Oct 2014.

Hav Gurdev Singh (13755215L now JC-581952A) 01<sup>st</sup> Nov 2014

Hav Jinder Pal Singh (13756092W now JC-581953H) 01<sup>st</sup> Nov 2014

Hav Kuldip Kumar (13756093Y now JC-581954L) 01<sup>st</sup> Nov 2014

Hav Des Raj (13755481K now JC-581955N) 01<sup>st</sup> Nov 2014

Hav Kehar Singh (13755208P now JC-581956W) 18<sup>th</sup> Nov 2014\*

\* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01<sup>st</sup> Nov 2014.

Hav Savinder Pal Singh (13755302Y now JC-581957Y) 13<sup>th</sup> Nov 2014\*

\* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01<sup>st</sup> Nov 2014.

Hav Jagdev Singh (13755381Y now JC-581958F) 12<sup>th</sup> Nov 2014\*

\* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01<sup>st</sup> Nov 2014.

To be Substantive Nb Sub Clk (SD)

Hav Clk (SD) Sanjeev Kumar (3991098H now JC-581860N) 01<sup>st</sup> Jul 2014

Hav Clk (SD) Deshmukh Ravikant (13756629K now JC-581861W) 01<sup>st</sup> Jul 2014  
Aparai

Hav Clk (SD) Om Prakash (13756745M now JC-581890L) 01<sup>st</sup> Aug 2014

Hav Clk (SD) Swarup Kumar (13756756Y now JC-581891N) 01<sup>st</sup> Aug 2014  
Mondal

|                                      |                            |                           |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Hav Clk (SD) Brajendra Singh         | (13756898W now JC-581892W) | 01 <sup>st</sup> Aug 2014 |
| Hav Clk (SD) Laksman Sarkar          | (13756942P now JC-581893Y) | 01 <sup>st</sup> Aug 2014 |
| Hav Clk (SD) Pradeep Kumar<br>Sharma | (13756995N now JC-581920X) | 01 <sup>st</sup> Sep 2014 |
| Hav Clk (SD) Tarseem Singh           | (13756998F now JC-581921A) | 01 <sup>st</sup> Sep 2014 |
| Hav Clk (SD) Madan Lal               | (13756586A now JC-581959K) | 01 <sup>st</sup> Nov 2014 |
| Hav Clk (SD) C Karuppaiah            | (13756667A now JC-581960Y) | 01 <sup>st</sup> Nov 2014 |
| Hav Clk (SD) Rajinder Singh          | (13753144W now JC-581961F) | 01 <sup>st</sup> Dec 2014 |
| Hav Clk (SD) Rajesh Chand            | (13754226L now JC-581962K) | 01 <sup>st</sup> Dec 2014 |

## THE RAJPUTANA RIFLES

## TO BE NB SUB

|                                                                                                         |                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Nb Sub Dharmbir                                                                                         | (2888990K now JC-471597L) | 10 May 2015<br>*01 Aug 2014 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Aug 2014 without effect on pay & allces) |                           |                             |
| Nb Sub Dildar Husain Ansari                                                                             | (2888919W now JC-471598N) | 27 May 2015<br>*01 Jan 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Jan 2015 without effect on pay & allces) |                           |                             |
| Nb Sub Subhash Chandra                                                                                  | (2888651K now JC-471599W) | 24 Apr 2015<br>*01 Jan 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 <sup>st</sup> Jan 2015 without effect on pay & allces)     |                           |                             |
| Nb Sub Surender Kumar                                                                                   | (2889552N now JC-471600A) | 02 Jul 2015<br>*01 Jan 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 <sup>st</sup> Jan 2015 without effect on pay & allces)     |                           |                             |
| Nb Sub Mahesh Singh Rajput                                                                              | (2893341H now JC-471601H) | 13 Jun 2015<br>*08 Jan 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub 08 <sup>th</sup> Jan 2015 without effect on pay & allces)     |                           |                             |
| Nb Sub Sultan Singh                                                                                     | (4074363X now JC-471602L) | 30 May 2015<br>*13 Jan 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub 13 <sup>th</sup> Jan 2015 without effect on pay & allces)     |                           |                             |
| Nb Sub Bajrang Singh                                                                                    | (2889466H now JC-471603N) | 27 May 2015<br>*01 Feb 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 <sup>st</sup> Feb 2015 without effect on pay & allces)     |                           |                             |
| Nb Sub Rajveer Singh                                                                                    | (3994007Y now JC-471604W) | 16 Apr 2015<br>01 Feb 2015  |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 <sup>st</sup> Feb 2015 without effect on pay & allces)     |                           |                             |
| Nb Sub Charan Singh                                                                                     | (2888160N now JC-471605Y) | 06 Jul 2015<br>*01 Feb 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 <sup>st</sup> Feb 2015 without effect on pay & allces)     |                           |                             |
| Nb Sub Hajari Lal Verma                                                                                 | (2889814Y now JC-471606F) | 05 Jun 2015<br>*26 Feb 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub 26 <sup>th</sup> Feb 2015 without effect on pay & allces)     |                           |                             |

|                                                                                                         |                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Nb Sub Raj Karan Singh                                                                                  | (2889482A now JC-471607K) | 27 May 2015<br>*25 Mar 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub 25 <sup>th</sup> Mar 2015 without effect on pay & allces)     |                           |                             |
| Nb Sub Sunil Kumar                                                                                      | (2888879A now JC-471608M) | 08 Apr 2015<br>*01 Apr 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 <sup>st</sup> Apr 2015 without effect on pay & allces)     |                           |                             |
| Nb Sub Vishal Singh Bhadoriya                                                                           | (2888787N now JC-471609P) | 26 Apr 2015<br>*01 Apr 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 <sup>st</sup> Apr 2015 without effect on pay & allces)     |                           |                             |
| Nb Sub Shyamvir Singh                                                                                   | (2889155P now JC-471610K) | 08 Apr 2015<br>*01 Apr 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 <sup>st</sup> Apr 2015 without effect on pay & allces)     |                           |                             |
| Nb Sub Mahesh Singh                                                                                     | (2889035W now JC-471611M) | 01 Apr 2015                 |
| Nb Sub Ramesh                                                                                           | (2888314P now JC-471612P) | 03 Apr 2015<br>*01 Apr 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 <sup>st</sup> Apr 2015 without effect on pay & allces)     |                           |                             |
| Nb Sub Jaivir Singh                                                                                     | (2891285W now JC-471613X) | 18 Apr 2015<br>*01 Apr 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 <sup>st</sup> Apr 2015 without effect on pay & allces)     |                           |                             |
| Nb Sub Rajesh Kumar                                                                                     | (2896901P now JC-471614A) | 05 Jun 2015<br>*01 Apr 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 <sup>st</sup> Apr 2015 without effect on pay & allces)     |                           |                             |
| Nb Sub/Clk Deba Prasad Sarkar                                                                           | (2890697L now JC-471615H) | 30 May 2015<br>*01 May 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 <sup>st</sup> May 2015 without effect on pay & allces)     |                           |                             |
| Nb Sub/Clk Pawan Kumar Sharma                                                                           | (2890772K now JC-471616L) | 25 May 2015<br>01 May 2015  |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 <sup>st</sup> May 2015 without effect on pay & allces)     |                           |                             |
| Nb Sub Shivjeet Singh                                                                                   | (2890979K now JC-471617N) | 01 May 2015                 |
| Nb Sub Prakash Narayan Singh                                                                            | (2888393P now JC-471618W) | 04 May 2015<br>*01 May 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> May 2015 without effect on pay & allces) |                           |                             |
| Nb Sub Malam Singh                                                                                      | (2887911X now JC-471619Y) | 17 Jun 2015<br>01 May 2015  |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> May 2015 without effect on pay & allces) |                           |                             |
| Nb Sub Jitendra Singh                                                                                   | (2889157A now JC-471620N) | 01 May 2015                 |
| Nb Sub Naveen Kumar                                                                                     | (2888748P now JC-471621W) | 06 May 2015<br>*01 May 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 <sup>st</sup> May 2015 without effect on pay & allces)     |                           |                             |

|                                                                                                         |                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Nb Sub Sita Ram Choudhary                                                                               | (2888175W now JC-471622Y) | 12 Jun 2015<br>*29 May 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 29 <sup>th</sup> May 2015 without effect on pay & allces) |                           |                             |
| Nb Sub Daki Ranmal Jiva                                                                                 | (2888149P now JC-471623F) | 01 Jun 2015                 |
| Nb Sub Naresh Singh Nirban                                                                              | (2889555F now JC-471624K) | 13 Jul 2015<br>*01 Jun 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Jun 2015 without effect on pay & allces) |                           |                             |
| Nb Sub Shravan Kumar Singh                                                                              | (2888297A now JC-471625M) | 12 Jun 2015<br>*01 Jun 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Jun 2015 without effect on pay & allces) |                           |                             |
| Nb Sub Ravi Singh                                                                                       | (2888973K now JC-471626P) | 01 Jun 2015                 |
| Nb Sub Ajay Kumar                                                                                       | (2890160M now JC-471627X) | 28 Jun 2015<br>*01 Jun 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Jun 2015 without effect on pay & allces) |                           |                             |
| Nb Sub Iqbal Hussain                                                                                    | (2889012P now JC-471628A) | 13 Jul 2015<br>*01 Jun 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Jun 2015 without effect on pay & allces) |                           |                             |
| Nb Sub Kapindra Singh Tanwar                                                                            | (2889408Y now JC-471629H) | 01 Jun 2015                 |
| Nb Sub Kumar Pal Singh                                                                                  | (2889094H now JC-471630X) | 04 Jun 2015<br>*01 Jun 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Jun 2015 without effect on pay & allces) |                           |                             |
| Nb Sub Rishi Pal                                                                                        | (2890826A now JC-471631A) | 02 Jun 2015<br>*01 Jun 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Jun 2015 without effect on pay & allces) |                           |                             |
| Nb Sub Dharmendra Kumar                                                                                 | (2889833K now JC-471632H) | 02 Jul 2015<br>15 Jun 2015  |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 <sup>th</sup> Jun 2015 without effect on pay & allces) |                           |                             |
| Nb Sub Vijendra Singh                                                                                   | (2889381M now JC-471633L) | 09 Jul 2015<br>*16 Jun 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 <sup>th</sup> Jun 2015 without effect on pay & allces) |                           |                             |
| Nb Sub Parkash Maan                                                                                     | (2888738L now JC-471634N) | 13 Jul 2015<br>*24 Jun 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 24 <sup>th</sup> Jun 2015 without effect on pay & allces) |                           |                             |
| Nb Sub Ram Niwash Mahla                                                                                 | (2890501M now JC-471635W) | 02 Jul 2015<br>*01 Jul 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Jul 2015 without effect on pay & allces) |                           |                             |
| Nb Sub Anil Kumar                                                                                       | (2891524A now JC-471636Y) | 06 Jul 2015<br>*01 Jul 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Jul 2015 without effect on pay & allces) |                           |                             |

VN RAVEENDRAN  
Under Secretary

## ARMY BRANCH

No. 223, dated 27th August 2015—The President is pleased to permit the undermentioned officer to relinquish the Short Service Commission in the Army Dental Corps wef 26 Dec 2014 and to grant them Permanent Commission in the Army Dental Corps from the same date under AI 37/78 as amended :-

REGULAR ARMY  
ARMY DENTAL CORPS  
PERMANENT COMMISSION

SHORT SERVICE COMMISSION TO PERMANENT COMMISSION

| Rank & Name                   | Number    | Date of PC with date of seniority                                        |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Maj Peeyush Pathak            | DR-10707L | 26-12-2014 with seniority for pay, promotion and pension wef 28-02-2007  |
| Maj Krishna Prasad KR         | DR-10708N | 26-12-2014 with seniority for pay, promotion and pension wef 04-11-2007  |
| Maj Maurya Rajkumar Ramjatan  | DR-10709W | 26-12-2014 with seniority for pay, promotion and pension wef 01-03-2008  |
| Maj Soumyajit Kumar Santra    | DR-10710L | 26-12-2014 with seniority for pay, promotion and pension wef 14-03-2008  |
| Maj Arnav Mukherji            | DR-10711N | 26-12-2014 with seniority for pay, promotion and pension wef 29-03-2009  |
| Capt Rohin Takkiar            | DR-10712W | 26-12-2014 with seniority for pay, promotion and pension wef 30-08-2010  |
| Capt Muneesh Joshi            | DR-10713Y | 26-12-2014 with seniority for pay, promotion and pension wef 14-10-2010  |
| Capt Gaurav Pratap Singh      | DR-10714F | 26-12-2014 with seniority for pay, promotion and pension wef 07-03-2011  |
| Capt Harsh Rathee             | DR-10715K | 26-12-2014 with seniority for pay, promotion and pension wef 16-03-2011  |
| Capt Pushkar Sadanand Andhare | DR-10716M | 26-12-2014 with seniority for pay, promotion and pension wef 01-04-2011  |
| Capt Dushyant Malik           | DR-10717P | 26-12-2014 with seniority for pay, promotion and pension wef 02-05-2011  |
| Capt Vivek Kumar Thakur       | DR-10718X | 26-12-2014 with seniority for pay, promotion and pension wef 02-May-2011 |
| Capt Nitin Kumar Verma        | DR-10719A | 26-12-2014 with seniority for pay, promotion and pension wef 13-05-2011  |
| Capt Shiju Mathew Jacob       | DR-10720P | 26-12-2014 with seniority for pay, promotion and pension wef 30-05-2011  |
| Capt Ashish Thakur            | DR-10721X | 26-12-2014 with seniority for pay, promotion and pension wef 17-08-2011  |
| Capt Sunny Bhatia             | DR-10722A | 26-12-2014 with seniority for pay, promotion and pension wef 25-08-2011  |
| Capt Potnuru Indraneel        | DR-10723H | 26-12-2014 with seniority for pay, promotion and pension wef 05-09-2011  |

|                                |           |                                                                         |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Capt Shubham Khanna            | DR-10724L | 26-12-2014 with seniority for pay, promotion and pension wef 10-09-2011 |
| Capt Arun Kumar Shadamarshan R | DR-10725N | 26-12-2014 with seniority for pay, promotion and pension wef 26-03-2012 |
| Capt Pramod Kumar              | DR-10726W | 26-12-2014 with seniority for pay, promotion and pension wef 26-03-2012 |

HS SANDHU  
Brig  
DDGDS (P)

---

ARMY BRANCH

No. 224, dated 27th August 2015—The President is pleased to permit the undermentioned officer to resign from Army Service, w.e.f. the date shown against his name under AI 15/79.

REGULAR ARMY  
ARMY DENTAL CORPS  
SHORT SERVICE COMMISSION

RESIGNATION

| Personal No | Rank | Name         | Date of resignation |
|-------------|------|--------------|---------------------|
| DS-12522H   | Capt | Anshul Arora | 31-03-2015 (FN)     |

HS SANDHU  
Brig  
DDGDS (P)

---

ARMY BRANCH

No. 225, dated 28th August 2015—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from Army Service, w.e.f. the date shown against his name under AI 37/78.

REGULAR ARMY  
ARMY DENTAL CORPS  
PERMANENT COMMISSION

RETIREMENT

| Personal No | Rank     | Name         | Date of Retirement |
|-------------|----------|--------------|--------------------|
| DR-10298H   | Lt Gen   | Vimal Arora  | 22-03-2015 (AN)    |
| DR-10328P   | Maj Gen  | GK Thapliyal | 28-02-2015 (AN)    |
| DR-10312K   | Col (TS) | Y Tyagi      | 30-04-2015 (AN)    |

The President is pleased to permit the undermentioned officer to prematurely retire from Army Service, w.e.f. the date shown against his name under AI 37/78:

PREMATURE RETIREMENT

|           |          |                |                 |
|-----------|----------|----------------|-----------------|
| DR-10383L | Col (TS) | Prakash Haldar | 31-03-2015 (AN) |
|-----------|----------|----------------|-----------------|

HS SANDHU  
Brig  
DDGDS (P)

## ARMY BRANCH

No. 226, dated 28th August 2015—The President is pleased to release the undermentioned Officers from Army Service w.e.f. the dates shown against their names under AI 15/79.

REGULAR ARMY  
ARMY DENTAL CORPS  
SHORT SERVICE COMMISSION

## RELEASE

| Pers No.  | Rank & Name            | Date of Release |
|-----------|------------------------|-----------------|
| DS-12142K | Maj T Shamananda Singh | 08-04-15 (AN)   |
| DS-12351F | Maj Rohit Thakur       | 28-04-15 (FN)   |
| DS-12375L | Maj (Ms) Divya         | 15-04-15 (AN)   |

HS SANDHU  
Brig  
DDGDS (P)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में  
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015  
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,  
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

[www.dop.nic.in](http://www.dop.nic.in)